

सहजानंद शास्त्रमाला

परमात्मप्रकाश प्रवचन

भाग ४

रचयिता

अद्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री क्षु० मनोहरजी वर्णी “सहजानन्द” महाराज

प्रकाशक

श्री सहजानंद शास्त्रमाला, मेरठ

एवं

श्री माणकचंद हीरालाल दिगम्बर जैन पारमार्थिक न्यास
गांधीनगर, इन्दौर

Online Version : 001

(सर्वाधिकार सुरक्षित)
 श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
परमात्मभक्ताश्रा प्रवचन
 अष्टम भाग



प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वणी
“श्रीमतसहजानन्द” महाराज

प्रम्पादक :—

महाबीरप्रसाद जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन, सरफ़
 मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
 १८८५, रत्नजीतपुरी, सदर मेरठ
 (ह० प्र०)

प्रथम संस्करण]
 १०००

१९६७

[मूल्य
 १)५०

आत्म-कीर्तन

शान्तमूर्ति न्यायतोथे पृथ्ये श्री मनोहरजी वर्णी “सहजानन्द” महाराज
द्वारा रचित

हुँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । हाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेक॥

[१]

मैं वह हूँ जो हैं भगवान् , जो मैं हूँ वह हैं भगवान् ।
अन्तर यही ऊपरी ज्ञान , वे विराग यहाँ राग वितान ॥

[२]

यम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निष्ठ अजान ॥

[३]

सुख दुख दाता कोई न आन , योह राग रुष दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहि लेश निदान ॥

[४]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु शुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम , आङ्गुष्ठसाका फिर क्या काम ॥

[५]

होसा स्वयं जगत परिणाम , मैं जगहो करता क्या काम ।
हूँ हटो परकृत परिणाम , ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥

ॐ अहिंसा परमो धर्म ओ

परमात्मप्रकाश प्रवचन अष्टम भाग

प्रवक्ता:— आद्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहर जी वर्णी “सहजानंद” महाराज

इस परमात्म प्रकाश प्रन्थमें परमात्मस्वभावकी चर्चा है। यह परमात्मस्वभाव प्रत्येक जीवमें स्वतः पाया जाता है। यह आत्मा जिस स्वभावरूप रूप है उस स्वभावमें कोई विकार न आये और उस स्वभावका शुद्ध विकास हो उसीको व्यक्त परमात्मा कहते हैं। जो है वही निरावरण निर्मल, विविक्त, निःसंग हो गया इसीका अर्थ है परमात्मा। यह परमात्मत्व प्रत्येक जीवमें है, चाहे बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो या परमात्मा हो। परमात्मामें परमात्मत्व व्यक्त है। अंतरात्मामें परमात्मस्वभावकी हृष्टि है और उसकी दृष्टिका आनन्द और अनुभव भी चल रहा है। बहिरात्मामें परमात्मत्व स्वभावसे है। जब जीव परमात्मस्वभावकी हृष्टि करता है तब उसे परमात्मस्वभावकी दृष्टिके कारण ३० यं सहज स्वाधीन आनन्द जगता है। उस आनन्दमें यह सामर्थ्य है कि भव-भवके बद्ध कर्म भी जीर्ण हो जाते हैं। उस आत्माधीन सुखसे ग्रीति करने के लिए, श्री योगीन्दु देव इस दोहे को कहते हैं।

अप्पायत्त जं जि सुहु तेण जि करि संतोसु ।

पर सुहु बहु चितंताहैं हिय इ एं फिट्टू दोसु ॥१५४॥

हे वत्स ! जो आत्माधीन सुख है उससे ही तू संतोष कर। इन्द्रियाधीन सुखको चिनने वालेके हृदयमें दाह नहीं मिटती है। पराधीन सुखकी इच्छामें चिन्तमें दाह बना रहता है। इच्छा ही स्वयं दाह है और इच्छाके अनुकूल बात न हो तो उस दाहकी और वृच्छिहोती है। कदाचित् इच्छाके अनुकूल सिद्धि भी हो गयी तो उसे भोगनेकी आकुलता रहती है। इन्द्रियाधीन सुख-सुख, नहीं है वह तो विडम्बना है। एक आत्माधीन सुख ही वास्तविक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह आत्माधीन सुख आत्मासे ही उत्पन्न होता है। उसे किसी परकी आधीनता न चाहिए। अन्य द्रव्योंकी अपेक्षा न निरखनेसे उत्पन्न हुआ वह हुख है। दूसरे वह सुख गुणोंको जगाता हुआ उत्पन्न होता है। ज्ञानसे सम्बन्ध रखते हुए वह आनन्द है। भूल भुलावेको वह मौज नहीं है। जैसे संसारी मौज है तो वह भूल भुलावेको बढ़ाता हुआ होता है, किन्तु वह आत्मीय आनन्द ज्ञानभावको जगाता और बढ़ाता हुआ होता है। यह शुद्धआत्माके सम्बोधन से उत्पन्न होता है। ऐसा जो आत्माधीन सुख है, हे वत्स ! तू उस सुखमें

ही संतोष कर ।

इन्द्रियाधीन सुखको परसुख कहते हैं, पराधीन सुख कहते हैं । सो हे मित्र ! जो पराधीन सुखकी वाक्षा करता है उसके हृदयमें जो दाह उत्पन्न होती है वह नहीं मिटती । आत्माकी रति, अध्यात्मप्रेम, अध्यात्म हृषि, आत्माका अनुभव —ये सब स्वाधीन हैं और इस सुखमें यही खुद आत्म-पदसे भ्रष्ट होकर बिनाश करे तो करे किन्तु इस आत्माधीन सुखमें विच्छेद करनेका सामर्थ्य आन्य किसी पदार्थमें नहीं है । विच्छेदरहित है यह आत्माधीन सुख । वैसे तो जो इन्द्रियाधीन सुख है वह भी अपनी कल्पनासे होता है, पर उस सुखमें है आश्रयभूत परपदार्थ और परका संयोग होना यह इस जीवके आधीन नहीं है, इस कारण परपदार्थका अभाव हुआ, वियोग हुआ तो उस इन्द्रिय सुखमें बाधा आयेगी, परन्तु आत्माधीन सुख किसी परपदार्थके आश्रयसे नहीं होता, इस कारण परका वियोग हो तो, संयोग हो तो, किसी भी अवस्थाको प्राप्त हो तो जब शुद्ध आनन्दका आश्रयभूत परपदार्थ होता ही नहीं है तो परकी परिणतिसे यहां आनन्दमें विच्छेद नहीं होता ।

मैया ! यह ही अशक होकर उस अनन्त ज्ञानकी निधिको पा सकने योग्य, रख सकने योग्य, बहुपन न पाकर अनुदारताके कारण स्वधावसे स्वलिप्त हो जाय और बाह्य पदार्थमें कल्पना करके उस आनन्दका घात करदे तो करे, पर जैसे इन्द्रियसुखका विधात इन्द्रियसुखके आश्रयभूत परपदार्थोंके वियोगसे हो जाता है इस प्रकारका विधात इस आत्मीय आनन्दमें नहीं होता । यह आत्माधीन सुख विध्न समूहोंसे रहित है । आत्मीय आनन्दमें पदमें संयोग वियोगसे हानि वृद्धि नहीं होती, सद्भाव अभाव नहीं होता क्योंकि आत्मीय आनन्द परकी हृषि बिना हुआ करता है इसलिए परकी ओरसे इस आत्मामें इस आनन्दके अनुभवमें कोई विध्न नहीं होता है । यह ही नहीं रह सकता, इसमें ही महत्व नहीं है, गम्भीरता नहीं है, ज्ञानमें हड़ प्रवेश नहीं है । सो स्वयं आकृतिहोकर अपने आनन्द गृहसे निकलकर बाहरकी ओर तक कर-दुःखी होता है । किन्तु इसके आनन्दमें बाधा करने वाला कोई बाधा पदार्थ नहीं होता । ऐसा यह आत्मीय आनन्द है ।

पंचेन्द्रियके विषयभोगोंका आनन्द उनकी रति पराधीन है । कितनी आधीनताएँ हैं इन्द्रिय सुखके निर्माणमें ? कितनी परवस्तुवोंका समागम चाहिए और इन्द्रियकी समर्थता, देहकी समर्थता, मित्रजनोंका, परिवार-जनोंका प्रसाद, अनेक घन वैभव पैसा और इन सबका समागम कितनी

इसमें आधीनता है, पर आत्मीय सुखमें परकी आधीनता नहीं है। भोजन पान आदि भी इन्द्रियका उपभोग है। इन्द्रियोपभोगोंको छोड़कर शरीरके बन्धनमें जकड़ा हुआ जीव आहारपान बिना सदाको एकदम आत्मीय आनन्दमें पहुंच जाय तो वह जरा दुर्भाग है। कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं जो इन्द्रियाधीन प्रवृत्तियोंके उपभोगको एकदम छोड़कर छोड़ ही चुप ते हैं और आत्मीय आनन्दमें बिमोर हो जाते हैं। ऐसे बिरले ही पुरुष हैं साधुबोधमें भी, मुनिजनोंमें भी। आजकल तो होते ही नहीं हैं, पर पुराणे जो मुनि हुए हैं उनमें भी बाहुबलि, भरत जैसे बिरले ही साधु ऐसे हुए हैं कि त्याग दिया तो फिर त्याग ही, फिर आहार भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, चले किरे भी नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं करी। सन्न्यास किया तो किया ही। ऐसे बिरले हैं।

अब इस सन्धियमें करें क्या? संतजन आत्मीय आनन्दमें तो लगते हैं और विषयोंकी मौजसे घबड़ाते हैं किन्तु आहारपानके उपभोग बिना गुजारा नहीं है, भोजन करना ही है। ऐसी संधियमें जो करना होता है करते हैं तिस पर भी यह ज्ञानीका विवेक जागृत है कि सुख है तो वह आत्मीय सुख ही है। क्या चारा है? जवरदस्ती प्राण छोड़ दिए जायें तो क्या कोई कल्याण और मुक्तिका उपाय है? बाये उपभोग बिना, अर्थात् आहार जलपान बिना द्रव्य प्राणोंका बहुत कालों तक टिकना यह असम्भव बात है, ऐसी सन्धिको ज्ञानी जीव नहीं चाहता है। इन्द्रियोंका उपभोग भोजन आदिक फिर भी करना पड़ता है और ऐसा भी कुछ बेहोश नहीं है कि गलेसे भोजन अटकते गटकते चला जा रहा है, स्वादका भी पता नहीं है, ऐसी भी दिशति नहीं होती है, जानता है वह कि यह मीठा है, यह नमक है, स्वादोंका भी उसे पता है, भोजन आदिक भी करे, फिर भी भोजन आदिकी रुचि न होकर एक आत्मीय आनन्दकी रुचि जगे ऐसा शुद्ध जो परिणाम है ज्ञान और वैराग्यका, वह एक अद्भुत ही परिणाम है।

विवेकीको सदा संवधानी है कि आनन्द है तो वह आत्मीय आनन्द ही है। जैसे ईर्धनके डालनेसे अग्निकी रुप्ति नहीं होती है, आग जलती हो, कोई चाहे कि आगमें लकड़ी और कोयला डाल दें तो आग शांत हो जायेगी, तो क्या आगको उससे संतोष होता है? मेरा अब पेट भर चुका, अब तू लकड़ी कोयला मत मुझे दे, अब हमारी ज्वाला न फैलेगी, खूब संतोष हो गया है, क्या अग्निकी ओरसे ऐसा उत्तर मिलता है? अग्निके मुख नहीं है पर एक साहित्यिक रूपमें कह रहे हैं कि क्या अग्निकी ओरसे

ऐसा जबाब मिलता है कि अब हमें ईंधन नहीं चाहिए कि एक बार यह मनुष्य तो कह देगा कि अब हमें भोजन न चाहिए भगर उसी टाइम कहने के लिए है। ६-८ बांटे व्यतीत हों फिर कहे तो जाने कि भोजन करनेसे इस मनुष्यको संतोष है। उसको संतोष नहीं हैं पर ऐटमें जगह नहीं है सो कह मारकर मना करता है, अब न चाहिए।

तो जैसे अनिनको ईंधनसे मंतोष नहीं होता, हजारों नवियोंके मेलसे समुद्रको संतोष नहीं होता इसी प्रकार ये भोगरति विषय सुख इनके भोगसे नहीं नहीं होती। कोई सोचे कि अमुक प्रकारका विषय मैं एक बार भोगूँ फिर नहीं, तो एक बार भोगनेका जो विकल्प है वह मलिन है। उस मलिनतामें ऐसी योग्यता भरी है कि आगे भी उप्त नहीं हो सकता। ऐसा जानकर भोग सुखका त्याग करो।

हे भव्य पुरुषों ! इस अध्यात्म सुखमें स्थित होकर इस अध्यात्म ज्योति की ही भावना करना चाहिए। मैं एक ज्ञानमात्र हूँ, ऐसे उस सहज-स्व भावमें रति करना है। यह मैं केवल ज्ञान प्रक शमात्र हूँ, ऐसा अनुभव करके सन्तुष्ट होना। मैं एक ज्ञानमात्र हूँ और ज्ञानमात्र परिणमन हो जाना यह ही एकमात्र दृष्टि है, ऐसे इस ज्ञानस्वभावमें ही रति हो, दृष्टि हो, संतोष हो। सुखका मार्ग इसको छोड़कर अन्य कुछ नहीं है। पर ऐसा होने के लिए अंतरंगमें त्यागभावना विशेष चाहिए। जिस क्षण यह आत्मीय आनन्दकी झलक होती है उस क्षण इस जीवके किसी भी प्रकारका परस्परन्धी विकल्प नहीं रहता है। इसके लिए यत्न यह करना होगा कि जगत्के सभी पदार्थोंमें परताकी भावना बनाना होगा। इन सब जीवोंमें से हो चार जीव तो मेरे हैं, हितू हैं, मित्र हैं, भक्ते हैं, सब कुछ हैं और सब गैर हैं, न कुछ हैं, ऐसी मूलमें हृष्टि बनी हो तो उसमें यह योग्यता ही नहीं आती है कि कभी विकल्प मिटे, निर्विकल्प आनन्दका वह लाभ मिल सके। तो हे मुमुक्षुपुरुष ! इन्द्रियावीन सुखकी रति छोड़कर उस आत्मावीन सुखमें ही रति कर !

देखो मैया ! जैसे हुए और काष्ठोंसे अपिन शांत नहीं होती, हजारों नदियोंके आनेसे बड़ा समुद्र भी रूप नहीं हुआ करता, इसी प्रकार काम और भोगोंके यत्नसे यह जीव कभी भी उप्त नहीं हो सकता है। अतः अध्यात्म रति करो, अध्यात्म स्थिति बनाओ। अध्यात्मका अर्थ है—“आत्मनि इति अध्यात्मः।” “आत्माये” शब्दार्थ इतना ही है। अध्यात्म एक समास बाला पद है, इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि बाह्य द्रव्योंका आलम्बन छोड़कर केवल आत्मद्रव्यमें ही

अपनी निगाह बनाना, इसको कहते हैं अध्यात्मयोग । मिथ्यात्व कषायादिक समस्त वास्तु भावोंसे अपने आत्माको हटाकर और जैस। कि इसका सहज स्वरूप है उस रवृहृपमें दृष्टि लगाना, चिठ्रता लाना, इसको कहते हैं अध्यात्मयोग । सो ऐसे अध्यात्मआनन्दको पाओ और पराधीन सुखकी वाङ्छाको दूरकर अब आत्माका ज्ञानस्वभाव दिखाते हैं ।

अपहं णाणु परिक्षयवि अणुणु ण अतिथि सहात् ।

इउ जाणेविणु जोइयहु परहँ म बंधउ राउ ॥१५५॥

आत्माका जो निज स्वभाव है वह ज्ञानस्वभाव है । ज्ञानभावको छोड़कर इस आत्मामें अन्य और कोई स्वभाव नहीं है—ऐसा जानकर है योगी ! परवस्तुमें रागको मत बांध । इस आत्मामें ज्ञान द्वारा थोड़ा प्रवेश करते हुए अंदाज तो करो कि आखिर आत्मामें है क्या ? जो ज ननहार है उस जाननहार पदार्थमें है । क्या चीज ? अन्तर्दृष्टि करके देखो । इन्द्रियोंको संयत करके देखा तो अन्तरमें इसे क्या मिलता है ? हड्डी खूनका इसे ल्याल नहीं होता कि मेरे अन्दरमें हड्डी है और कुछ चीजें भरी हैं, ऐसा ल्याल नहीं होता क्योंकि वह अध्यात्म नहीं है । केवल जाननहार जो तत्त्व है उस जाननस्वरूपको ही निरखकर देखता है कि यह मैं क्या हूं ? वहां तो शरीर दिखता भी नहीं । यह भी विदित नहीं होता कि है शरीर कि नहीं ।

मैया ! यहां अध्यात्मयोग की बात कही जा रही है । बजन सगना, हल्का लगाना, बोझल होना, कुछ अवृच्छनसी होना, उस ऊँचे योगमें ये कोई बातें नहीं हैं । वहां तो केवल ज्ञानप्रकाश ही दृष्टि होता है । इस आद्या को खो जनेको चलें कि है क्या ? तो मिलेगा केवल एक ज्ञानप्रकाश यह आत्मा एक प्रतिभासात्मक विलक्षण पदार्थ है, जो है सो है यह । इसको किसीने बनाया नहीं, बड़ा नहीं, किन्तु जो अनादिसे है सो है । वह किमातक है । यह समझानेके लिए कुछीसंतोंका प्रयास है पर कुछ चीज लाकर बनायी जाती हो या व्यवस्था बनायी जाती हो ऐसी बात नहीं है, किन्तु जो है उसके अनुकूल उसको समझ के लिए व्यवस्था बनायी जाती है । तो चले देखने आत्मामें तो क्या मिला ? एक ज्ञानस्वभाव ज्ञान प्रकाश जिस ज्ञान गुणराजका रक्षण करनेके लिए मानों अन्य गुणोंका सद्भाव है, उस ज्ञान द्वारा अपने आपके स्वरूपका अनुभव कर ।

मैं ज्ञानमात्र हूं, जो जानन है, प्रतिभास मात्र है, एताघन् मात्र मैं हूं । मेरे अन्दर कहीं कुछ नहीं है । अपने आपके अतिरिक्त अन्य सब पदार्थोंका निषेध कर दें । कुछ ये नहीं हैं । सब मुझसे अत्यन्त मिन्न हैं ।

ऐसे इस ज्ञानस्वभावको न छोड़कर अपने आपवे ज्ञानन्दका अनुभवकर। देखो आत्माके ज्ञानस्वभावको छोड़कर अन्य और कोई स्वभाव नहीं है। हमें बड़ा बनना है याने हरे भरे चिकित्सित बनना है, कुछ अपने आपको एक विहृत फूला हुआ, लिला हुआ बनना है तो वया बनना है ? ज्ञान-स्वभावकी उष्टि होने पर समझके आयेगा कि मुझे ज्ञान प्रकाशमें महान् बनना है। ज्ञानप्रकाश मात्र मैं रह सकूँ, ऐसा मुझे होना है।

मैया ! इस सम्बन्धमें भी यह तृष्णा न होनी चाहिए कि मैं तीनों लोकका जाननहार बनूँ। यह तृष्णा भी ज्ञानविकासमें बाधा देने वाली है, किन्तु ज्ञानका जो रूप है, जैसा उसका सहज लक्षण है उस रूप अपनेको निहारना भर है, अन्य प्रयोजन कुछ नहीं है। मुझे कुछ बनना नहीं है, बस देख रहा हूँ, यह है, दिख गया। देखना क्या ? जो दिख गया सो दिख गया, जो ज्ञात हो गया सो ज्ञात हो गया। बस यह मूलवृत्ति है विकासकी। तो ऐसे ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमें लेकर मात्र यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे तो है योगी ! यह स्वाधीन आत्मीय शुद्धज्ञानन्दको प्राप्ति कर सकता है। ऐसे स्वसम्वेदन ज्ञानको छोड़कर ज्ञानसे भिन्न अन्य कोई आत्माका स्वभाव नहीं है, यह ही आत्माका स्वभाव है, सो यह जानकर किसी भी परवस्तुमें जो कि अपने स्वरूपसे भिन्न है, ऐसे देहादिकमें तूरग मत कर।

यहां यह शिक्षा दी गयी है कि शुद्ध आत्माके ज्ञानस्वभावको छोड़कर नहीं रहना है। उसको जानकर रागादिकको व्याप्ति कर अपने ज्ञान-स्वभावकी निरन्तर भावना करना है अर्थात् अपनेको अपना पता बनाए रहना है कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ। अब अपने आत्माकी प्राप्तिके लिए चित्तको स्थिर करनेकी देशना देशना देते हुए इस दोहोरेमें आत्माकी निर्मलताका फल बताते हैं।

विशयकसायहि मणससिलु गावि ऽहुलिङ्गइ जासु ।

अपना गिम्मलु होइ लहु घढ़ पचकखुवि तासु ॥ १५६ ॥

जिसका मनरूपी जल विषय कथाओंसे सुध नहीं होता है उसका आत्मा है बस ! निर्मल होता है और वह शीघ्र प्रत्यक्ष हो जाता है। अपने आपका जानन तब बन सकता है जब अपने चित्तमें क्लुप्तता न आये। सभी जीवोंको एक समान चैतन्यस्वरूपमय देखो। किसीको अपना द्वेषी, किसीको अपना राशी न देखो और कुछ जीवोंको ही जो परिवारजन होते हैं उनको ही अपना सर्वस्व न मान लो कि ये ही मेरे सर्वस्व हैं। जीवोंके स्वरूप पर हृष्टि होना यही आत्माके निर्मल बननेका मूल उपाय

है। जब तक यह उपयोग जो एक जगह कुछ वैभवमें, कुछ लोगोंमें केन्द्रित है, यह फैलकर व्यापी न बन जाय, अथवा इतना भी बाहर न रहकर केवल अपने स्वरूपमें केन्द्रित न हो जाय तब तक जीवको निर्मलता प्राप्त नहीं होती। कुछ न कुछ रागद्वेषका क्षोभ चलता रहता है।

यह मनरूपी जल जिसका निर्मल हो, क्षुब्ध न हो, उसको ही यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकरणमें यह अब बताया जा रहा है कि आत्माकी प्राप्तिक लिए क्या उपाय करना चाहिए ? तो प्रथम उपायमें यह बताया है कि अपने आत्माको निर्मल करो। निर्मलताका यह परिचय है कि मन रूपी जल क्षुब्ध न हो। जैसे सुमुद्रका जल वायुके स्परशसे क्षुब्ध हो जाता है इसी प्रकार यह मनरूपी जल मोह अंधकाररूपी महावायुसे क्षुब्ध हो जाता है, डगमगा जाता है। तो इस मनको जलकी उपमा दी। जैसे जल जरासी वायु पाकर लहर खाने लगता है और काष्ठ पर्यट बगैर लहर नहीं खाते। तेज वायु चले तो कदाचित् थोड़ा सरके, पर पानी जरासी हवा पाकर लहर खाने लगता है। इसी प्रकार यह मन भी जल की तरह है। विषय और कषायोंका रंच परिणाम हो तो यह मन चंचल लहरें खाने लगता है। यह विषय कषायोंकी हवा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मत्व रूप हूँ।

जो मुझमें सहज है वह तो मेरा स्वरूप है और जो मुझमें सहज नहीं है, होता है अपने ही परिणमनसे, किन्तु जो सहज नहीं है, उपायिकी सन्निधि पाकर होता है ऐसा यह सब कुछ मैं नहीं हूँ। ये विषय कषायोंके महाविष शुद्ध आत्मतत्त्वसे प्रतिष्क्ष भूत हैं। यह शुद्ध आत्मतत्त्व विषय और कषायोंसे रहित है। ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूपसे बिन्दुत विपरीत जो विषय कषायोंकी महा हवायें हैं उन हवाओंसे यह मनरूपी प्रचुर जल क्षुब्ध हो रहा है।

यह मनरूपी जल कहां पाया जा रहा है ? जैसे कि सुमुद्रमें जल पाया जाता है इसी प्रकार यह मन-जल इन ज्ञानावरणादिक एक कर्मरूपी जलचरोंसे भरा हुआ संसारसागरमें पाया जा रहा है। इस द्रव्यकर्म, भावकर्मके बीच यह मनसलिल पाया जा रहा है और विषय कषायोंकी महान वायुका निमित्त पाकर यह बाधांडों हो रहा है। सो जिस भव्य जीवका चित्त डाघांडोल नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता उसका आत्मा निर्मल होता है। यह आत्मा अनादिकालसे दुरवस्थारूप महापातलमें पड़ा हुआ है। इसका जब रागादिक मैल दूर होता है तब यह शीघ्र निर्मल होता है और यह आत्मा निर्मल होता है इतना ही नहीं, किन्तु जैसा सहज

शुद्ध आत्मा है वह अपने आपके प्रत्यक्ष भी हो जाता है ।

भैया ! अपने परमात्मस्वरूपका ढाने वाला पर्वा है तो वह विषय कषायोंका परिणाम है । एक उपयोगमें र बातें नहीं आतीं कि एक तो सहज परमात्मतत्त्वका श्रद्धान हो, और विषय कषायोंके परिणाम भी किये जा रहे हों, ये दो बातें एक साथ नहीं होतीं । सो विषय कषायोंके मलको दूँ कर देने पर स्वतः स्वयं यह आत्मा उपने शुद्ध आत्माके दर्शन कर लेता है । उस प्रभुके दर्शन करनेके लिए आंखें कैसी चाहियें ? दृष्टि कौन सी हो जिस दृष्टिके द्वारा हम इस परमात्मतत्त्वको निरसें । वह दृष्टि है परमात्मस्वभाव आत्माकी अनुभवरूप कला । उनुपम आनन्द है वहां जो अपना स्वरूप है । उस स्वरूप रूप उपयोग हो तो वह एक अनुपम कला है । उस परमकला की दृष्टिसे जब तक अवलोकन होता है उससे यह जीव प्रत्यक्ष हो जाता है । अपने आपका स्वरूप अपने आपके सम्बेदन द्वारा प्राप्त हो जाता है ।

भैया ! मैं 'मैं' को न जान सकूँ यह तो एक गतवही ही बात कहला सकती है । किनना अंधेर है कि जाननहार मैं और मैं के यथावत् स्वरूपको न जान सकूँ । जान सकता हूँ, स्पष्ट जान सकता हूँ, केवल इस अपने स्वरूपके जाननमें बाधक जो विषय और कषयके परिणाम हैं उनको दूर करनेकी आवश्यकता है । परमात्मा तो स्वयं अनादिसे अवस्थित है । सो उस शुद्ध आत्माकी अनुभूतिसे जब अपने आपमें सूक्ष्म अवलोकन होता है तो यह आत्मा अपने ज्ञानद्वारा प्राप्त भी हो जाता है । जिसका पूर्वोक्त प्रकारसे निर्मल भन है उसको यह आत्मा प्रत्यक्ष प्रहृणमें आता है । आत्मा की उपलब्धिमें ही श्रीष्ठ आनन्द है । आत्माकी उपलब्धि तब होती है जब चित्त स्थिर हो, ऐसा करनेका उपाय है चित्तकी निर्मलता बनाना ।

चित्त निर्मल कैसे होता है ? अपने उपयोगको सर्वजीवोंपर विरक्त कर दें, फेंक दें, फौला दें, अर्थात् ऐसा स्वरूपका अभ्यास चले कि जिसके परिणाममें बाहरके सब जीवोंको भी अपना जैसा ही देखूँ । वही एक स्वरूप सबको देखूँ । वहां यहां छटनी न हो सके कि यह मेरा है और यह पराया है । हैं सर्व भिन्न, पर सबके भिन्न होने पर भी जो कुछ जीवोंको प्रहृण किया और कुछ जीवोंको त्याग दिया । अपने ज्ञानमें कुछ लोगोंको अपनाना और छोड़ना यह आत्माको जाननेका उपाय नहीं है । जिसका मन निर्मल हो वही अपने प्रभुको देख सकता है ।

अप्पा परहँ ण मेलविड मणु मारिवि सहसन्ति ।
सो वह जोये किं करद्द जासु ण एही सत्ति ॥१५७॥

यह आत्मा मनको शीघ्र मारकर, वशमें करके परमात्मामें यदि अपनेको नहीं मिलाता तो हे शिष्य ! जिसकी ऐसी शक्ति नहीं है वह योग द्वारा क्या कर सकता है ? मनको मारना व जीतना, इस मनवे वशमें अपनेको कायर नहीं बनाना, यह एक बड़ा तप है । जिसे कहा है इच्छा-निरोध, इच्छाका रोक देना । सो जो ऐसा नहीं कर सकता उसका योग क्या करेगा अर्थात् व्यावहारिक योग जितनी धार्मिक कियाएँ हैं—दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम, एकासन, और जितने काम हैं वे सब योग कहलाते हैं । धर्मको पानेके लिए जो यत्न किए जाते हैं उन यत्नोंका नाम योग है । उन पुरुषोंको योग क्या कर सकता है जिनका मन अपने वशमें नहीं है ।

यह सविकल्प आत्मा यदि परमात्मामें नहीं मिलाया जाता—यहाँ किसी दूसरे परमात्माको मिलाये जाने की बात नहीं कही है किन्तु यह कहा जा रहा है कि यह सविकल्प रूपसे उपस्थित हुआ निज आत्मा और स्वभाव दृष्टिसे अनन्त अहेतुक विराजमान शुद्ध चैतन्यस्वरूप भगवानमें अपनेको नहीं जोड़ते हैं तो उसका और धार्मिक कियावोंके योग का क्या नफा मिलेगा ? जब तक यह अपनी धुनका पक्का नहीं हो सकता तब तक यह अपने कार्यमें सफल नहीं होता । जीकर करना क्या है ? घन जुड़ गया लास्तोंका, करोड़ोंका आस्त्रिर उससे मिलेगा, क्या ? मृत्यु होगी अकले ही जायेगा और अकले ही संसारके सुख दुःख भोगेगा । क्या मिलता है यहाँ किसीके व्यवहार करने से, किसीके अनुरागमें प्रेमालापमें अपना समय लो देनेसे इस जीवके हाथ कुछ नहीं आता है, विक्षिक कुछ ही समय बाद जो रागवश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है ।

इस आत्माको अर्थात् संकल्प विकल्प करनेकी स्थितिमें पढ़े हुए इस आत्माको निविकल्प परमात्मस्वभावमें ले जाइये तो यह कन्याएंका उपाय है । यह परमात्मतत्त्व जो अपने आपमें निरन्तर स्वभावरूपमें वस रहा है वह विशुद्ध ज्ञान दर्शनस्वभावी है । वहाँ द्याति, पूजा लाभ आदिक किसी भी मनोरथमें यह उपयोग फँसा नहीं है, किसी भी विकल्प जालमें यह उपयोग रमा नहीं है, ऐसे विशुद्ध ज्ञानात्मक दर्शनात्मक परमात्मामें जिसने अपने आपको नहीं लगाया, योग नहीं किया तब तक कहते हैं कि उस पुरुषके किपित योगसे क्या नफा हो सकता है ? दुनियाको चकित करनेके लिए प्राणायाम करे, घटोंकी समाधि लगाये, इतने पर भी इस

जीवको मिलता कुछ नहीं है। सो जो जीव अपने मनको नहीं मार सकता वह धर्मके लिए धर्मकी धुनमें कुछ भी कार्य करता हो उसको धर्मकी सिद्धि नहीं होती।

इस मनको मारनेके लिए कोई विजयशय शस्त्र चाहिए। वह शस्त्र हैं वीतराग निर्विकल्प समनापरिणामका। यह प्रभु कोमल कठोर बन्धनको काटेगा। कठिन बंधन है, मनका लगाव जो मिथ्यात्म विषय कषाय आदि निर्विकल्प समूहसे परिणत हुआ है ऐसा वह पुरुष जो इस मनको नहीं मार सकता और मन जब नहीं जीता जा सकता तो जो शुद्ध स्वरूप है उस स्वरूपको कैसे जान सकता है? जिसमें मनके मारनेकी शक्ति नहीं है उसको प्रभुका दर्शन नहीं होता। यह सब व्यर्थका परिणाम है। किसी भी परमें लगे रहना, विषय कषायोंमें चित्तका फँसाना, बाह्य पदार्थोंमें ही अपना विश्वास बनाए रहना-ये सब व्यर्थके परिणाम हैं। सो उन विकल्पों में परिणत मनको निर्विकल्प समाविरूप शस्त्रवें द्वारा खंडित करो। न रहे बत्स ! वह अपने योगका फल पाता है जिसने मनको न मारा, वह पुरुष योगको भी क्या करेगा?

मैया ! सब कुछ जो उपाय किया जाना चाहिए मुकिके लिए, आनन्दके लिए वे सब उपाय केवल एकके संभालेसे हो जाते हैं। 'एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय' केवल एक निजकी संभाल करलो उसहीसे सब संभाल हो जाती है। एक अपने आत्मस्वरूपकी सिद्धि करने से सर्व सिद्धि हो जाती है। एक अपने आत्मतत्त्वको न साधा जाय और धर्मके नाम पर बाह्यपदार्थोंमें नाना व्यवस्थाएँकी जायें तो इससे आत्मसिद्धि नहीं होती। जिसका लक्ष्य हो गया है आत्माको साधनेका उसको किसी बच्चे के ही मुखसे एक भावनाका दोहा सुननेको मिल जाय उससे ही वह अपना प्रयोजन निकाल लेता है। तो जिसको वस्तुस्वरूपका व्यथार्थ बोध हुआ है वह ही अपने प्रयोजनकी बात निकालता है। जिसे मनके मारनेकी शक्ति प्राप्त हो वही पुरुष अगत पर काबू पा सकता है और जो जरा-जरासी राग और द्वेषकी बातें आने पर मनको वश नहीं कर सकता मनके बहाब में वह जाता है, कहते हैं कि उस पुरुषको योग क्या करेगा?

अप्या मेलिवि णाणमउ अण्णु जे क्षायहिं णाणि ।

वह अप्याणवियंभियहैं कउ तहैं केवतणाणु !! १५८॥

इस ज्ञानमय आत्माको छोड़कर अन्य पदका जो घ्यान लगाता है कहते हैं दै शिष्य, वह अज्ञानी है। उन शुद्ध आत्मार्थोंके ज्ञानसे विमुक्त होकर कुमति, कुश्रुत, कुअवधिरूप ज्ञानमें जो परिणत होते हैं उन जीवों

को इस केवल ज्ञानस्वरूप आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती। कैसे हो ? कैवल्य दशा, मोक्ष अवस्था केवल रह जानेकी अवस्था है। वह केवल ज्ञान उनको ही प्राप्त होता है जो अपने आपमें केवल ज्ञानस्वरूप को निहारते हैं। इस दोहेमें यह शिक्षा दी गई है कि पहली पदचीमें रहने वाले मुमुक्षु जीवको सविकल्प अवस्थामें उपलब्ध द्येय आधशयक होता है क्योंकि विच्च को स्थिर करना और विषय कषायोंसे इसे दूर रखना, इन दो प्रयोजनोंके लिए सविकल्प अवस्थामें जो बाह्य प्राप्ति है, जिन वाणी है, गुरुसत्संग है, गुरुपूजन है, वे सब उसके द्येश होते हैं पर निश्चय ध्यानकी कलामें अपना शुद्ध आत्मा ही द्येय होता है।

सीधी सी बात है कि अपने को जितना अकेले देखोगे, अपने उपयोगको अकेले पाओगे उसी ही तुम्हारे निर्मलता जगेगी। सो जितना विशेष एकत्वका भाव बन सके, पहिले व्यावहारिक एकत्व जिसे सीधा कह देते हैं कि मुझे कोई सुखी दुःखी नहीं करता, सब जीव मुझसे न्यारे हैं, मैं सबसे न्यारा हूँ यो देखे। किर अन्तरमें भी इस आत्माको, इस एकत्व भावनामें लिया जाता है तो वहां परमार्थ पद्धतिका एकत्व उपयोगमें रहता है। मैं बिलकुल अकेला हूँ, ऐसे अकेलेकी बात नहीं कह रहे कि आप सब जुदा हैं, अपनी-अपनी धूनमें हैं, मैं यह यहां अकेला ही बैठा हूँ। इस शारीर वाले अकेलेकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु अपना स्वरूप बिलकुल अकेला है, रागादिक भावोंको लिए हुए स्वरूप नहीं है, किसी परके सम्बन्ध को लिए हुए स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप मेरे कारण मेरे ही सत्त्वके प्रसाद से पूण्य है, निर्मल है, ऐसे अपने आपके परमात्मस्वरूपका ही ध्यान निश्चयसे किया जाना है।

जैसे कोई पुरुष समुरालसे आये हों तो लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। उन लोगोंसे उसका परिचय नहीं है अथवा अन्य विरादरीके हैं किर भी सत्कार प्रेमालाप करते हैं। उनका जो भी आदर करते हैं वे उन पुरुषोंके नातेसे नहीं करते हैं किन्तु उस घरके जगरसे आये हुए हैं तो गृहणीकी स्वर लेनेको अथवा कुछ कुरल पूछनेको, कोई अपना प्रयोजन लेकर उन आदिमियोंकी दिन्य शुश्रूपा बरता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव अपने आपके परमात्मस्वरूपकी खबर रहने लिए, अपने आत्मतद्देशके अनुभवका अवसर बनाए रहनेके लिए इस ५ शरसे व्यवहारधर्म किया करते हैं। पूजा करना पूजाके लिए नहीं है, प्रभुका ध्यान करना प्रभुको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। सबका द्येय भंतव्य अपने आपकी धारणामें शुद्धस्वरूपके जागनेके लिए है। जहां भात्र ज्ञानप्रकाश ही अनुभव

में आता है, ऐसा अपना शुद्ध आत्मा ही परमार्थसे उपादेय है। वह ही ध्यानेके योग्य है।

भैया ! जब कोई संकट आये तुरन्त अपने उपयोगको अपने ज्ञानानन्दरस निर्भर स्वयंके स्वरूपमें लगा दीजिए तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। जैसे पानीमें कोई कछुबा पानीसे ऊपर सिर उठाकर जा रहा है तैरता हुआ तो उसके सिरको प्रहण करनेके लिए, भोगे जानेके लिए दसों पक्षी मंडराते हैं, पर कछुबामें एक कला ऐसी है कि दसों नहीं, हजारों उसको पकड़ने का उद्यम करें, मगर पकड़ नहीं सकते। क्या कला है कि चार अंगुल अंगुल पानीमें ढूब जाय अपनी चोंचको चार अंगुल पानीके भीतर गुण्ठ करले फिर दसों हजारों पक्षी ऊपर मंडराते हों तो भी उसका कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार ज्ञानी जीव अपना निजी घर जो निर्भयताका स्थान है, आनन्दमय स्थान है, ऐसे अपने प्रदेशोंमें रहते रहते चाहे थोड़ा बाय की ओर झुकनेमें चित्त देना पड़े, चाहे शोक करना पड़े तो भी उस बाय दृष्टिके सम्बन्धमें परिवारजनोंसे, मित्रजनोंसे, चेतन अचेतन परिग्रहोंसे इसको कुछ बेचैनी सी होने लगती है, तो इस ज्ञानीको एक क्लोटा ही तो काम है कि अपनी उस दृष्टिका अपने आपमें संकोच करके गुण्ठ करलें तो सारे संकट सब एक साथ ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा यह शुद्ध आत्मा है, जिसके ध्यानके प्रतापसे समस्त संकट दूर होते हैं। वही शुद्ध आत्मतत्त्व ही हम आप सबके लिए ध्येयभूत है। कैसे शुद्धआत्माकी प्राप्ति हो ? इसके उत्तरमें यह प्रकरण चल रहा है। मनको निर्मल करना और निर्मल निज स्वभावकी ओर इस मनको लगाना, ये ही अपने आपके कल्याणके साधक हैं।

ज्ञानमय आत्माको छोड़कर अन्य बातोंको जो कोई ध्याते हैं—हे शिष्य ! उन अज्ञान पीड़ित पुरुषोंको केवलज्ञान कहांसे होगा ? आखिरमें शुद्ध आत्माका ही ध्यान केवलज्ञानका कारण होता है और योगी पुरुषोंको बतला रहे हैं कि वे अज्ञानमें ढूबे हुए हैं जो शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे तो चिंगे हैं और व्यावहारिक कारणोंमें लगे हैं। शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे विग्रहा तो गृहस्थोंको भी नहीं बताया। उन्हें भी शुद्ध आत्माकी अपने लक्ष्यमें लेना बताया है। मुझे क्या करना है ? सब कुछ करते हृष भी यह दृष्टि रहना चाहिए कि मुझे केवल बनना है, अपने आप जैसा ज्ञानमय हूं उस स्वभावरूप बनना है तो ऐसा लक्ष्य तो गृहस्थको भी रखना चाहिए।

गृहस्थजनोंको बाह्य आलम्बन बहुत बताये गये हैं, साधुओंको नहीं बताये गए हैं। साधुओंको तो ज्ञान, ध्यान और तपकी मुख्यता बताई गई है। हां, जब मंदिर मिले या और ऐसा ही प्रसंग मिले तो वे उनकी उपेक्षा नहीं करते। यहां भी समर्कि जाते हैं, पर जैसे गृहस्थोंको मंदिर दर्शन, पूजन ये अत्यावश्यक हैं इसी तरह मुनियोंको आवश्यक नहीं हैं क्योंकि साधु जन जंगलमें चिरने वाले और अपने ही काममें रहने वाले होते हैं, उनके चित्तमें ऐसा नहीं आता कि आज दर्शन करने नहीं गए। वे आत्म-ध्यानमें ही सतत अपनी हृष्टि रखते हैं, पर गृहस्थजनोंकी उनसे कुछ दशा विपरीत है। उनको आरम्भ लगे, परियह लगे, और क्षोभ लगे, तो ऐसे अनेक प्रकारसे जिनका मन विचलित हो रहा है उनको बाह्य आलम्बन चाहिए। साधुओंको क्या है, आंख मीची और प्रभुके दर्शन किया। उनमें सामर्थ्य होता है। सो कह रहे हैं साधु पुरुषोंको कि जो शुद्ध आत्माके, ज्ञानमय आत्माके ध्यानको छोड़कर अन्य प्रकारका ध्यान करते हैं अथवा हृष्टि ही नहीं है जिनकी आत्माके शुद्ध स्वरूपकी और नाना ध्यवहारोंमें ही जो लगे रहते हैं वे अज्ञान विजृम्भित हैं। उनको केवलज्ञान कहांसे होगा?

मैया ! यह आत्मा निर्मल ज्ञानसे रचा हुआ है, जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि समस्त पदार्थोंको भी जान सकें, तो ऐसे आत्माके ध्यानको छोड़कर जो अन्यका ध्यान करते, उनको बताया है कि वे अज्ञानमें विजृम्भित हैं शुद्ध आत्माकी अनुभूतिसे विमुल हैं, उनको केवलज्ञान कैसे होगा, अर्थात् न होगा। इस दोहोरेमें ध्ययपि पहिली पद्धति वालोंको सविक्षण अवस्थामें चित्तको स्थिर करनेके लिए या विषय कठायोंके दुर्घानोंसे बचने के लिए जिनप्रतिमा, जिनबाणी, ये सब ध्येय होते हैं, तो भी निश्चय ध्यानके कालमें, यहां समतारसका अनुभवन किया करते हैं उस समय निज शुद्ध आत्मा ही ध्येय होना चाहिए। अब यहां ध्यानका प्रकरण है कुद्र दोहोरी तक। उनमें कुछ स्थितियां भी बनायी जायगी कि जब ध्यानमें योगी एकाय होता है तो क्या स्थिति होती है ?

मुण्डु वर मायताहौं बलि बलि जोहयडाहौं ।

समरसि-भाउ परेण सुहु पुण्युषि पाउ ण जाहौ ॥१५६॥

शून्यपदका ध्यान करने वाले योगीकी मैं बलिबलि जाता हूं, नमस्कार करता हूं और पूजा करता हूं। जिनका स्वसंवेद्य परमात्मतत्वके साथ समरसी भाव है और पुण्य और पाप भी जिनके उपादेय नहीं हैं ऐसे योगियोंको मैं पूजता हूं। यहां कह रहे हैं शून्यपदका ध्यान करने

बाजे । शून्य पदवा अर्थ है शुभ-अशुभ, मन, बचन कायके व्यापारोंसे शून्य किन्तु बहुभूम स्थान । मन, बचन, कायकी क्रियाओंका आलबन लेकर जो परिदाम बनता है वह सविकल्प है । उसमे यहां बहां का ल्याल है । परंतु योगी पुरुषोंका वह उच्चम ध्यान जहां मन बचन, कायकी क्रियाएँ नहीं होती हैं, उसमें वया ध्यान विद्या करते हैं वे ? कोई बाहरी चीज तो ध्यानमें रही नहीं । उनके ध्यानकी चीज है वे बल ज्ञानस्वरूप । सो उस ज्ञानस्वरूपमें न विद्यत्व है, ज फून, बचन, वाय है, न रूप, रस, गंध है, न अन्य कोई तत्त्व है । वह तो आकाशकी तरह एक शून्यसा पदार्थ है ।

मैया ! आखिर आकाशमें भी तो कुछ स्वरूप होता है ना । इस आत्मामें चैतन्यस्वरूप है । तो जैसे आकाशका जो स्वरूप है उस स्वरूप को निरखते हुए यह आत्मा भी शून्य है अर्थात् पुद्गलसे, विभावोंसे, त्रिकर्त्तोंसे इहित वे बल निज असूत्तरूप मात्र हैं । ऐसे शून्य पदका जो ध्यान करते हैं उन योगी पुरुषोंको मैं पूजता हूँ । जिनका यहां बहां कहीं चित्त ही नहीं है, औटे बड़े, धनी, गरीब प्रशंसक, निन्दक इनमें कहीं चित्त नहीं है । साधु पुरुष दुनियासे अलग होते हैं । जो लौकिक पुरुषोंमें बात है उससे उल्टे होते हैं साधु । लौकिक पुरुषोंको इज्जत और पोजीशन रखने की वृच्छियां करनी पड़ती हैं और साधुओंको नहीं । उनका काम बेखल अपने आत्माके ध्यानका है । बाहर कथा होता है ? सो जिसका जो होना है वह उसका परिणमन है ।

मैया ! ऐसा समझिए कि हुनियाके लिय मरा हुआ सा रहे और अपने लिय पूरा जगा हुआ रहे, ऐसी वृत्ति है साधुकी जब कि गृहस्थ नहीं ऐसे रह सकता । उनकी अवस्था ही ऐसी है । रहे तो गृहस्थी निभा नहीं सकता । सब देखना होता है । यश, कीर्ति, पोजीशन, ढंग, रहन सहन । तो ऐसे शून्य पदका ध्यान करने वाले योगी होते हैं । कैसा है उनका वह स्वरूप ? यद्यपि परमावांसे, परपदार्थोंसे रहित है, शून्य है, पर व्य-सम्बेदन रूप जो उनकी परम कला है उस कलासे वे भरपूर हैं, उन योगियोंको सूना भी देखलो और भरा पूरा भी देखलो । सुने तो हैं परमावांसे और भरे पूरे हैं अपने गुणोंसे । उनकी परम कला है स्वसम्बेदन अधिकतर उष्ठि, अधिकतर उपयोग उनका ज्ञानमय आत्मापर रहता है । ऐसी उनकी अनन्त वृत्ति होती है तब वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं ।

साधुओंको हम परमेष्ठीकी ज्ञानमें रखते हैं, जिस कक्षामें अरहंत म ॥ लांकि वे उनसे झँचे विकासमें हैं पर परमेष्ठियनेकी जाति तो

एक है। तब समझ लीजिए कि हम अरहंतको ऐसे निर्दोष सर्वज्ञताके नाते से पूजते हैं तो उनके जो लघु भाई साधु हैं वे कैसे उपयोग बाले हुआ करते हैं, सो समझ लीजिए। इसी कारण और भेषोंमें और पदोंमें हुच्छ करनी आ जाय, कुछ दोष आ जाय तो उससे धर्म प्रभावनामें कुछ विघ्न नहीं होता अथवा वे आदर्शरूपमें नहीं हैं, पर अरहंत भी परमेष्ठी हैं और साधु भी परमेष्ठीमें हैं। तो अरहंत पूर्ण निष्कलंक है, तो साधुको भी, साधु पदमें, साधुकी सीमामें चाहे उस सीमाके निचले छोर पर हो, पर आदर्श और निष्कलंक होना बताया है।

ये साधु भीतरमें सूने हैं, विकल्प संकल्प, अलाभला, शत्रु, चिंता, शोक कुछ भी उनके उपयोगमें नहीं है। ऐसी उनकी आत्मतत्त्वमें रुचि है, लीनना है, अनुरक्षि है कि उनको वास्तुसे कुछ प्रयोजन नहीं है। समागम को, बोलने वालनेको जो आफत समझते हैं, खुश होना तो दूर रहो, आपन्ति समझते हैं, विघ्न समझते हैं, मेरे कार्यमें विघ्न होगा ऐसा वे समझते हैं, वे समागममें क्या तो हृष्ट मान सकेंगे और क्या दूसरेको रंगित करनेका उपक्रम करेंगे? वे तो घेयभूत हैं, आदर्श हैं, अपने आपमें स्वसम्बोधनकी कलासे उप्त हैं, भरे पूरे हैं। क्यों उप्त हैं? कोई सूना-सूना रहकर उप्त नहीं होता। कुछ भरा पूरा हो तो उप्त रहता है। ये साधुजन जो निर्दोष हैं, उप्त हैं, किससे? स्वसम्बोधनकी कलासे। भीतराग परमानंदरूप रसका जहां स्वाद भरा है ऐसे स्वसम्बोधन ज्ञानकी कलासे ये साधु भरे हैं। ऐसे निज सुख आत्मशरूपका ध्यान करने वाले योगियोंकी में बलि-बलि करता हूँ।

बलिका अर्थ पूजा है, नमस्कार है। बलिका नाम तो अब हत्यामें प्रचलित ही गया है, पर बलि शब्दका सीधा साफ अर्थ है पूजा। तो वे जो शुद्र आत्माका ध्यान करते हैं त्रिगुटिके बजसे करते हैं। मन वशमें है, वचन वशमें है, काय वशमें है, ऐसी स्थितिमें जो समताका रस उबलता है उस रससे जो उप्त रहते हैं ऐसे साधुजनोंको यहां योगीन्दुरैव कहते हैं छ मैं बलि-बलि जाता हूँ, अर्थात् वे अपने आभ्यंतर गुणोंका अनुराग प्रकट करते हैं। कोई यदि किसी धर्मात्माको देखकर प्रसन्न रहता है, खुश होता है तो वह अपने ही धर्मका अनुराग जाहिर करता है। कोई किसी पर क्या अनुराग कर सकता है? नहीं कर सकता। जो भी करता है वह अपने तीव्र कषाय या मंद कषायका परिणामन करता है। अपने में ही जो अपना धर्म बसा है उसका अनुराग वह करता है दूसरेका वह अनुराग नहीं करता है। इस प्रकार भक्त परमयोगियोंकी प्रशंसा

करता है।

योगियोंके समतापरिणाम वर्णों है कि रागद्वेषरहित परम आनन्द-
मय ज्ञानस्वभावकी व्योति उनके अनुभवमें सदा जगी रहती है, इसलिए
वे उप्त हैं। जो बाहरमें बुद्ध नहीं चाहता उसे कहते हैं योगी। एक ही
व्याख्या है और उनकी स्थिति ऐसी होती है कि अन्य लोग परमहंसोंकी
बताया करते हैं। उन परमहंसोंसे भी अधिक बाध्यमें कुछ खचर न रखने
की वृत्ति निर्ग्रन्थोंके होती है। जमीन पर पड़े हैं, शौक नहीं रही, शान
नहीं रही, मान अपमान नहीं रहा। ऐसी वृत्ति उन पुरुषोंकी होती है।
प्रशंसा और निन्दामें जो समान परिणाम रख सकता है उसवे स्वसंघर्षों
में अन्तर आ जाता है। कोई भक्तोंके बीच मजाक, खुशी, प्रसन्न होना,
हंसना, मौज करना, इन बातोंको किया करे, उसमें यह मात्रा नहीं रह
सकता कि कोई निन्दा करे तो उसको भी सह सके।

प्रशंसाकी ओर कोई वृत्ति बाले, यह इस बातको सिद्ध करता है कि
इसकी निन्दा सुननेकी प्रकृति नहीं है। जो निन्दा सुनकर घबड़ा जाय,
समझो कि इसके अन्तरमें क्षब भी प्रशंसाका छहराग है। इन दोनोंका
जोड़ा है। तो जो प्रशंसा निन्दामें समान रह सकता है उसके शरीरका,
कम्बलका, पिछीका, ये सारे शौक खत्म हो जाते हैं। बढ़िया सजी हुई
पिछी हो जो दिखनेमें बेढ़ंगकी लगे, ऐसी प्रकृति समता बाले साधुजनोंको
नहीं होती है।

मयूरकी पिछी क्यों बताई है? पहिले साधुवोंका जंगलमें निवास
था। उत्सर्गमार्गमें तो जननिवास बताया है। कोई बालसे स्थितिसे परि-
स्थितिसे चैत्यालयमें रहो मगर पहिले जंगलमें साधुजन रहते थे और
संयमके उपकरण उनको आसानीसे बहां मिलते थे। मयूरके पंख खुद फड़े
हुए पड़े रहते थे, बटोरा, १०—२० हो गए, बांध लिया। मयूरके पंखोंमें
जो सफेद ढंडी है उससे ही पंख बांध जाते हैं। सुतलोंकी झरूत नहीं
पड़ती। अट्ट बने, सट्ट बने, कैसी ही बने। बांध गयी। बहां द्वारा पंखोंकी
आवश्यकता नहीं है। संयमका काम उससे चलने लगेगा। इसी तरह
उपकरण भी—जैसे कमरडत बहुत सुष्ठाना हो, छांटकर लेना, १०—२०
मंगान्डर पसंद करके लेना, ऐसो बात भी उन साधुवोंमें नहीं हुड़ा
करती है।

चर्यों की बात बच्चोंकी तरह है। जैसे बच्चेको जब भूख लगती
है तब ही वह अपनी माँ की याद करता है, नहीं तो खेलनेमें मस्त है।
इसी तरह योगी साधु अपने आत्मध्यानमें लगे हैं। जब भूखाकी तीव्र

वेदना होगी तब इस शरीरको कुछ न कुछ देने के लिए अपना काम थोड़ा कर, रात्रिका, सामायिकका समय छोड़कर दिनसे विसी भी सर य द बजे, १० बजे, २॥ बजे, ४ बजे, जो टाइम हो, २ घंटे दिन बाद और दो घंटे दिनसे पहले कभी चल दिया। कभी चल दें। यद्योंकि अनुष्ठान, शुद्ध उनका भोजन था। तो समय पर भक्तिपूर्वक मिला, खा कर चले आये। यह चीज थी, पर आजके समयमें साधुओंकी बात जहाँ आवक्जन सोचते हैं, तो आवक्जन अपनी बात नहीं सोचते कि हम भी अपने कर्तव्यसे गिरे या नहीं। हमें बेसा भोजन करना चाहिये कि अचानक कोई साधु आ जाय तो वह भी खा सके।

मैया ! समय देखकर साधुजन अपनी चर्चा बदल दें, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वह तो आदर्श मार्ग है। न विधि बने तो न बने। सो वे तो बदल नहीं सके, पर आवक्जन अपनी विधि बदल दी है। इसलिए थोड़ी यह बात आ गई, नहीं तो बहुत ऊँची बात थी पतिलक्ष्मी दृष्टिमें दिगम्बर साधुओंके प्रति। दिगम्बर साधुओंको जैन समाजमें केवल होकर रहने पड़ने का कारण यही है। यदि वे कैदकी तरह न रहते तो साधारण जनतामें फिर धर्मप्रभावना देखने कैसी होती।

समरसी भावके कारण साधुजनोंको वैभव और कंबड़ दोनों समान हैं अथवा ज्ञानादि गुणोंका अपने आत्मद्रव्यके साथ जिनका उपयोग द्वारा एकीकरण हुआ है उनके पुण्य और पाप दोनों ही नहीं हैं। ये दोनों उनकी शुद्ध वृत्तिसे भिन्न हैं। तो जिन मुनियोंने इनको हेय समझ लिया है, परम ध्यानमें आरुद्ध हैं उनकी मैं बार-बार बलिहारी जाता हूँ।

उव्वस वसिया जो करइ वसिया करइ जु सुखणु ॥१६०॥

वल्लि किल्ड़ तसु जोइयहिं जासु ए पाउ ए पुण्णु ॥१६०॥
मैं ऐसे योगियोंको पूजता हूँ जो ऊजङ्को तो बसाते हैं और वसे हुएको ऊजङ्करते हैं। ऊजङ्क क्या है ? शुद्धोपयोग। जो मौजङ्क नहीं है, जिसमें रति नहीं है, जो कोई प स न हो उसे कहते हैं ऊजङ्क। ऊजङ्कका अर्थ है नहीं रह रहा है, सुना पड़ रहा है। नो जो उजाड़ है शुद्धोपयोग, उसे तो बसाते हैं मायने अपनेमें लगाते हैं यह तो हुआ ऊजङ्कोंका बसाना और जो उसे हुए हैं उनको ऊजङ्क करते हैं। बांसा कैन है ? इन्द्रिय, विषय अशुभ परिणाम, कषाय इनको ऊजङ्क करते हैं। ऐसे योगियोंको मैं पूजता हूँ। उन योगियोंके न तो पाप है और न पुण्य है।

वह प्रवृत्ति कब होती है उन योगियोंके जब कोई विशिष्ट ज्ञानका सम्बन्ध है। कोई अनुभूति जैसी बात जब चलती है तब वहाँ यह बात

हो जाती है कि जो ऊजड़ था वह तो बस जाता है और जो बसा हुआ है वह ऊजड़ हो जाता है, निकल जाता है। सो रघुसम्बेदन ज्ञानके बलसे यह स्थिति आती है। रघुका जहां सम्बेदन है, ज्ञानस्वरूप अपने आपका जहां ज्ञान हो रहा है, वहां ऊजड़ोंको बसानेकी व सस्तोंको ऊजड़ करनेकी यह बात आती है। कैसा है यह स्वसम्बेदन, जिसका ज्ञान किया जा रहा है? निर्विकल्प। जैसा है सो है। समस्त पदार्थ निर्विकल्प हैं। पर एक जीवशब्दार्थ ही ऐसा त्रिलक्षण है कि वह मूलमें निर्विकल्प होकर भी त्रिकल्परूप परिणाम रहा है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल भी अणु भी सब जो हैं सो हैं, आखर उनमें जो होता है पूर्ण होता है। वहां अधूरेपत्रकी बात नहीं है। अधूरापन तो जीवमें भी नहीं है, पर यह अपने उपयोगको जो चलित रखता है, विकल्प करता है उन विकल्पोंसे इसमें फर्क आ गया।

सब द्रव्यों में प्रधान मुख्य जीवद्रव्य है, प्रधान भी है, सबसे बढ़िया भी है और सबसे गया जीता भी बन रहा है और पदार्थ है सब जो है सो है। न वे बढ़िया है, न गये जीते हैं। पर जहां उत्कृष्ट सबका व्यवस्थापन आनन्दस्वरूप होनेकी जिसमें कला है उसीमें गया जीतासा दुखी निष्ठु स्थानमें पहुंच सके ऐसी भी बान चलती है। जब यह जीव परम आनन्दस्वरूप निर्विकल्प धर्मतत्त्वका सम्बेदन कर रहा है उस समय में यह ऊजड़ोंको तो बसा लेता है। ऊजड़ हैं शुद्ध आत्मानुभवके परिणाम। जो नहीं हैं, जो यह ज्ञानानन्दघन व्यक्तिमें भी आये, ऐसी स्थिति स्थानभूतिसे पहिले नहीं थी इस जीवकी। तो उस स्थितिको तो बसाता है जो स्थिति रागद्वे परहित तात्त्विक चिदानन्दके उच्छवलन पर, उठने पर, उपयोगमें आने पर लिर्भर है ऐसा जो शुद्ध आत्मा का अनुभव परिणाम है उसे तो बसा लेता है और जो उसे हुए हैं उनको ऊजड़ करता है।

बसनेका अर्थ यहां है भरपूर बना देना। जिस रघुसम्बेदन ज्ञानसे शुद्धोपयोगको उसने बसाया उसी स्वसम्बेदन ज्ञानसे ये भरित हो गए, अर्थात् शुद्ध आत्माके अनुभवके समयमें जो परिणामन है, तृप्तिका उत्कृष्ट आनन्द अनुभवनसे वह भरपूर है। तो यह चीज नहीं थी, उसे भरपूर कर दिया, और जो चीज बसी हुई है इसमें, वया बस है? विकल्प जल। जो भी अपने आपके शुद्ध चन्द्ररूप निश्चय प्राण का चात करने वाला है, जो अपने आप पर ही ऊबम मचा रहा है, घात कर रहा है, ऐसे जो हिंसादिक विकल्प आदिक जो समस्त विभाव परिणाम हैं वे

इस जीवमें वसे चले आ रहे हैं श्रनादिसे । इस वसे हुएको ऊजड़ कर देते हैं, नहीं रहने देते हैं । स्वसम्बेदन ज्ञानकी प्राप्तिसे पहिले ये सब परिणाम वसे हुए हैं उनको अन्य कर देते हैं, ऐसे जो योगी पुरुष हैं उनकी मैं बलि करता हूं, अर्थात् मस्तकके ऊररी भाग पर उन्हें उठाता हूं, पूजता हूं, उन्हें अपने मस्तक पर रखता हूं, ऐसी उन योगियोंकी यहां योगीन्दु देव प्रशंसा कर रहे हैं । उनके गुणोंको क्या बता रहे हैं, वे स्वयंके गुणोंका विकास कर रहे हैं ।

ऐसे योगियोंके पुण्य और पाप दोनों ही नहीं हैं । जो शुद्ध आत्म-तत्त्वसे विपरीत भाव है—पुण्यभाव और पापभाव—ये दोनों प्रकारके शुभ अगुम भाव उस शुद्ध आत्मानुभवके समय में, जहां कि उजड़े हुए आत्मानुभवके परिणामों को बसाया गया है और वसे हुए दृष्ट विकल्प जातों को मना कर दिया है, ऐसी स्थितिमें उन योगियोंके न शुभ भाव हैं और न अशुभभाव हैं । अब इस निर्विकल्प समाधिरूप परम उपदेशको और भी दोहों द्वारा कह रहे हैं ।

तुद्दुइ मोह तदिति जहिं मणु अथवणहं जाह ।

सो सामह उवपसु कहि अरणो देवि काइ ॥१३१॥

हे स्वामी ! मुझे उस उपदेशको कहो जिससे मोह शीघ्र छूट जाय और यह चंचलता स्थिरताको प्राप्त हो । अन्य देवसे क्या प्रयोजन है ? मैया ! यह मोह दूट सकने लायक है क्योंकि यह स्वभाव भाव नहीं है । निर्मोह जो शुद्ध आत्मद्रव्य है उसका यह प्रतिपक्षरूप है । जैसे एक दर्पण में कोई छायाका प्रतिविम्ब आ गया तो वह छाया प्रतिविम्ब हट जाने लायक है क्योंकि वह दर्पणमें दर्पणके स्वभावसे, स्वरूपरससे छाया प्रतिविम्बित नहीं हुआ । हुई भी दर्पणमें, पर उपाधिका सन्निधान भाकर हुई, क्रतपूर वह हट सकती है । दर्पणका स्वभाव भाव नहीं है । इसी प्रकार आत्मामें जो मोहभाव है वह आत्माके लक्षणमूल ज्ञानसे, क्षायकभाव से उठकर नहीं हुआ, अर्थात् उसके सत्त्वके कारण ही नहीं हो रहा । हुआ वह आत्मामें, परन्तु परउपाधिका सन्निधान पाकर जो निमित्तरूप परिणन है वह दूट सकता है । उसको नोडने का उपाय बताया जा रहा है ।

हे प्रभो ! ऐसा वह कौनसा भाव है, कौनसा तत्त्व है जिस तत्त्व के उपाय से, दृष्टि से यह मोह दूट जा रहा है कि वह कौन सा उत्तम पदार्थ है ? वह उत्तम पदार्थ कहीं बाहर नहीं है जिसका आलम्बन करने से मेरा मोह दूट जाय । वह अपने आप में ही है और इस मोहसे अन्तर में दबा पड़ा हुआ है । यह मोह ऊररी मल याने पर्यायरूप आया हुआ मल

भीतरके बलसे अपने ही स्वरस से स्वभावके अन्तरमें से उठा हुआ जो परमात्मस्वभाव है उस स्वभावके आलम्बनस, दृष्टिसे, विकास से यह मोह दूट जायगा। उसका आश्रम करना है मोह के विनाश करने के लिए जो मोह रहित हो, निर्मोह ही और स्वाधीन हो, उसका आलम्बन लेने से यह मोह भाव दूर हो सकता है। जो निर्मोह है और स्वाधीन है, सदा अपने निकट है ऐसा तत्त्व है परमात्मा पदार्थ ज्ञानकस्त्रूप हो। उसका आश्रम लेनेसे यह मोह दूट जाना है।

यहां प्रश्न रूपमें कहा जा रहा है कि वह कौनसा भाव है जिसका आश्रम लेने पर मोह दूट जाना है? और किर क्या होता है कि यह मन स्थिरता को प्राप्त हो जाता है? मन क्या है? नाना विकल्पों का जो समूह है वही मन है। विकल्पजालका संतानभूत जो एक अवसाय है वह है, मन वह मन स्थिर हो जाय। यह मन भी मेरे शुद्ध आत्मस्वभाव से विपरीत है। मनका स्थिर हो जानेका अर्थ यह है कि मनके विनाशका ही उपाय करना। मन स्थिर हो गया तो किर मन जबान कहां रहा? वह तो मरसा ही गया। कहते भी हैं कि अजी उस तरफ चित्त न दो, अपने मनको मार दो। तो मनके मारनेका अर्थ यह है कि विकल्पों में जो घूम रहा है मन, वह विकल्पों में न चले, उसीके मायने हैं मनकी स्थिरता और मनका मारना।

जैसे इच्छा की पूर्ति और इच्छा का नाश—ये हो चीजें अज्ञान नहीं हैं। इच्छाके नाशका ही नाम इच्छा की पूर्ति है। उस हमारी तो इच्छा पूरण हो गयी, इसका अर्थ यह है कि हमारी अब वह इच्छा नहीं रही। इच्छाकी पूर्ति जैसे किसी कपड़ेके बोरेमें अनाज भर दिया जाय इस तरहसे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा बनाओ, भजबूत करो, खुब इच्छा भरलो, उससे इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इच्छा न रही, यही इच्छा की पूर्ति है। कोई भी आराम या विषयसाधन किया, जिसमें यह जीव इच्छा की पूर्ति मानता है। तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समय की उसकी क्या स्थिति होती है कि उस तरहका ख्याल नहीं रहा, इच्छा नहीं रही। तो जैसे इच्छाके विनाशका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह मनके मर जानेका ही नाम मनकी स्थिरता है।

भैया! एक और अपना उपयोग लग गया तो मनका जो काम था वह नहीं चल रहा है। मनका काम है चंचलता, विकल्पजालसे उठा उठा फिरता रहे। बन्दर तो अत्यन्य चंचल होता है। जैसे बन्दर कभी स्थिर नहीं बैठ सकता, कभी हाथ हिलायेगा, कभी आंखे मटकायेगा, हँसी तरह

यह मनहृषी घनदर वडा चंचल है। क्षणभरमें ही लाखों इजारों मील पर चढ़ा जाय। जहां कुछ भी परिचय किया, वहां जाने में इसे देर ही नहीं लगती। कोई चीज जाये तो उसमें गति होती है। शब्दकी गति है। वह कितनों देरमें चलकर कहां पहुंच सकता है?

पर मन की गति नहीं है तुरन्त जहां चाहे पहुंचता है। जैसे बरसातके दिनों में जब विजली चमकती है तो उसका रूप दिखने के बाद एक आध मिनट बाद कड़वाहट सुनाई देती है। तो जिस समय उजेला हुआ उसी समय बालों में कड़वाहट हुई। परहृष्ट के विषयको तो देर नहीं लगती है। विजली चमकी और तुरन्त ही दिल गयी, और वहां जो शब्द निकलता है उस शब्दकी सुनवायी देरमें होती है। कड़वाहट देकर ही गाज गिरती है। उजेला और शब्द दोनों एक साथ होते हैं, पर उजेला दिखने के एक आध मिनट बादमें शब्द सुनाई देता है। तो शब्दकी गति है, पर मनकी गति नहीं है। जैसे रूपको तुरन्त देख लिया नेत्रने इसी तरह कितनी ही दूर हो कोई, तुरन्त विकल्पमें आता है। क्षणमें यह मन कहां भागता है, क्षणमें कहां भागता है? जहां-जहां इस जीवको राग है, जहां-जहां इसने अपना स्वाथ माना है वहां-वहां यह मन क्षणमें दौड़ता भागता है, इसलिए यह मन स्थिर हो जाय ऐसा कोई उपाय बताओ। ऐसा इस दोहेमें बताया जा रहा है।

दे स्वामी! सुमको ऐसा उपदेश करो, यों प्रभाकरभट्ट योगीन्द्रुदेष से पूछ रहे हैं। उस निर्देष परमात्मातत्त्व से भिन्न अन्य देव से मुझे प्रयोजन नहीं है। जो परम आराध्यस्वरूप है उस स्वरूपसे भिन्न अन्यका मुझे प्रयोजन नहीं है। भगवान की भी जब भक्ति करते हैं तो भगवानमें उस परमात्मस्वरूपको ही हम देखते हैं। व्यक्तिगत सत्ताका हम आश्रम नहीं लेते हैं। हम शुद्ध मनसे, यथार्थ विविसे भगवानकी भक्ति करते हैं तो भगवान एक परम निर्मल आत्मा है, एक सद्गुरुन् पदार्थ है, भिन्न अस्तित्व बाला है, इस और दृष्टि भी दी, किन्तु वह जो स्वरूप है, निर्देष ज्ञाताद्रष्टा रूप जो स्वरूप है मात्र उस स्वरूपपर कृष्ण रहती है। जैसे यहां किसी घनिकसे कोई सम्बन्ध किया जाय तो वहां व्यक्तिगत सत्ता ध्यानमें रहती है, स्वरूप ध्यानमें नहीं है। इस तरह व्यक्तिगत सत्ताका ध्यान भगवद्गुरु में नहीं रहता।

मैंया! भगवद्गुरुकि में यथार्थभक्तिका ध्यान रहता है। वहां तो शुद्ध आत्मस्वरूप ध्यान में रहता है। यद्यपि आलम्बन लेते हैं परकी और उस परमात्माकी भक्तिमें, पर भक्ति करते समयमें परमात्मन नहीं रह पाता

और एक परमात्मास्वरूप ही हुष्ट होता है। तो ऐसा जो परम आराद्य निर्दीप परमात्मतत्त्व है उस तत्त्वके सिवाय अन्य देवोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो उस परमात्मपदःर्थ के बताओ जिससे मन स्थिर हो और यह मोह दूट जाय। मोहमें उत्पन्न हुई वेदना मोहके कालमें ही तो है। मोह दूट तो मोहके साथ मोहकी सारी वेदनाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार प्रभाकरभट्टने प्रश्नरूपमें कहा। अब योगीः हुदेष उत्तर देते हैं।

णासविण्णगद सासडा अंबरि जेत्यु विलाइ।

तुदृढ़ मोहु तडत्ति तहिं मणु अत्थवण्हैं जाइ ॥१६२॥

कहते हैं कि नाकसे निकली हुई श्वास जिस अच्छरमें मिल जाय उस ही जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। शब्द सुननेमें और उसका सीधा अर्थ लगानेमें मर्म नहीं आता है। वया कह रहे हैं कि नाकसे निकली हुई श्वास अच्छरमें विलीन हो जाय, उस अच्छरके आश्रयसे मोह दूटता है। क्या मतलब है इसका? नाकसे हवा निकली और आकाशमें विलीन हो गयी। उस आकाशके आश्रयसे या उस आकाशमें मन लीन होता है, इससे मोह दूटता है। सो इसका भाव यह है कि अच्छरके मायने आकाश नहीं किन्तु अच्छरके मायने इन्य है। जैसे आकाश इन्य है। भले ही वह अपना स्वरूप लिए हैं पर हमें तो इन्य दिखता है। आकाश किसका नाम है? जो यह पोल है, जो यह सुनसान है उसका नाम आकाश है। इस सुनसानको आकाश कहते हैं। सो जो आकाश मानिन्द इन्य है, ऐसा इन्य अपने आपमें है अपना आत्मदेव। अर्थात् मिथ्यात्व रागादिक विकल्प जालोंसे रहित, इन्य स्वयं।

मैया! कुछ ऐसी स्थिति बनाकर अनुमान करना चाहिए कि जब यह जीव बाहरी विकल्पोंमें फँसता है, स्त्री है, मुत्र है, लोग हैं, घर है, घन है, वैभव है, जब ऐसा देखते हैं तब यह सूना सूनासा नहीं लगता। ये हैं, वे हैं, यह है, वह है। जरा कुछ ऐर इस विकल्पजालको छोड़कर एक परम विश्रामके साथ अवस्थित हो जाय, कुछ नहीं सोचना है। उपयोगमें कोई पर जब नहीं रहता है, कोई विकल्प नहीं रहता है ऐसी स्थिति में इह क्रात्मा हो जाता है हल्का, शुद्ध, आनन्दसग्न। पर वहां इसको रिलाया बदा है? कुछ मिलकर भी मिला कुछ नहीं, क्योंकि उपयोगने कुछ विकल्पात्मक ग्रहण नहीं किया। विकल्पात्मवरूपसे कुछ ग्रहण करें तो वहां इस जीवयो लगता है कि मेरा सब कुछ है, भरे पूरे हैं, इन्य नहीं हैं। और जहां केवल ज्ञान ज्योतिर्वरूप उनुभवमें रहता है, कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है विकल्पोंका, ऐसी स्थितिको कहते हैं इन्य।

सो कहते हैं कि यह नासासे निकली हुई उच्छ्रवास जिस शून्यमें
विलीन होती है—नासविनर्गत स्वासको भी एक व्यष्टिहारनयसे कहा है।
करना तो अपने उपयोगको ही उस शून्यमें लौभ है। पर श्वासका विविक
सम्बन्ध है, द्यानविधिमें प्राणायामका वर्णन है। वह प्रयोग द्यानका कुछ
उपरी साथी है। इसलिए श्वास शब्दको लेकर ही बताया है। आव तो यह
है कि निरुत्ते हुए उपयोगको उस शून्यमें लीन करना है। श्वास निकली
आर्त्त यह जो उपयोग निकला, ज्ञान जो बाहर चला, विकल्पजाल जो
उठा, जो कि श्वासकी तरह सूक्ष्म है, उससे भी अधिक है। वह उपयोग
जिस अस्वरमें विकल्पजालसे रहित ज्ञानज्योतिःस्वरूपमें लीन दिया जाता
है—कहते हैं कि मोह वहीं दूटता है।

मैथा ! अपनेको विविक देखें, मैं सबसे जुदा हूं, किसीसे मुझे कुछ
लाभ नहीं है, यह चीज अपने ज्ञानमें उत्तरती हुई सी रहे। यह मैं ध्वेता
ही हूं, अकेला ही था, अकेला ही रहूंगा। दूसरा कुछ भी साथ नहीं है,
कोई भी साथी नहीं। तो यों विविक शुद्ध देखनेसे शुद्धस्वरूपके अनुभवका
परिणाम जगता है। विकल्पजालोंसे ही यह अपनेको कुछ भरापूरा देखा
करता है, पर यह सब भ्रम है। ऐसी विविक हृषि जब अपनेको आती है
तब वहां मोह दूट जाता है। अपने आपको सूना, परसे विविक रहित,
इस तरह अपनेको उपयोगमें लें लो मोह दूटता है। और जहां ऐसे विविक
निज तत्त्वशी हृषि छोड़कर बाहरके पदार्थमें उपयोगको लगाया तो वहां
तो मोह बढ़ेगा, राग होगा। मोह राग मिटानेका एक ही यत्न है कि हम
सूने जिनका जो केवल ज्ञानज्योतिःस्वरूप है, प्रनिभास मात्र है, जिसका कुछ
नहीं है, जिसमें और किसीका प्रवेश नहीं है, केवल है, खाली है, सूना है,
उस सूनेमें अस्वरमें प्रवेश करें तो मोह दूट ना है।

जैसे कभी यह कहते हैं कि यह कमरा सूना है अर्थात् उस कमरेमें
न कोई आदमी बैठा है, न कोई चीज रखी गई है। केवल कमरा ही कमरा
है। तो केवल कमरा ही कमरा रहनेकी स्थितिको कहते हैं कि कमरा सूना
है। इसी तरह इस आत्ममें आत्मसत्त्वके कारण जो है, सो तो कहीं जाता
नहीं, वह तो ही ही है। पर उसमें अपने असाधारणस्वरूपके अतिरिक्त
और कुछ चीज न हो उसे कहते हैं शून्य। न कर्म, न विभाव, न विकल्प-
जाल, न किसीके विकल्परूपको ग्रहण करना। जहां ये कुछ भी नहीं हैं उस
निज आत्मतत्त्वको कहेंगे सूना। ऐसे सूने निज स्वरूपमें यह उपयोग
विजीन हो, यह श्वास विलीन हो तो मोह मिटता है और उस ही जगह
यह मन रियताको प्राप्त होता है।

मैया ! किस जगह मनस्थिरताको प्राप्त होता है ? जहां निर्विकल्प समाधि है उस जगह । विकल्प न उठे, केवल ज्ञानमात्रकी स्थिति हो । ज्ञानमात्रकी भी क्या स्थिति ? वेबल प्रतिश्लोभमात्र छनुक्षबन, परिणामन जहां कुछ विकल्प नहीं । इसलिए निर्विकल्प समाधि जो कि परम ज्ञानन्द से भरी हुई अवस्था है, केवल शून्य हो सो नहीं है । वह ज्ञानानन्दकी शुद्ध अवस्था है पर उस ज्ञानानन्द की शुद्ध अवस्थामें जो बाहरी विकल्पोंका प्रहरण नहीं है इसी कारण वह सूना कहलाता है । ऐसे सूने निज परमात्म पदार्थमें यह श्वास विलीनताको प्राप्त हो जाय, यहां मोह दूटता है ।

इस उपदेशमें ध्यानकी प्रकृतियोंका भी संकेत है कि श्वास नासिका के द्वारको छोड़कर अस्थरमें विलीन हो जाय अर्थात् तालूस्थानवे छिद्रसे निकल जाय ऐसे ध्यानसे मन स्थिरता प्राप्त करता है, मोह दूट जाता है । प्रकृत्या उस ध्यानमें ऐसी स्थिति आती है जब बड़ी स्थिरताकी स्थिति हो । उस समय बताया गया है कि यह श्वास फिर नासिकासे न निकल कर तालूके छिद्रसे आकाशमें फैल जाती है अर्थात् ऐसी स्थिर अवस्था है कि नासिका द्वारसे निकलनेका भी श्रम यहां नहीं होता । उसमें भी श्रम है ना । जैसे हम श्रम करते बहुत तेज श्वास निकालें तो । कम गतिसे निकालें तो कम श्रम है । बहुत कम गतिसे निकालें तो बहुत कम श्रम है । पर श्रमका जहां नाम नहीं है ऐसी स्थिति ध्यान अवस्थामें आती है । यहां श्वास नासिका द्वारको छोड़कर तालूरन्ध्रसे निर्गत होने लगती है । यहां करने योग्य यह बताया है कि ऐसे विकल्पजालोंसे शून्य निज परमात्मपदार्थमें यह उपयोग विलीन हो तो मोह मिटता है ।

यहां यह बतला रहे हैं कि जिस अस्थरमें श्वास विलीन की जाती है वहां मोह दूटता है, इसमें आचार्यद्वेषका भाव यह है कि यह जो निर्विकल्प समाधि है वह अस्थरकी तरह शून्य है । रागादिक विकल्पजालोंसे रहित ऐसे निर्विकल्प समाधिपरिणामसे यह श्वास विलीन होती है । श्वास विलीन होनेका अर्थ यह है कि यह श्वास जब ऊंचे ध्यानकी स्थिति होती है तो नासिकासे न निकलकर तालूके छिद्रसे निकलती है । यही है समाधि में श्वासका विलीन होना । ऐसी समाधिकी स्थितिमें मोह दूटता है । उस निर्विकल्प समाधिमें बाह्य बोध नहीं रहता है । बाह्य बोध विकल्पसे रटना हुआ होता है । ऐसी निर्विकल्प समाधिमें मन अस्तको प्राप्त होता है अर्थात् रागादिक विकल्पोंका आघारभूत जो यह गन है विकल्पजाल यह अस्तको प्राप्त होता है अर्थात् अपने श्वभावमें आने पर मनकी चंचलता नहीं रहती ।

अब इसीका वर्णन योग साधनकी दृष्टिसे किया जा रहा है कि जिस समय यह जीव रागादिक परभावोंसे शून्य जो निर्विकल्प समाधि है, आत्मउपयोगमें समाधिमें जब यह जीव ठहरता है तब यहाँकी श्वासरूप जो वायु है वह नासिकाके दोनों छिद्रोंको छोड़कर स्वयं ही विना चाही वृत्तिसे तालुके छिद्रसे निकलती है। तालुका छिद्र बालकी अनीसे भी बहुत सूक्ष्म होता है। अनीके अष्टम भाग प्रमाण सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे किसी बच्चेके सिरमें तालु देखा होगा, नीचा ऊंचा उठता हुआ। ऐसा ही तालु सबके सिरके ऊपर ऊंचमें होता है तो उसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो बालकी मोटाई है उस मोटाई से भी बहुत हल्का छिद्र होता है। तो जब ध्यानकी बहुत ऊंची स्थिति होती है, कोई विक्रहण नहीं रहता है ऐसी स्थितिमें वह वायु तालुके छिद्रसे निकलती है, इसे बोलते हैं दशमद्वार। तो ध्यानकी ऊंची स्थितिमें लौकिक जनों जैसी वायु निकले ऐसा नहीं है किन्तु वहाँ तालुसे निकले थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर नासिका से निकले। थोड़ी देर वायु नासिकासे निकले और थोड़ी देर वायु तालुके प्रदेशसे निकले। इस तरहसे ध्यान अवस्थामें दोनों स्थानोंसे वायु निकलती है।

यह कथन इसलिए बताया जा रहा है कि अन्य लोग इस वायु-धारणाको करके स्वरसका नाश मानकर मुकिका उपाय कह देते हैं, सो रोध कर देते हैं और उसमें अपने हिनका उपाय बताते हैं, यदी मोक्षका मार्ग है, ऐसा माने कोई तो उसका निषेध किया है कि वायुधारणा करके श्वासको रोक देना, स्वत्म कर देना, यह प्रह्लाद करने योग्य नहीं है क्योंकि वायुधारणा जो करेगा सो इच्छापूर्वक करेगा, और यह जो ध्यानकी ऊंची स्थितिमें वायुका स्वयंमेव तालुप्रदेशसे भी निकलना, नासिका द्वारसे भी निकलना, ऐसा जो होता है वह स्वयंमेव होता है। उन योगियोंकी वायु पर हृष्टि नहीं होती, इसे रोकना, य मना ऐसी श्वास वायुपर हृष्टि नहीं होती।

मैंया ! योगियोंकी हृष्टि तो वे बल अपने स्वरूपकी ओर होती है। योगी पुरुष भगवत् स्वरूपका ध्यानकर उस स्वरूपमें ही तल्लीनतासे ध्यान करते हैं कि स्वयं हो विना इच्छा। किए वायु रुक्ती है और फिर तालुप्रदेश से नासिका द्वारसे, कभी तालुप्रदेशसे कभी नासिका द्वारसे यों वायु निकलती रहती है, और वायुधारणा करे तो वह इच्छापूर्वक किया जायगा।

वायुधारणाका अर्थ यह है कि बहुत धीरे-धीरे श्वासका लेना, जलदी

श्वास न लेना किन्तु धीरे श्वास लेना और लेकर फिर उदरथानमें, हृदयथानमें रोकना। रोकनेके बाद फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना इसे कहते हैं वायुवारण। इसमें पूरक, कुम्भक और रेचक तीन प्रयोग हैं। श्वासको लेना, इसे कहते हैं पूरक। फिर उसे रोक लिया इसे कहते हैं कुम्भक और फिर धीरे-धीरे निकालना, इसे कहते हैं रेचक।

इस तरह श्वासका लेना, रोकना, श्वासका धीरे धीरे बाहर निकालना ये जो स्थितियाँ होती हैं वायुवारणमें, सो यह तो क्षणमात्र तो सरीके होती है। कोई आभ्यास करे तो घड़ी भर भी हो जाय, पहर भर भी हो जाय, दिन भर हो जाय और कई दिन तक भी हो जाय। तो उसमें व युवारणकी जो क्रिया है उस क्रिया का कल यही है कि शरीरमें रोग न हो, शरीर हल्का हो जाय, यह कल तो होता है वायुवारण से। पर इस वायुवारणसे मुकिका कार्य नहीं होता है।

वायुकी धारणासे, प्राणायामसे, वायुको रोकनेसे एक-एक दो-दो दिन समाधि लगाते हैं, ऐसी क्रियाओंसे मुक्ति नहीं होती है। उससे शरीर की आरोग्यता हो जाय, हल्का हो जाय और लौकिक चमत्कार हो जाय, पर मुक्ति ज्ञानसे ही हो सकती है। ज्ञान विना मुक्ति नहीं होती है क्योंकि यदि ऐसे प्राणायाम और वायुवारणसे मुक्ति होती तो आजबल भी लोग वायुधरणा करते हैं, २ दिन तककी समाधि, ७ दिन तककी समाधि लगाते हैं, श्वासको रोकते हैं, तो इससे बोश्ख कर्यों नहीं हो जाता है? मोक्षका कारण तो मुख्य ज्ञान है। वायुवारणसे इतनी तो क्रिया है, इतना तो सहयोग है कि चित्तको एक जगह स्थिर कर दे। अब श्वासनिरोध, वायुवारणा चित्तको एक जगह स्थिर कर देनेकी धारणा तो है पर मुकिका कारण नहीं है। मुकिका कारण तो ज्ञान ही है। अब चित्त कहीं भी स्थिर हो जाय।

एक कथानक है कि एक समाधि लगाने वाले संन्यासीने राजसे कहा कि हम एक दिनकी पूरी समाधि लगाते हैं। राजा ने कहा कि अच्छा अपनी समाधि दिखाओ। यदि आपकी समाधि बदावर ठीक रहेगी तो तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा। इतनी बात सुनते ही संन्यासीने अपने विचमें सोब लिया कि एक दिनकी समाधि दिखाकर अमुक चीज लेंगे। क्या लेंगा, सो समाधिके बादमें कह देगा। लगाया अपनी समाधि। त्योंही समाधि समाप्त हुई त्योंही तुरन्त बोला, क्या कि लालो काला धोड़ा। काला धोड़। उसे पसंद था इसलिए उसे ही मनमें रखे रहा। पूरे दिन भर को अब ने चित्तमें उसने काले धोड़ोंको रोक लिया।

सो वायुधारणासे चित्त एकाघ तो हो जाता है पर वस्तुरखरूपका यदे ज्ञान हो तो उस प्राणायामसे चित्त स्थिर तो हो ही गया है, वस्तु-स्वरूपका ज्ञान करले तो उस वस्तुरखरूपकी ओर चित्त स्थिर होने से उसे मोक्षमार्ग मिलेगा ।

प्राणायाम और वायुधारणा चित्तके स्थिर करनेमें सहायक है, सो हृच्छापूर्वक जो वायुकी धारणा करते हैं और वायुधारणा करके श्वासको विलीन करते हैं, नासा करते हैं, रोकते हैं वह मोक्षके लिए आवश्यक नहीं है ।

एक चित्तसे स्थिर मन, बचन, काय करके समस्त परधस्तुओं में न्यारा जो निज ज्ञायकस्वरूप है उस ज्ञायकस्वरूपमें अपने उपयोगको स्थिर करो, एक यद ही अन्त रखो, यह ही द्विष्टि करो तो उसमें ऐसी स्थिरता होगी कि उसके कारण श्वासका निरोध होगा । श्वासका निरोध सुक्ष्म वृत्ति से, नासिका द्वारसे या ब्रह्मन्धर्से, ब्रह्मन्धु कहो या तालु कहो, छेद कहो, दशमद्वार कहो, एक ही चीज है । ६ द्वार नो होते ही हैं, आंख, कान, नाक मुँह, और दशमद्वार हुआ तालुक ऊपर को छिद्र होते हैं वह तालुस्थान । वहां से भी श्वास निकलती है, नासिकासे भी श्वास निकलती है ऐसी स्थिति बताइ है कि जब निविकल्प चैन्यस्वरूपमात्र ज्ञायकस्वभावकी द्विष्टि होती है तो निर्विकल्प स्थिति होती है । उस निर्विकल्प स्थितिके ध्यान में मोह दूटता है । और भी इसी बातको कहते हैं ।

मोहु विलिज ब्रह्म भण मरद्द तुद्दृष्टि सासु णिसासु ।

केवलणागु वि परिणमह अंघरि जाहि णिवासु ॥ १६३ ॥

जिन मुनीश्वरोंका अस्वरमें निवास है—अस्वरका अर्थ है पर उसमाधि । आकाशकी तरह जो इन्ध भाव है अर्थात् रागादिक विकल्पोंसे रहित परिणाम है ऐसी निर्विकल्प समाधिमें जिनका निवास है उनका मोह नाशको प्राप्त होता है, मन मर जाता है, श्वास रुक जाती है और बेवल ज्ञानरूपसे परिणमन हो जाता है । उस निविकल्प स्थितिमें जो ध्यान है वह बेवल ज्ञान उत्पन्न होने का कारण है । उस स्थिरतिमें श्वास रुक जाती है । इसका अर्थ यह है कि लौकिक पुरुषोंकी भाँति श्वास नासिकाके द्वारसे वेग पूर्वक नहीं निकलती है किन्तु वभी तालुके द्वारसे सुक्ष्मरूपमें और कभी नासिकाके द्वार से निकल कर विलीन हो जाती है । विलीनका अर्थ है कि जैसे लौकिक पुरुषों की श्वास निकलती है त्रिमसद्वित नासिका द्वारसे, देसे त्रिम सद्वित उन योगीश्वरोंकी श्वास नहीं निकलती है ।

यह मन मर जाता है इसका अर्थ यह है कि समस्त विकल्पजाल शांत हो जाते हैं । विकल्पजाल में क्या है ? आकर है, परिणमन है, इस

लोकके वैभवकी इच्छा करना, परलोकमें अपने सुख साताकी चाह करना यह ही विकल्प है। इन्हीं रूप यह मन है। भावमनकी बात कह रहे हैं। भावमन होता है विकल्परूप। भावमन मर जाता है अर्थात् विकल्प शांत हो जाते हैं। तब यह बायु बिना चाही वृत्तिसे नासिकाके द्वारको छोड़कर क्षणमात्र तो तालुके छिद्रसे निकलती है। क्षणमात्रमें नासाद्वारसे ऐसी बायु आती और जाती रहती है, इसीको कहते हैं इसका रुक जाना। उस ही स्थितिको निर्विकल्पसमाधि की स्थिति कही गयी है। किसीके निर्विकल्प-समाधि पूर्ण समय तक हो तो वह केवल ज्ञानका भी कारण है। और इद्दना नहीं है तो वह नहीं भी कारण है पर समाधिके समयकी स्थितिमें जो ध्यान होता है उस ध्यानमें यह श्वास और छ्वास लौकिक जर्नोंके बायु अमसहित निकलती नहीं है। और लोग तो चाह करके इस बायुका निरोध करते हैं, बायुत्रारणा करते हैं। धीरे-बीरे श्वास लिया, फिर हृदयमें रोक लिया, फिर धीरेसे श्वासको छोड़ दिया। तो जो प्राणायामकी क्रियाओंशो करते हैं और मुकिका अंग मानते हैं उनकी हृष्टि उस बायु पर ही रहनी है। ऐसी उन क्रियाओंसे तो मुक्ति नहीं है। हाँ ये क्रियाएं चित्तकी स्थिरताके साथक तो हैं, पर ज्ञान न हो तो जहां को मन चाहा वहांको मन ले जायगा। तो ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होनी, ज्ञान बिना शुद्ध ध्यान नहीं होता और ऐसी स्थिति जब विशेष हो जाती है जहां अम्बर में भी श्वास विलीन हो जाती है। अम्बरका आर्थ आकाश नहीं, निर्विकल्पसमाधि है। और श्वासके विलीन हीनेका अर्थ है कि सूक्ष्म गतिसे, अनीहित वृत्तिसे बिना चाहे कभी नालुके छिद्रसे निकले, कमी नासिका द्वारसे निकले, ऐसी स्थिति बन जाती है। उस स्थितिमें मोह दृट जाता है। जिनका निवास परमसमाधिमें है उनका मोह दृट जाता है।

इस परमसमाधिको अम्बर शब्दसे कहा है। जैसे आकाश शन्य है वैसा ही अपना स्वरूप है। पर जैसे एकदम साफ अनुमानमें आता है कि इस आकाशमें कुछ भरा नहीं है, कुछ इसमें पकड़ने वाली चीज नहीं लगी है। तो जैसा निलेप यह आकाश है इसी तरहकी निलेप जो एक भावना है, ध्यानपरिणाम है, ज्ञानानुभव है। जहां रागादिकका लेप नहीं है ऐसी परमसमाधिको अम्बर शब्दसे कहा है। जो रागद्वेष मोहरूप विकल्पजाल से रहित है और शुद्ध आत्माका सम्यक् अद्वान करता है वह शुद्ध आत्मतत्त्व का ज्ञान है। शुद्ध आत्मतत्त्वमें अनुचरणरूप रत्नत्रय भव प्रकट है। शुद्धआत्मा अर्थ है केवल आत्मा अर्थात् इस आत्माके ही सर्वके कारण

आत्माका जो स्वरूप है तन्मात्र अर्थात् विविक्त विलेप परब्रह्मके संयोग से रहित जो उपाधिजन्य विभावोंकी भी जहाँ कल्पना न की जाय, ऐसा केवल निज स्वरूप चतुष्टय मात्र जो शुद्धआत्मतत्त्व है उसकी श्रद्धा हो। श्रद्धा कहते हैं जिससे हित होता है—जिसकी दृष्टि करनेसे अर्हित सब दूर होता है, ऐसे आश्रयको श्रद्धा कहते हैं। उसमें रुचि हो जाय। रुचि उसमें ही होती है जिसके प्रति हितकी श्रद्धा है। ऐसे शुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान और ज्ञान और उस ही में लगने रूप अपना यत्न हो, वृ० हो याने कथा चाहें, कहाँ लगें, हमी जैसे किसीके मनमें जो बात होती है तो जब भी अवसर पाता है वहीं लगता है, इसी प्रकार ज्ञानी जब भी अवसर पाता है, जब चाहे तब कभी भी जल्दी जल्दी वहाँ कपनी और ही मुक्ता है, अपने आगकी ओर ही लीन होता है। शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर अर्थात् अपने स्वरूपमात्र। उस शुद्ध आत्मामें जिसका निवास है, कहते हैं उन्हें यह बात होती है कि मोह विलीन होता है, मन मर जाता है, मोह दूट जाता है याने रुक जाता है। लौकिक पुरुषोंमें जैसे श्वासकी धारा एक निश्चित रूपमें रहती है, वहाँ श्वास छिन्न हो जाती है, वह उस धारामें नहीं निकलती, वह अग्रकी दशा है और वह विकल्पोंकी स्थितियोंसे श्वास की धारा होती है। यहाँ यह श्वास तालुके इस छिद्रसे जो वेशकी मोटाईके अष्टम भाग प्रमाण सूक्ष्म है, कभी वहाँसे सूक्ष्मरूपमें निकलती है, कभी नासिकासे उसकी गति छिन्न हो जाती है। ऐसी जहाँ स्थिति हो वहाँ मोह दृटता है। यहाँ अभ्यर शब्दसे शुद्ध आकाशका प्रहण न करना। केवल आकाशके आकाशमें श्वास विलीन होती है या आकाशमें जिसका निवास है। आकाशमें निवाससे प्रयोजन नहीं है किन्तु विषयकषायोंके विकल्पोंसे रहित जो परमसमाधि अवस्था है उसे यहाँ अभ्यर कहा है और बायुका निरोध होता है, दूटता है, रुकता है, इससे मतलब य युधारणा न लगाना, जो कुम्भक, रेचक, पूरक रूपसे होता है और यह साधना योगियोंके यहाँ तक हो जाती है कि वे जंगलमें अपनी चिशेष प्रक्रिया द्वारा द्वारा खाले लेते हैं और उनकी भूख शांत हो जाती है। यह योगियोंकी धारणा है जो प्राणायाम करते हैं। वे चिन्तनी ही प्रक्रियाएँ करते हैं। मुँह फैलाकर जिहा निकालने पर बायुधारणा करके, कल्पना करके बायुसे अपनी क्षुधा शांत कर लेते हैं। किन्तु वही चमत्कार करलें, तो भी यहाँ कह रहे हैं कि उस बायुधारणाके द्वारा देह निरोग हो जाय, देह लघु हो जाय, और भी कई चमत्कार करें, श्वासको कई दिन रोक लें, ये सब ही सकते हैं, पर मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्तिका कारण तो शुद्ध

आत्मतत्त्वका श्रद्धान् ज्ञान, आचरण है, जो कि ज्ञानरूप है। ज्ञान विना सुकि नहीं होती है। तो वह वायु नरोद्ध द्वारा न बरना, किन्तु स्वयं ही विना चाहीं वृत्तिसे निविकल्प सत्त्व द्वारा जैसा इह इरुप है उससे शून्यरूप जो निकलता है वह वायु विलय समझो। कहते हैं कि जिस अस्वरमें वायु विलय हो जाता है उसका अर्थ निविकल्प समाधिसे है। वहां मन मरता है, मोह दूटता है और श्वास निष्काशन होता है। श्वासी छक्षाशक्ता छर्छ है कि विना चाहीं वृत्तिके विना अम, विना उपयोग वह श्वास कभी ताङुसे और कभी नासिका द्वारसे निकलती है। उस स्थिरतामें मन मरता है। पवन क्षयको प्राप्त होता है, यही श्वासका रुक्षना है और उस समय स्वर्व अंश तीन भुवनके समान हो जाते हैं अर्थात् वे बलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवलज्ञानका विकास आत्माकी निविकल्पसमाधिमें स्थापित करता है। आकाशक जाननेसे मोह नहीं मिटता, किन्तु आत्मस्वरूप जाननेसे मोह मिटता है। जो शून्यरूप समाधि अन्यत्र कही गयी है वह पूर्णतया नहीं है विकल्पजाल नहीं है इसलिए तो शून्यरूप है किन्तु अपने आपमें तो ज्ञानानंद रस निर्भर है, भरपूर है ऐसे जहां विभावोंकी शून्यता हो जाती है वहां केवलज्ञान उत्पन्न होता है। भाव बिलकुल शून्य हो जाय ऐसा शून्य नहीं कहा गया है। तो यहां भावार्थ यह लेना है कि हम अपनेमें वेवल आत्मतत्त्व मायने आत्माके सत्त्वके ही कारण जो आत्माका स्वरूप है चैतन्यमात्र, प्रतिभासमात्र, ऐसी स्थिति जहां तक बने उसको अपने हानमें लें और वहां उपयोग स्थिर करें तो मोहका दूटना, मनका मरना, संष्टोषसे हटना, समस्त बातें इसके प्रकट हो सकती हैं।

अब यह बतला रहे हैं कि मुनिका उपयोग जब अस्वरमें रहता है, अस्वरका अर्थ है रागद्वेष रहित निज स्वरूप, निज स्वरूपमें रहता है उस समय मोह दूट जाता है, मन मर जाता है और श्वास रुक जाती है। तो अस्वरका अर्थ यहां आकाश नहीं लगाना वयोऽक आकाशके जाननेसे मोह नहीं मिटता है और भाव यह लेना है कि जैसे आकाशमें पील है, सूनापन है इसी प्रकार आत्मामें भी सूनापन है, रागादिक भाव नहीं है, उसका ही मात्र उसमें स्वरूप है और श्वास रोकद्वारा उर्ध लेना कि विना चाहीं वृत्तिसे सुखमरुपसे यह श्वास ताङुसे भी निकलती है और नाष्टसे भी निकलती है ऐसी स्थिति निविकल्प समाधिमें होती है और उस निविकल्प सनाधिसे केवलज्ञान प्राप्त होता है।

जो आयासइ मणु धरइ लोयालोयपमाणु ।

तुद्वृद्व मोहु तद्विति तसु पावइ परद्वै पवाणु ॥१६४॥

जो व्याता पुरुष आकाशमें मन धरता है वह कैसे मन धरता लोकालोकप्रमाण अर्थात् जो अपने ज्ञानको ऐसा विस्तृत बना देता है कि समस्त लोकालोकके पदार्थोंमें यह विराज जाय. ऐसा फैला देता है उसका भोग दूट जाता है। जैसे कोई पुरुष धरमें, परिधारमें, बच्चोंमें ही राग लगाये हैं तो जो धरके दो चार प्राणियोंमें राग लग गया है उसको तोड़ने के लिए यह भी उपाय है कि अपना राग सब जीवों पर लगा दे। रागको सब जगह विस्तृत कर देनेसे वह राग दूट जाता है। तो अपने ज्ञानको या तो बहुत विस्तृत करें या संकोच करके सिर्फ आत्मामें ही केन्द्रित करें, जीवका लगाव हितरूप नहीं है। या तो अपना ज्ञान सारे लोकालोकमें फैला दो तो भोग दूटता है या सब औरसे अपना उपयोग हटाकर केवल आत्मा के स्वरूपमें लगाओ तो उससे भोग हटता है।

मैंया ! यहां विस्तारवादका विवाद किया है कि जो अपना मन लोकालोक प्रभाण आकाशमें धरता है उसके शीघ्र भोग जाशको प्राप्त हो जाता है। और किर उस ही लोकालोकके प्रभाण आत्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। तो जैसे परद्रव्योंके सम्बन्धसे इहिन होनेके उपायसे आकाश अम्बर कहलाता है, शून्य कहलाता है इसी प्रकार यह आत्मा यद्यपि अपने ज्ञानानन्दस्वरूपसे भरा हुआ है तो भी इसमें मिथ्यात्व रागादिक परभाव नहीं है, औपाधिक भाव नहीं हैं, इसलिए यह जो निर्विकल्प समाधि है उसको आकाश शब्दसे कहा है, अम्बर शब्दसे कहा है। तो जो आकाशमें अर्थात् निर्विकल्प समाविमें रागद्वयसे शून्य निजस्वरूप मात्र आत्मतत्त्वमें मन स्थिर करता है उसके भोग दूट जाता है। कैसा है यह मन ? अर्थात् मानसज्ञोकालोक प्रभाण है। यहां मन शब्द को ज्ञानसे बताया है। यह ज्ञान लोकालोक प्रभाण है, लोक और अलोकमें व्याप रहा है, अर्थात् विस्तृत लोकालोकमें व्यवहारसे ज्ञानकी अपेक्षा फैला हुआ है, प्रदेशकी अपेक्षा नहीं क्योंकि प्रदेशकी अपेक्षासे तो यह ज्ञान इतनेमें ही है जितनेमें आत्मा का द्वेष है। आत्माके प्रदेश विस्तृत हैं।

तो इस तरह अपने ज्ञानसे फैल करके लोकालोक प्रभाण करके जिसका चित्र रागद्वयादिकसे शून्य आत्मतत्त्वमें रहता है उसका भोग बहुत शीघ्र दूट जाता है और केवल भोग ही दूट जाता है सो जात नहीं है इन्हुंनु परमात्मा का स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। कैसा है वह परमात्माका प्रभाण कि ज्ञानसे तो लोकालोक व्यापक है और प्रदेशकी अपेक्षासे अपने निजी प्रदेशमें है। जैसे यही बतलावों कि आपकी दृष्टि कितनी जगह है ? दृष्टिके भायने आंख या देखना, जिसे सीधा कह देते हैं आंख। आपकी

आंख कितनी जगहमें है ? तो कह देते हैं कि हमारी आंख मील भरमें है, कमरे भरमें है, मायने जितनेमें आंखसे देख रहे हैं उस सबको आंखसे कह देते हैं। आपकी आंख कितनेमें फैल गई है ? तो सारे कमरेमें फैल गई है और निश्चयसे देखा जाय तो आंखका जितना स्थान है उतनेमें ही यह आंख है, उतनेसे बाहर नहीं है। इसी तरह भगवान कितनेमें फैला है ? लोकालोकमें फैला है।

ज्ञानकी अपेक्षा भगवान लोकालोकमें द्यापक है अर्थात् भगवानदा ज्ञान लोकालोकको जानता है। इस कारण भगवान रूपद्वय है, पर प्रदेशकी अपेक्षा वह एक शुद्ध चैतन्य जो निर्दोष है, सर्वज्ञ है वह कितनेमें विस्तृत है ? तो वह मात्र अपने प्रदेशमें विस्तृत है। जैसे रूप शशुके सम्बन्धमें चक्षुको व्यवहारसे सर्वगत कहते हैं, जहां तक जान रहे हैं देख रहे हैं आंखसे वहां तक यह आंख फैली है, पर निश्चयसे देखा जाय तो ये चक्षु सर्वगत नहीं हैं। जैसे आंखसे देखें तो सब दिख गया। यह आंख कमरेमें भी है, सीसीमें भी चली गयी और आग दिख रही होगी तो आगमें भी चली गयी। पर आंख, आंखमें है या प्रदेशके रूपसे है ? विषयोंके रूपसे है, देखनेके रूपसे है।

क्या आंख आगमें चली गयी ? अगर आंख आगमें चली गयी तो पूट जायेगी। तो प्रदेशकी अपेक्षासे आंख आगमें नहीं है, देखनेकी अपेक्षासे आंख आगमें है। इसी तरह भगवान ज्ञानकी अपेक्षासे सारी हुनियामें फैला है पर प्रदेशकी अपेक्षासे तो भगवानका जितना आत्मा है, जितना क्षेत्र है उतनेमें ही फैला हुआ है। यदि यही आंख निश्चयसे सर्वगत हो जाय, प्रदेशकी अपेक्षा भी सर्वगत हो जाय तो जैसे अरिनवे कूनेसे दाढ़ पैदा होती है इसी तरह देखनेसे आंखमें दाढ़ पैदा हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। इसी तरह हमारा ज्ञान सबमें फैला हुआ है किन्तु परमें तन्मय है।

इम दूसरेके दुःखको भी जान रहे हैं, इसको इतना बुलार है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है ये सा हम ज्ञानसे जान रहे हैं दूसरे को, पर व्यवहारसे जान रहे हैं या निश्चयसे जान रहे हैं ? अर्थात् हम जाननके रूपसे ही जान रहे हैं या हमारा यह आत्मा उस जगह चला गया है (दूसरेके आत्मामें)। दूसरेके दुःखको हम व्यवहारसे ही जान रहे हैं निश्चयसे तो हम अपने आपके प्रदेशमें हैं। सो जो कुछ हो रहा है वह मेरा मेरे ही प्रदेशमें हो रहा है, बाहरमें कुछ नहीं हो रहा है। तो हम निश्चयसे दूसरेके दुःखको जानें, दूसरेके दुःखमें प्रवेश कर जायें, तन्मात्र हो जायें तो हमें उसके

दुखका अनुभव हुआ करेगा, पर अनुभव नहीं होता। अनुभवमें और ज्ञानमें फरक देखो। अपनेको १०० डिग्री बुखार चढ़ा हो तो खुदको तो बुखारमें अनुभव होता है और दूसरेके १०४ डिग्री बुखार थर्मोमीटर से देख रहे हैं, पर इतना जान लेनेके बाद भी उस बुखारका अनुभव होना है क्या? तो उस जानने वालेने दूसरेके बुखारको जाना तो वह व्यवहार से जाना और खुदका जो बुखार जाना वह निश्चयसे जाना। निश्चयसे तो आत्मामें जो परिणाम होता है उस परिणामनको जानता है यह।

इसी प्रकार क्षेत्रमें निश्चयसे यह आत्मा लोकालोकशमाण असंख्यात प्रदेश है। पर व्यवहारसे शरीरका उपसंहार होता, विस्तार होता, मायने शरीर बढ़ता है, घटता है तो ऐसे संकोच विस्तारके बशसे यह देह प्रमाण ही रहता है। अभी जैसे वचपनमें बचा छोटा है तो वह एक ही हाथका बड़ा बचा है, अभी उसका आत्मा उत्तने देहमें है जितना कि उसका शरीर है और जब जवान हो गया तो तीन साले तीन हाथका बड़ा आदमी ही हो गया, तो आत्मा अब उत्तनमें फैल गया। इसी तरह जो अभी चीटीके शरीरके बराबर है और मरकर वही हाथी बन जाय तो हाथीके शरीर बराबर हो जाय।

जैसे आग है। आग स्वयं अपने आप कैसी होती है, गोल कि चौकोर, बतलावो? हम कोयला या लकड़ीकी आगको नहीं पूछ रहे हैं, हम तो आगको पूछ रहे हैं कि वह कैसी होती है? तो तुम उस आगका कुछ आकार भी बता सकते हो? नहीं बता सकते। पर आगका आधार-भूत जो हृथिन है वह आगर गोल कोयला है तो आगका आकार गोल है और आगर कोई लम्बी लकड़ी है तो आग लम्बी है। तो जैसे हृथिनके आधार पर आगका विस्तार है इसी तरह देहके आधार पर इस जीववा विस्तार है। जीवका अपने आप कैसा आकार है? बतलावो। जीव लम्बा है, या चौड़ा है या गोल है? किसी जीवका कुछ आकार भी है क्या? कुछ नहीं। तो जैसा देह हो उस देहके ही आकार बाला जीव हुआ।

अब प्रश्न करो कि सिद्ध जो हो गए, उनके शरीर तो रहा नहीं किर भी उनका आकार बना हुआ है सो कैसे? उत्तर—उनका वह जो आकार रह गया है उसका कारण पूर्व शरीर है। पूर्व शरीरमें जितने प्रमाणमें उन का आत्मा था शरीरके वियोग होनेके बाद अब वह आत्मा न कम हो सकता है और न बढ़ सकता है क्योंकि आत्माके कम और बड़ा होनेमें निमित्त तो कर्मोंका उदय और देहका आश्रय है। सो अब न नवी देहका

आश्रय मिला और न कर्म है, फिर यह बतलावो कि वह सिद्ध प्रभु जिस देहसे मुक्त हुए हैं उस देहसे छोटा हो जायेगा कि बड़ा हो जायेगा? न छोटा हो सकता और न बड़ा हो सकता।

फिर एक प्रश्न और करो कि जैसे दीपक एक मटकामें रखा हुआ है तो दीपक मटका बराबर उजेला करता है। वह यदि मटका से बाहर निकल जाय तो उसका प्रमाण सारे कमरेमें हो जाता है। इसी तरह जब तक यह जीव देहमें रह रहा है तब तक वह प्रमाण है, मगर देहसे मुक्त हो जाय तो उसे सब जगह फैल जाना चाहिए। प्रथम उत्तर तो यह है कि दीपक तो लौ प्रमाण है, उसका निमित्त पाकर ये स्कन्ध प्रकाशमान हो गये। द्वितीय उत्तर यह है कि दीपक का स्वरूप तो स्वयं अपने आपके कारण फैला हुआ पहिले से था। उस मटके ने उसको रोक रखा था तो अब मटका की रुकावट मिट जानेसे जैसा वह पहिले स्वभावमें था वैसे आ गया, फैल गया। वहाँ तो बात बन जायेगी कि ननु यह आत्मा पहिले से तो फैला हुआ न था। यह तो अनादिकालसे देहके आश्रयमें रह रहा है। सो जैसा देह मिता, जितने प्रमाणका मिला उतने प्रमाणमें फैल गया। तो अब देहके वियोग होने पर भी चूँकि पहिले से फैला न था, न फैलनेका स्वभाव था, इस कारण जिस देह से मुक्त हुआ है उस देहप्रमाण रह गया है।

तो भगवान निश्चयसे अर्थात् आत्मप्रदेशकी अपेक्षासे तो वह अपने स्वरूपप्रमाण है या जब अरहंत भगवान हैं तो उनका देह भी लगा हुआ है तो वह देहप्रमाण है और जब सिद्ध भगवान हुए तो वे जिस देहसे मुक्त हो गए हैं उसके बराबर रह गए। पर ज्ञानकी अपेक्षा देखा जाय तो भगवान लोकालोक व्यापक हैं। उनका ज्ञान अलोकाकाशमें भी चला गया। जानते हैं ना सब! जानते हैं अलोकाकाश को भी। जितना लोकाकाश है ३४३ घनराजू प्रमाण, इतना ही तो नहीं जानता है। वह तो समस्त द्रव्यों को जानता है। तो आकाशमें जितने द्रव्य हैं उतने आकाशको जानते हैं। आकाश एक अस्तित्व द्रव्य है जो लोक और अलोकमें संबन्ध व्यापक है तो पूरे लोकालोकको जान लिया।

उपयोग लोकालोकमें गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने चित्त लगाया और उपयोगको भेजा, किन्तु ऐसा कहा जाता है। उनके उपयोग में जितना जो कुछ सत् है वह समस्त सत् प्रतिभासमें आ गया, इसीको ज्ञान शब्दसे भी कहते हैं और प्रतिभास शब्दसे भी कहते हैं।

इमने भी जितने पदार्थको जाना, उपयोग देकर जाना हो या बिना उपयोग दिय भी कभी जाना हो तो हमारा ज्ञान उतनेमें गया हुआ।

बोला जायगा। ज्ञान जाता नहीं है, ज्ञानके हाथ पैर नहीं है, गति वहीं है वस अपने आपकी भूमिमें ज्ञानका जितना इयाकर परिणामन हुआ उसको 'ज्ञाना' बोला करते हैं।

तो यों परमात्मा निश्चयसे लोकालोक प्रभाण औ संख्यात प्रदेश वाला है, फिर भी व्यवहारनयसे शरीरकृत उपसंहार और विस्तार होता है देहमात्रका। अच्छा बताओ यह आत्मा स्थयके आकारसे कितना बड़ा है? तो जितना तक कभी बड़ा हो सकता हो उतना बड़ा बतावोगे। जैसे पूँछ कि आग कितनी बड़ी होती है? तो एक भी न बता पायेगे पर बड़ासे बड़ा जो इंधन होता होगा-जितना बड़ा होता हो मान लो कि १०-२० फिट लम्बा कोई दूठ पका देखा हो तो कहोगे कि २० फिट बड़ा है, पर निराधार-रूपसे किसीने देखा है कि आग २० फिटकी होती? नहीं देखा। यह जीव जब केवलीसमुद्घात करता है तेरहवें गुणस्थानमें तो इस जीवका प्रदेश केवलीसमुद्घातमें जबकि लोकपूरण होता है तो समस्त लोकाकाशमें व्याप जाता है। तो लोकाकाश प्रभाण हुआ, पर व्यवहारसे तो जैसा देह मिला, उस देहप्रभाण ही यह आत्मा कहलाता है।

यहां चर्चा यह चल रही है कि जो योगी अस्वरमें आकाशमें अपने मनको घरता है उसका मोह दूट जाता है। तो आकाशका मतलब यहां आकाश नहीं है किन्तु जैसे अकाशमें अन्तराल है, शून्य है, इसी प्रकार आत्मा समस्त बाह्य पदार्थोंसे सूना है, समस्त बाह्य भावोंसे सूना है। अपने ही ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र है, ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र अपने आत्मा में जो मनको घरता है उसका मोह शीघ्र दूट जाता है। इसी बातको ऊँ और एक दोहोसे बतलाते हैं।

देहि वसन्तु वि शवि मुणिष अप्या देऽ अग्णंतु।

अंवरि समरसि मणुष्वरिवि सामिय गण्डु गिभंतु ॥१६५॥

हे स्वामी! देहमें वसता हुआ भी यह आमदेव अनन्त गुणोंका आधार है। मैंने अज्ञानतासे नहीं जाना। अपने मनको समतापरिणाम-रूप आकाशमें घरकर मैंने नहीं जाना है, इसलिये मैं अभी तक नष्ट हो रहा हूँ, बरबाद हो रहा हूँ इसमें कोई संदेह नहीं। यह दोहा इस प्रकारके आशय को लिय हुए है कि प्रश्नकर्तने पहिले प्रश्न किया था कि यह मोह कसे दूटता है, उसके उत्तरमें २, दोहोसे आचार्यने समाधान किया है कि मोह यों दूटता है कि रागादिक विकार रहिन वीतराग चिदानन्दस्वरूप अस्वर में मनको लगानेसे मोह दूटता है। तो इस उत्तरको सुनकर प्रश्नकर्ता समाधान रूपमें आया और वह उत्तरको स्वीकार करता हुआ अंतिम

विज्ञापन कर रहा है अथवा परचाचाप प्रकट कर रहा है कि हे स्वामी ! सच है। इस देहमें बसते हुए इस मुख आत्माने अपने इस अनन्त आनन्दको न जाना, समतापरिणामरूप समाधिभावको मनमें लेकर न जाना, इसीलिए ठीक है नाथ ! मैं अभी तक बरबाद होता रहा।

यहाँ प्रश्नकर्ता प्रभाकरभट्ट गुरु योगीन्द्रदेवसे निवेदन कर रहे हैं कि यह देह जो जीवका बंधन बना रहा है वह व्यवहारनयसे है। निश्चय से आत्मा कहाँ रहता है, और व्यवहारसे आत्मा कहाँ रहता है ? तो व्यवहारसे आत्मा देहमें रहता है और निश्चयसे आत्मा अपनेमें रहता है। आकाशसे बाहर तो आत्मा कहीं चला नहीं गया, रहा आकाशमें ही, किर मी आत्माका जो निजी द्रव्य है उस निजी द्रव्यसे उसके क्षेत्रको देखा जाय तो वह आत्मा अपने आपके भीतर मैं है।

जैसे पूछा जाय कि यह पुस्तक कहाँ है ? तो व्यवहारसे तो कह दो कि यह पुस्तक कमरेमें है। जरा और घढ़कर कह दो कि आकाशमें है, पर निश्चयसे पूछा जाय कि यह पुस्तक किसमें है ? तो कहा जायगा कि यह पुस्तक पुस्तकके निजी प्रदेशमें है। आकाशसे बाहर यद्यपि यह पुस्तक कहीं गयी नहीं है, आकाशमें ही है, पर आकाशके प्रदेश, आकाशका क्षेत्र जुदा है और पुस्तकके प्रदेशका क्षेत्र जुदा है, इसीलिए निश्चयसे पुस्तक-पुस्तकमें है, आकाशमें नहीं है, कमरेमें नहीं है। इसी दृष्टिसे आत्माको पूछा जाय कि कहाँ है आत्मा ? तो व्यवहारका उत्तर है कि देहमें है और कहाँ है—देख लो। शरीरमें बस रहा है। शरीर गया तो आत्मा गया, शरीर बैठा है तो आत्मा बैठा है, देखो बंधा है ना शरीरसे आत्मा। जहाँ शरीर जायगा वहाँ ही आयका आत्मा है। तो व्यवहारसे यह आत्मा शरीरसे बंधा है।

व्यवहार कहते हैं उसे जहाँ एकपर दृष्टि न हो, दो पर हो या अनेक पर हो। तो जब हम अद्वैतको छोड़ते हैं और व्यवहारकी दृष्टि बनाते हैं तो हमें तो दो चीजें दिख रही हैं, दोका सम्बन्ध दिख रहा है, तो व्यवहारसे यह आत्मा देहमें बसता है। जैसे भैंसको खूंटेसे बांध दिया, रस्सीसे बांध दिया तो पूँछ कि बतावो भैंसका गला कहाँ है ? तो व्यवहारसे रस्सीके बीचमें है, और निश्चयसे गला कहाँ है ? निश्चयसे भैंसका गला उसीके गलेमें है। तो निश्चय तो दिखाता है एक वस्तुको और व्यवहार दिखाता है अनेक वस्तुओंको। तो इस प्रकार आत्मा निश्चयसे कहाँ बस रहा है ? तो एक आत्माभरको देखो, दूसरेका तो लक्ष्य ही नहीं करना है। तो उस एक आत्माको देखनेसे यह निर्णय हुआ कि आत्मा, आत्मामें बस रहा है।

अब जरा आत्मा से बाहर की भी परिस्थितियां देखो तो व्यवहार हृषि आयी। व्यवहार से आत्मा कहाँ रहता है? वह देह में रहता है।

यद्यपि व्यवहार से आत्मा देह में रहता है। रहो-नैदेह में, रहकर भी इस मुक्त आत्मा ने अपना शुद्ध आत्मा को न जाना। शुद्ध आत्मा का अर्थ है खालिस आत्मा। केवल मैं सत् जो हूँ उस स्वरूप से मैंने अपने को न जाना। जानता रहा तो यों ही जानता रहा—यह मैं हूँ, यह मैं आ गया, यह मैं खाना हूँ, यह मैं बैठा हूँ, इस तरह से बात्य जो देह है उसको ही जाना। इस देह में बसकर भी मैंने अपने आप को न जाना। निश्चय से यह मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। अपने आप के स्वरूप से कैसा हूँ? इस प्रकार से मैंने न जाना। जब मैंने अपने निज शुद्ध आत्मा को न जाना तो नाना योनियोंमें, गतियोंमें मैं भटकता रहा। धर्मपालन का आधार है अपने आप को केषल देखना, न्यारा देखना, सबसे जुदा देखना।

कोई शरीर को ही आत्मा माने, शरीर से जुदा अपने आत्मा को न देख सके तो उसने धर्मपालन तो नहीं किया है, और भीतर चलो। रागादिक भाव आत्मा में उटते हैं जो कि औपाधिक भाव हैं, सर्व रागादिक भावों से जुदा मेरा स्वरूप है, उस चैतन्यभाव को मैंने न जाना तो धर्मपालन तो नहीं किया। व्यवहार में भी जितना-जितना आपको जुदा दीखेगा उतनी-उतनी ही आपको शासि प्राप्त होगी और जितना अपनी जुदायगी से अलग होकर बाहर में दीखेगा उतनी ही अशांति होगी।

मैथा! अपने शुद्ध आत्मा को देखो, इसका अर्थ यह नहीं करना है कि मैं रागद्वेषरहित भगवान की तरह शुद्ध हूँ और उस शुद्ध को देखता हूँ क्योंकि ऐसे शुद्ध है ही नहीं। अपने को शुद्ध देखेंगे कैसे? इस पर्याय शुद्ध की यहाँ बात नहीं कह रहे हैं किन्तु तू है ना, एक द्रव्य है ना, अकेला है ना, तो तुम अपने आप अकेले अपने स्वरूप में जैसा हो उतना मात्र समझ में आ जाय, यही है शुद्ध आत्मा का देखना। जैसे खिचड़ी बनी तो खिचड़ी में न दाल का शुद्ध स्वाद रहा, न चावल का शुद्ध स्वाद रहा। दाल अलग बनाया, चावल अलग बनाया तो दोनोंका अलग-अलग ठीक-ठीक स्वाद है। खिचड़ी में तो चावल और दाल दोनोंका स्वाद खिचड़ी गया। दाल मात्र के स्वाद में और खिचड़ी के स्वाद में प्रहृत्या अन्तर है, खिचड़ी में दाल और चावल दोनोंका शुद्ध स्वाद नहीं है। न रहो शुद्ध, फिर भी कोई अपनी ज्ञानदृष्टि से समझना चाहे तो उसमें समझ तो सकता है कि चावल यह है और दाल यह है, और स्वाद दोनोंका लिया हो तो भी ज्ञान से दोनोंका न्यारा-न्यारा स्वाद जान सकते हैं।

इसी प्रकार यद्यपि हम यहां शुद्ध नहीं हैं, आशुद्ध हैं, मिले हुए हैं, देह न्यारा है, आत्मा न्यारा है ऐसी स्थितिमें आल्मा स्थित नहीं है। न खालिस देह है और न खालिस जीव है। देहमें जीव बंधे हुआ है, इतने पर भी हम अपने ज्ञानसे ऐसा तो जान सकते हैं कि जब जीव है एक सत् तो यह अपने स्वरूपसे कुछ और है, जो केवल अपना स्वरूपमात्र रखता है ऐसे अपने स्वरूपमात्रकी हृषिमें देखेंगे तो इस आत्माको शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो देहमें बस कर भी मैंने खालिस केवल अपने आत्मादेवको न देख पाया, इसलिए है स्वामी ! मैं अब तक भ्रमण कर रहा हूँ।

इस आत्माका नाम देव है। देव क्या है? जो आराधनाक योग्य हो, जो केवल ज्ञानादिक अनन्तगुणोंका आधार हो, ऐसा देव परम आराध्य जो शुद्ध आत्मा है उस आत्माको मैंने न जाना। जो आत्मा अनन्त है अर्थात् अनन्त पदार्थोंके जाननेकी इसमें शक्ति है इसलिए यह अनन्त कहलाया। और यह ज्ञानानन्दमय आत्मतत्त्व तीन कालमें भी कभी नष्ट न होगा इसलिए यह अनन्त है। जैसे विज्ञान का नियम है कि जो चीज है वह किसी ही रूप बदल जाय पर नष्ट न होती। हवाका पानी हो जाय, पानीका हवा हो जाय, पर भूलसे कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा यह अविनाशी आत्मा है, इस आत्माको मैंने न जाना इसलिए प्रभो ! मैं आज तक रुलता रहा।

प्रभाकरभट्ट निवेदन कर रहे हैं कि देहमें रहते हुए भी इस आत्मतत्त्वको मैंने नहीं पहिचाना। समतारससे भरपूर जो अपना निर्विकल्प समाधिभाव है उसमें मन नहीं धरा और अपने आत्माको नहीं पहिचाना इसी कारण मैं नष्ट हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां अपना पश्चाताप प्रकट करते हुए प्रभाकरभट्ट बोल रहे हैं—इतने काल मैंने परमात्माके उपरेशको न पाकर यों ही व्यर्थ सोया। इस तरह परमात्माके जाननेके उपायको बताते हुए अब बतलाते हैं कि परम शांति परिणामसे सहित यदि समस्त संगका परित्याग किया जाय तो संसारका उच्छ्रेद होता है।

संयत्तवि संग ण मितिलया णवि किउ उपसमंभाउ ।

सिवपयमगुवि मुणिउ णवि जहिं जोइयवि अणुराउ ॥ १६६ ॥

घोरण चिणणउ तवचरणु जं णियबोहैं लाउ ।

पुण्णुवि पाउवि दड्डु णवि किसु छिउजइ संसारु ॥ १६७ ॥

समस्त परियह भी नहीं छोड़े, उपरामभाव भी नहीं किया, और शिवमार्ग भी नहीं समझा जिसमें कि योगीजनोंका बड़ा प्रेम रहता है, घोर तपस्या भी नहीं किया, जो कि आत्मज्ञानसे शोभायमान् है, पुण्य पाप

इनको भी बंद नहीं किया, किर बतलाओ संसारकै से छूट सकता है ? परिप्रह भी नहीं छोड़ा, शांति परिणाम भी नहीं किया, और मोक्षका क्या स्वरूप है, उसके पानेका क्या उपाय है ? यह भी नहीं जाना, कभी कर्मोंको भरम नहीं किया, फिर बतलाओ कि कैसे यह संसार छूट सकता है ?

परिप्रह आम्ब्यंतरतो १४ तरहके हैं, भिद्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य आदिक ६ नौ क्षण्य। इस तरह १४ प्रकारके भीतर परिणाम वाले परिप्रद हैं और बाह्य परिप्रह १० प्रकारके हैं—मकान, खेत, धन धान्य, नौकर, कपड़े, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बस्त्र बर्तन आदि। ये २४ प्रकारके हैं, इनका त्याग नहीं किया, समतापरिणाम नहीं किया, जीवनमें सुख माना, मरणमें दुःख माना, कोई लाभ मिल गया तो हृष्ट माना, कोई हानि हुई तो दुःख माना। तो सारे तो ऐव करें और चाहें कि संसार कट जाय तो कैसे करें ?

भैया ! शिव जो परमकल्याणरूप है, अविनाशी है, निर्बाण है, ऐसे निज पदको जाना ही नहीं। पाये किसे ? कैसा है यह मोक्षका मार्ग ? स्वाधीन है। कहीं बाहर कुछ यत्न नहीं करना है, किन्तु अपने आपका जो स्व-प है उसका अद्वान करना, उसका ह्यान करना, उसकी ओर ही लगना, ऐसा खुद अपने आपमें पुरुषार्थ करना है, ऐसा यह स्वाधीन मार्ग है जहाँ मोक्षमार्गमें लगने वाले योगी पुरुष वड़ी प्रीति करते हैं। योगियोंकी प्रीतिका साधन मात्र जो आत्मतत्त्व है उसका अबलम्बनरूप वह मोक्षमार्ग भी न जाना और न परिषद्वका विजय पाया, न उपर्याग सद सके, न तपश्चर्या की, फिर उसके निर्बाणकी कल्पना भी क्या की जाये ?

तपश्चर्या अपने ह्यानके कारण सारभूत है। वास्तविक तपस्या तो शुद्ध ह्यान करके अपने आपमें लीन होना है। सो जहाँ ये सब काम चलते हीं और व हरी तपस्याएँ भी होती हीं ऐसा तपश्चरण भी नहीं किया और न पुण्य पाप की बेड़ी काटी। पुण्य पाप की बेड़ीकी समझ दी है जैसे कि चाहे गोदेकी बेड़ी हो, चाहे सोनेकी बेड़ी हो, दोनों ही तरहकी बेड़ी बन्धन करनेमें एक समान हैं। इसी प्रकार पुण्यका उदय हो तो उसमें भी परपदार्थों की ओर दृष्टि हो और पापका उदय हो तो उसमें भी परकी ओर दृष्टि हो, तो जहाँ परकी ओर दृष्टि है वहाँ ही बन्धन है। सो पुण्य पापके बन्धनको बराबर बनाये रह आये हैं। फिर बतलाओ कि संसार कैसे छिद्रे ? न ध्यान किया, न शुद्ध आत्मतत्त्वको अनुभव किया, फिर संसार कैसे कट सकता है ?

भैया ! असली बात तो यह है कि इस जीवने संसारमें अनन्त

भव पाये, वब यह मनुष्य भव इसे मानों मुफत ही मिला है। तो इससे राग हो-इस तरह से तो कुछ लाभ न मिल सके गा। मनुष्य भव पानेका लाभ यह है कि अन्तरमें किसी पदार्थकी इच्छा न रहे। स्वयं जैसे हैं उसीमें रहें, यही संसारके घटनेका उपाय है। यदि हम ऐसा न कर सके तो किर संसार कैसे कट सकता है? तो जानकार कर्तव्य यह है कि अपना जो शुद्ध आत्मद्रव्य है, केवल त्वालिस, स्वयं अपने आप जिस स्वरूपमें है उस स्वरूप की अपनेको भावना करनो चाहिए। अब हम यह बतला कर जो कि उत्कृष्ट धर्म है उसके कथनके बाद दान करना, पूजा करना, पंचमरमेष्ठी की बन्दना करना आदिक रूप जो परम्परासे मुक्तिका कारण है, ऐसे आवक धर्मका कथन रहते हैं।

दाणुण दिरणउ मुणिवरहैं णवि पुजिउ जिणणाहु ।

पंच ण वदिय परमगुरु छिसु होसह सिवलाहु ॥ १६८ ॥

कहते हैं कि इस जीवने न दान दिया मुनिश्वरोंको और न जिनेन्द्र देवको पूजा और न पंचपरमगुरुओंकी बन्दना की तो शिवका लाभ कैसे हो सकता है? करुणाएँकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? आवकधर्मका मुख्य कर्तव्य दान करना, पूजा करना, बन्दना करना आदि है। कोई हनसे रहित है, दान, पूजा, बन्दनासे दूर रहे तो और क्या करेगा या धन जोड़ेगा या विषयोंमें रमेगा। उसे कल्याणका मार्ग तो नहीं मिल सकता है। कल्याण करने वाले जो युरुष हैं उनकी संगति करें तो कल्याणका मार्ग मिल सकता है। उनकी संगतिसे दूर हैं तो उससे शिवलाभ नहीं हो सकता है।

दान चार प्रकारके हैं - आहारदान, अभयदान, औषधिदान और शास्त्रदान। जो मोक्षमार्गीं जीव हैं उन्हें विविपूर्वक भोजन कराना, सो आहारदान है। मात्र खुद तो सभी खाते रहते हैं पर ऐसे लोग धन्य हैं जो मुनिजनोंको खिला करके खानेका भाव व यत्न रखते हैं। वही आहार दान है। अभयदानमें उन मुनिजनोंकी ऐसा सेवा हो, ऐसी विनय वृत्ति हो, ऐसा दूसरोंके संकट मेटनेका परिणाम बने कि जिससे उन मुनिजनोंका व धर्मी जनोंका भय दूर हो, इसे कहते हैं अभयदान। औषधिदानमें उन मुनिजनोंको अनुकूल औषधि देना, यही औषधिदान है और शास्त्रदानमें दूसरोंको पढ़ाना, शास्त्र देना, ज्ञानप्रभावनाका कार्य दरना, ये सब शास्त्रदान हैं। तो ये चार दान मक्किपूर्वक आवकों को देने के हैं, जो कि निश्चय और व्यवहारत्त्वायक साधक हैं।

तो जिन्होंने उन्हें पूजा नहीं, किन्हें? जिनेन्द्रदेवको, जिनको बड़े-बड़े देवेन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र पूजते हैं, केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंसे

जो परिपूर्ण हैं, जो उच्च पद पर विराजमान हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेवको हमने न पूजा, और न पंच परमगुरु अरहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु इनकी कभी बन्दना की, तो बतलाओ कि कल्याणका उपाय कहांसे प्राप्त हो ? परमगुरुवाँ में दो तो देव हैं और तीन गुरु हैं । देव और गुरु सबको परमगुरु बोलते हैं । क्योंकि ये सब परमपदमें स्थित हैं । भगवान अरहंत और सिद्ध तीन लोक के अधिष्ठियोंसे बंदनीय हैं ।

प्रश्न-यहां कहा गया है कि तीन लोकके जीव जिनकी बन्दना करते हैं । तीन लोकके सारे जीव कैसे बन्दना कर सकते हैं ? सारे जीव तो वहां पहुंचते ही नहीं, पर उसका अर्थ यह है कि ऊर्ध्वलोकके जो इन्द्र हैं उन्होंने बन्दना कर लिया तो ऊर्ध्वलोकके सभी जीव उसमें आ गए । मध्यलोकमें मनुष्यके स्वामी जो चक्रवर्ती हैं और तिर्यन्चके स्वामी जो सिंह हैं, जब वे नमस्कार करने आ गए तो सबका नमस्कार समझना चाहिए । तो जो तीन लोकके अधीशोंके द्वारा बंदनीय हैं वे हैं अरहंत सिद्ध और तीन लोकके ईशा इन्द्रोंके द्वारा, योगियोंके द्वारा बंदनीय मोक्षपदकी जो आराधनामें लगे ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं इनकी यथायोग्य कभी बन्दना नहीं किया तो मोक्षसुखका लाभ कैसे हो सकता है ?

मैया ! मोक्षका सुख चाहिए तो जो मोक्षके सुखमें लगे हैं, जिन्होंने मोक्ष सुख पा लिया है ऐसे देव और गुरुवाँ के प्रति अपना विशेष मुकाबला हो, उनकी संगति हो तो मोक्षसुख प्राप्त हो सकता है । पर मोक्षके आराधकोंकी न संगति की, न उनका बन्दन, पूजन किया, न उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनसे अत्यन्त दूर रहे तो उनसे दूर रहने पर मोही जीवोंमें, परिकरोंमें रहकर तो यह जीव खोटे ही कर्म करेगा—ऐसा जानकर यहां यह शिक्षा लेना चाहिए कि दान पूज बन्दन आदिक जो आषकोंके कर्तव्य हैं उनसे न चूकना चाहिए । ये सब कर्तव्य उपासकोंके ध्यान सम्बन्धी शास्त्रोंमें कहे गये हैं, सो इन कर्तव्योंको योग विधिसे करते रहना चाहिए । अब जैसे शरीरकी रखवालीके लिए आहारकी आवश्यकता है, मोजन न करें तो शरीर शिथिल हो जाय, इसी तरह आत्माकी शांतिके लिए ज्ञान ध्यानकी आवश्यकता है, मगर ज्ञानध्यानकी बातमें नहीं लगे, मोक्षमार्गियोंकी संगति सेवामें नहीं लगे तो मुझे आत्मशांतिकी बात नहीं प्राप्त हो सकती है ।

सब विधि जानकर इन्हीं परमगुरुवाँके बन्दनमें, पूजनमें, नमस्कार में संगतिमें, सेवामें, ज्ञानध्यानमें जो पुरुष लगता है उसे शांतिका मार्ग मिलता है । अब ये जो षट् आवश्यक कार्य श्रावकके माने गए हैं उनमें

अध्यात्मसाधना भरी है। जैसे देवपूजा करते हैं तो देवपूजा करते हुए में यह ध्यान रहता है कि ये प्रभु अध्यात्मकी मूर्ति हैं, इनका जैसा सहज स्वरूप है तै पूर्ण विकास हो गया है। तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं भी इस शुद्ध चैतन्यस्वरूप भान्न रहूँ। अपनेको करने योग्य काम जगतमें केवल एक है—अपनी शुद्ध भावना रखना। शुद्ध परिणाम होनेसे सत्काल भी शांति मिलती है और आगामी कालके लिए भी शांतिका उपाय रहता है और परिणाम निर्मल न हो तो कैसी भी स्थिति आए, जब भी पाप हो, बहुत सम्पत्ति भी जुड़ी है तो भी शांति नहीं रहती है और परिणाम निर्मल हो तो कैसी भी दीनताकी स्थिति आए तो भी शांति मिलती है।

भैया ! शांतिका सम्बन्ध है धीतरागताके साथ, न कि बाह्य बस्तुके साथ। परिणामोंमें धीतरागता हो तो शांति मिले और नहीं है धीतरागता तो बाह्य बस्तुओंसे मुक्ते शांति न मिल आयेगी। जो पुरुष राग जितना कम करता है, द्विष कम करता है वह उतना ही सुखी है और जिसके रागद्वेष नितकृत नहीं है, वह पूर्ण सुखी है। यह संभाल बनाना भी बहुत बड़ा काम है कि अपनी गती ध्यानमें रह जाय कि मैं रागद्वेष परिणाम करता हूँ इसी लिये हुँस होता हूँ।

इस मनुष्यभवको पाकर मेरे करने योग्य काम केवल एक ही है—मोह रागद्वेष इनसे दूर हों, दूसरा हसारा कोई प्राम नहीं है। क्या होता है बाह्यपदार्थोंसे ? यदि बाह्यपदार्थोंसे शांति मिलती हो तो बतलाओ। जो बड़े-बड़े करोड़पति हैं वे भी दुःखी हैं। चीजें तो दो ही चाहिये हैं यहां भूग्र मिटना चाहिए और शांति मिलनी चाहिए। सो बड़े करोड़पति होकर भी लाभ कौनसा मिलता है ? भूख जैसे दूसरोंकी मिटती है वैसे ही उन करोड़पतियोंकी मिटती है। बल्कि शांति उन्हें ज्यादा मिलती है जो कम परिप्रह बाले हैं। अब रही इज्जतकी बात। किनमें अपनी इज्जत चाहते हो ? किनमें आप अपनी इज्जत चाहते हैं वे स्वयं मर मिटने वाले हैं। वे सदा इज्जत करते रहेंगे क्या ? तो इज्जतकी कल्पना भी कूठी है। मगर सारा संसार मोहमें लग रहा है, सारा संसार अपनी पोजीशन बनानेमें लग रहा है।

भैया ! यहां यदि कोई घर्मकी धात करे तो सारे संसार ही निराहमें तो वह पागल है। मगर हिम्मन है ज्ञानी पुरुषकी कि सारा संसार भी कुछ कहे किर भी अपने हितकी धुनमें रहता है और जानता रहता है कि दूसरे लोग मेरी कुछ मदद न कर देंगे। सभी हास करनेको हैं। अभी आप चले जा रहे हो, थोड़ा पैर फिसल जाय, गिर जाओ तो आपका कैसा ही हितू

हो, उसे हँसी ही आ जायेगी, चाहे वह बादमें दौड़कर उठाये, सेधा करे, पर हँसी आ जायेगी और जो आपको हित नहीं है वह हँसनेका आनन्द देर तक लेता रहता है। तो हुनिथांक लोग तो हम बिगड़ते हों, गिरते हों तो हँसी करने वाले हों, पर हमारा सुधार करने वाले नहीं हैं। मेरा सुधार तो मेरा निर्मल परिणाम ही कर सकता है, ऐसा ज्ञानी जीवको ढूँढ़ विश्वास है।

जब तक दूसरोंका स्वार्थ सघता है तब तक तो बहुत-बहुत लोग मानते हैं और दूसरोंका स्वार्थ न सधे तब कोई मानने वाला नहीं होता है। यहीं देख लो। कोई आदमी आफिसर है या मिनिस्टर वर्गहै तब कितनी मान्यता है और जब रिटायर हो जाय, नौकरी न रहे तो किर उसे कौन पूछने आता है? मनुष्य जब धन कमाता है, बड़ी आय करता है तब बहुतसे पूछने आते हैं और कभी उदय पापका आ जाय, धर्म ही खत्म हो जाय तो मनुष्य तो वही है। अब मित्र कहां गए? कोई पूछने वाला नहीं है। पीठ पीछे सभी हँसी करने वाले हों। तो जो ऐसे मतिन हैं, मोही हैं, अज्ञानी हैं, खुपका जिसे पता नहीं है ऐसे पुरुषोंमें हम अपना क्या पोजीशन रखें, क्या कहलावाना है इन लोगोंसे। कह दिया तो क्या मिल गया। अच्छल तो जैसा चाहो वैसा सब कह ही नहीं सकते। सबका भी अपना-अपना मन है। किसी पर कोई जबरवस्ती नहीं है। सब अपने अपने मनके अनुसार कार्य करेंगे और कदाचित् मान लो कि इन लोगोंका एक स्वरमें खूब बन्धवाद दे दें तो उससे आपको क्या भिल गया?

भैया! जिस मनुष्यमें वैराग्य हो, त्यागमार्ग हो वह पूज्य है। शांति और संतोष तो इस स्थागमार्गसे ही प्राप्त हो सकता है, पर ही तो स्थाग अंतरंगमें। अंतरंगका त्याग इस ज्ञानमें है कि यह ज्ञान प्रौढ़ बना रहे कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न-भिन्न है, किसी द्रव्यसे किसी अन्य द्रव्यका कुछ सम्बन्ध नहीं है। केवल अपने आपमें उपना परिण मन कर रहे हैं। किर मेरा क्या है, दूसरेके परिणमज्ञसे मेरा हित क्या? ऐसा ज्ञान जिसका आगाहक रहता है वह ही पुरुष कानन्द पा सकता है। हम कितना ही अपने मुँहसे मिथामिदृढ़ बने रहे, हम वही चतुर हैं, जड़ी बुद्धिमानीका काम करते हैं, पर जब तक विकल्प है, जब तक हम दूधर उधरका स्थाल हैं, जब तक परवस्तुकी संभालका यत्न है तब तक हम चतुर नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं। हमारी गलती पर न हँसने वाले और उस गलतीका समर्थन करने वाले यहां सभी मिलेंगे पर हमारी गलती पर हँसने वाले वही मिलेंगे जिनको हँसनेका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् ज्ञानी पुरुष।

भैया ! मोही, मोहीका सत्कार करते ही हैं । यहां पर ऐसे ही लोग मिलेंगे कि उसने उसकी प्रशंसा कर दी, उसने उसकी प्रशंसा कर दी । यद्यपि प्रशंसाके लायक वे एक भी नहीं हैं पर परस्परमें एक दूसरेकी प्रशंसा कर देते हैं । उनमें क्षोभ भरे हैं, विकल्प भरे हैं, विकार भरे हैं । इच्छा बहुत सी बनाए हैं । ऐसे लोगोंसे हम क्या अपनी प्रशंसा चाहें, ऐसी समझ जो बनाए रहता है, समझो वह ठीक मार्गपर है । तो ये श्रावकोंके कर्तव्य बनाए हैं । इन छहाँ कर्तव्योंमें से श्रावकोंको भी एक भी कर्तव्य न छोड़ना चाहिए । कुछ न कुछ समय हन सभी कर्तव्योंके करनेमें देना चाहिए । देवपूजा, भगवानकी भक्ति, भगवानका ख्यात, इनको यदि छोड़ दिया तो संतोष कहां मिलेगा ? गुरुपास्ति, गुरुबोंके सत्संगमें आना, बैठना, इनको छोड़ दिया तो ज्ञानकी बातें कहांसे प्राप्त होंगी ? यदि गुरुजन नहीं मिलते हैं, तो अपने गृहस्थोंमें भी ऐसे बहुतसे लोग होते हैं जो स्वभावसे विरक्त होते हैं, उनकी सत्संगति करो । मोहियोंका संग छोड़ो । यदि गुरुबोंकी उपासना करना छोड़ दिया अथवा सत्संगति छोड़ दिया तो फिर भला होनेका ठिकाना कहां मिलेगा ?

स्वाध्याय जिसमें शांतिकी, प्रवृत्तिकी और उत्साह भरी बाणी लिखी है उसे अगर छोड़ दें तो फिर कहाँ शांति पायेंगे । संथम अपनी प्रतीतिमें रंच भी संयम न रखें, हिंसा, मूठ, चोरी आदि पाप ही किए जा रहे हैं तो उससे शांति कहां मिलती है ? यप, तप न करके इच्छाके वशमें आकर, इच्छा-इच्छामें ही वह गए तो फिर मुझे संतोष कहां मिलेगा ? और दान जो कुछ कमाया वह सब अपने परिजनके लिए है, जिनमें मोह है उनके ही लिये हैं तो ऐसी कमायी किस काम की है ? उससे ममता बढ़ेगी और मरते समय बढ़ा संकल्प विकल्प होगा । जो पहिले से ही घन वैमवसे जुदा समझता है, जितना परिवारजनोंपर खर्च करता उतना ही अन्य लोगों पर खर्च करता, तो चूँकि वैमवसे उसने आसकि नहीं रखी इसलिए मरण समयमें उसे शंकलेश नहीं होता है । यों श्रावकोंको ६ कर्तव्य प्रतिदिन पालन करनेके हैं । तो श्रावकोंको ये ६ कर्तव्य प्रतिदिन करना ही चाहिए । अब यह बताते हैं कि निश्चयसे चितारहित व्यान ही मुक्तिका कारण है ।

अद्यमुलीय-लोकणिहिं जोव कि मंपियएहिं ।

एमुह लव्यह परम गह यिचिंचति ठियएहिं ॥ १६६ ॥

कहते हैं कि आधे उघड़े हुए नेत्रोंसे अथवा बन्द किए हुए नेत्रोंसे क्या व्यानकी सिद्धि होती है ? अर्थात् नहीं होती है । जो चितारहित पुरुष

हैं, अपने स्वरूपकी ओर लगे हैं उनको ही इस तरहके मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। चिंता है और ध्यान लगावे, आंखें बन्द करे, आंखें सोले रहे तो क्या उससे सिद्धि हो जाती है? नहीं होती। भीतरमें चिंता न हो, शल्य न हो और सीधा अपने आत्मस्वरूपपर दृष्टि दे तो उसने सिद्धि होती है। यदि आत्मदर्शन है, आत्माकी रुचि है, आत्माकी ओर ही धून है तो आंखें उघाड़ना या बन्द करना इत्यादि कुछ यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयमेव सिद्धि हो जाती है। आंखें उघाड़ने, बन्द करनेसे सिद्धि नहीं होती है। चिंतना संयोग है उतना ही कलेशका कारण है, बन्धका कारण हैं, तो जब चिंता न हो, ठिसी वस्तुका आशय न हो तो किसी भावकी अपेक्षा नहीं रहती। जो होनेको होता है वह हो जाता है। इसे ही मोक्षगति या परमगति कहते हैं।

यह मोक्ष बड़े-बड़े उत्कृष्ट केवल ज्ञान आदि गुणों करके सहित है इसीलिए इसका नाम परमगति है। इस परमगतिको कौन प्राप्त कर सकता है? जो चिंतारहित पुरुष हो वह ही इस परमगतिको प्राप्त कर सकता है। चिंतारहित पुरुष ही निजसुख आत्मामें स्थिर हो सकता है। अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होना कब बन सकता है जब किन्हीं बाल्य पदार्थविषयक चिंता न हो। जैसा कि इसका अपने ही अस्तित्वके कारण स्वरूप है। ज्ञानमात्र, चित्तप्रकाशमात्र। त्रैकालिक अखण्ड चैतन्यरूप, इस रूप ही अपनेको देखना है। यदि कोई इस रूपमें अपनेको देखे तो उसके बाहरी चिंता और मोह कहाँ भलकेगा और जब बाहरी चिंता और मोह परिणाम नहीं रहता है तब यह जीव उपयोगको अपने स्वरूपमें प्रवेश करता है। मोक्षका कारण इस शुद्ध आत्मतत्त्वकी उन्मुखता है। तो यह निश्चित पुरुष ही कर सकता है। यों तो बच्चेसे भी कहो कि कि जाप दिस्त्रावो कैसे करोगे, तो वह पालथी मारकर आंखें बंद करवं हाथसे जपने लगता है। तो ऐसा बाह्य यत्न करनेसे कोई चीज मिलती है क्या? उन सबके अन्तर्ज्ञानका प्रसाद है जिन-जिनके ध्यानकी सिद्धि होती है। उसे अब इस दोहेमें कहते हैं।

जोइय मिहिलवि चिंत जइ तो तुद्दृं संसार।

चिंतासच्च जिणवरुवि लहू ण हंसाचारु ॥१७०॥

हे योगी! यदि तू चिंताबोंको छोड़ेगा तो इस संसारके परिश्रम तु से छूट जायेगा, क्योंकि चिंताबोंसे आशक हुए जो पुरुष हैं वे बड़े जिन-वर भी हों अर्थात् तीर्थकर भी जब तक गृहस्थावस्थामें रहते हैं ऐसे तीर्थकर देव भी इस परमात्माके आचरणको प्राप्त नहीं कर सकते हैं अर्थात् हंसा-

चारको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पश्चियोंमें लोककाव्यमें हंसका आचरणशुल्क है, गम्भीर है, मायाधार नहीं है, ऐसा दरल गम्भीर आचरण सुकृत है।

हंसकी हज्जत बगलाने बढ़ायो क्योंकि बगला भी हंस जैसा होता है, किन्तु बगला होता है चालाक, पापी। उस बगलेने हंसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। सज्जनोंकी प्रतिष्ठा दुर्जनोंकी बजहसे बढ़ती है। किसी गांधमें सब सज्जन ही सज्जन हों, कोई दुर्जन न हो तो कौन किसको कहेगा कि दुम दुर्जे सज्जन हो और जिस गांधमें दुर्जन भी हैं और सज्जन भी हैं तो उसमें दुर्जनोंके कारण उन सज्जनोंकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो हंस जो है वह भीतर सरल, बाहर सरल है, जिसे कहते हैं कि भीतर भी हफेद बाहर भी सफेद, कालापन कहीं नहीं है, और हंस गम्भीर है, जिसको सुनते हैं कि मोती उसका भोजन है, हंस मोती चुगता है, जिसको अन्य पदार्थोंकी आसक्ति नहीं है ऐसा वह गम्भीर है कि कोई बात गुजरने पर मोती भी छोड़ दे। तो जैसे हंस अंतरमें उच्चवल्ल, बाहरमें उच्चवल्ल है इसी प्रकार यह आत्मा अन्दर और बाहर से उच्चवल्ल है। ऐसा आत्माको वे पुरुष नहीं पा सकते हैं जो चिंता करते हैं।

चिंता एक आत्माका अशुद्ध परिणाम है, विकारी भाव है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, चिंतारहित ज्ञानमात्र केवल ज्ञाता द्रष्टा रहे ऐसा उसका स्वभाव है। उसे परमात्म धैर्यार्थसे विलक्षण यह चिंता है। सो यह चिंता थिए हैं तो समझ लो कि यह संसार न टूट सकेगा। संसारका अर्थ है भ्रमण, संसरण, धरिभ्रमण। जौवका परिभ्रमण कहां हो रहा है? तो व्यवहारसे तो इस लोकमें हो रहा है। इस बाधा स्थानमें हो रहा है, और निश्चयसे आत्माका कहां परिभ्रमण हो रहा है? अपने आपकी कल्पना में। कैसी कल्पना हमकी तेज दौड़ती है कि हजारों मील पाव सेवे एखमें ही पहुंच जाय। पाव सेवेएड भी बहुत है, ख्याल किया और पहुंच गया। न हमके पंख हैं, न पैर हैं, पंख और पैर होते तो धीरे-धीरे जाता, पर न पंख हैं न पैर। जिस काल विचारा उसी काल पहुंच जाता है। तो चिंता-सक्ति पुरुष इस संसारसे छूट नहीं सकता।

आत्माका स्वरूप तो संसाररहित है, परिभ्रमणरहित है, इसका कार्य तो मात्र जानन है, मगर क्या दशा हो गयी कि धैर्यनमें पड़ा है। यह अपने खुदका ही अपराध है। अब बतलावों परवरहुसे मोह न करो तो क्यों जीव मिट जायेगा, पर नहीं मान सकते। करते तो हीं मोह। न मान लो, किसीको अपना न मानो तो क्या बिगड़ गया, सो बतलावों ?

किसी बाह्य वस्तुको अपनी न मानी तो क्या विजाश हो गया ? आत्मा मर गया या शरीर गुजर गया या प्राण निकल गए या कौनसा संकट आ गया ? पर यह ऐसा रह नहीं पाता है। तो जो ममत्व रखता है, जिस के अज्ञानभाव लगा है उसके संसार नहीं दृट सकता।

जब तक तीर्थकर भी ब्रह्मस्थ अवस्थामें रहे तब तक उनके शुभ-अशुभ चित्ताएँ रहीं, जब तीर्थकर लड़के थे तो क्या किसी की बात न मानते होंगे, क्या किसी को आङ्गा न देते होंगे, क्या उन्हें क्षोभ न होता होगा ? कोई न कोई बात तो उन्हें असुहा अथवा सुहा ही जाती होगी। तो चित्तामें रहने वाले तीर्थकर भी हँसाचारको नहीं प्राप्त कर सके। हँस मायने परमात्मा। हँसकी तरह जो निर्मल हो उसे कहते हैं हँस याने परमात्मा। जिनका ज्ञान निर्मल हो गया उन्हें न किसी पदार्थके सम्बन्धमें संशय है, न भ्रम है, न मोह है। ऐसा वह हँस परमात्मा है। उसका आचरण क्या है ? रागादिकरहित शुद्ध आत्माका परिणामन होना। इस वातको वे चित्तासक पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस कथनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम समर्पत चित्ताजालोंको छोड़ें।

भैया ! चित्ता तब होती है जब देखी, सुनी, या अनुभवी चीजमें आकांक्षा हो। इच्छा होती है ना, तो देखी हुई चीजोंमें इच्छा होती है, सुनी हुई चीजोंमें इच्छा होती है और भोगी हुई चीजोंमें इच्छा होती है। वह समर्पत हृच्छा जात मिट सकता है तो इच्छारहित शुद्ध चैतन्यस्वरूप के अनुभवनसे मिट सकता है। मैं तो इन सधेसे न्यारा हूँ। जैसे बड़े कुल का कोई बड़ा पुरुष होता है तो किसी हुच्छा बातमें भी लग जाय तो भी अपने को जलवी संभाल लेता है। और, मैं ऐसे बड़े कुलका हूँ, यह मेरे करने योग्य नहीं है, ऐसा खोटा परिणाम कैसे बन गया ? वह समल जाता है। इसी प्रकार ज्ञानीजन भी कढ़ाचित् कर्मदयसे अशुभकार्योंमें भी लगें तो भी जल्दी संभल जाते हैं। और मेरा शुद्धस्वरूप कंबल चैतन्यमय है, मेरा काम तो मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहनेका है ! इनमें कहाँ रम रहा हूँ ? वह अपनेको बाह्य विषयोंसे इटाकर अपने आपमें सुगमतशा ले जाता है। तो ये कोई आकांक्षाएँ नहीं होतीं।

सो भैया ! चिनारहित जो शुद्ध आत्मा है उसमें सर्व तरपरताके साथ उसकी भावना करनी चाहिए। जैसा अपनेको बार-बार भावेगा उसके उसके अनुकूल उसका काम होगा। जैसे कोई नाटकमें पार्ट लेने किसीका और वहाँ ऐसा ही रुद्धात् वह एकदम बना से कि मैं तो असुक ही हूँ, तो जैसा उसे जोश चाहिए, जो यत्न चाहिए वह जोश और यत्न उसमें आ

जाता है। अपने आपको कोई यों ही देखे कि मैं कर्मोंसे बहुत बंधा हूं, बड़ा फँसा हूं, सारे दुःख सारे संकट छाये हुए हैं, मैं बहुत विपत्तियोंकी स्थितिमें हूं, तो विपत्तियां उसके सामने हैं हीं। और कुछ भी हालत हो, जब यह निरखे कि मैं तो वहीं का वहीं हूं—आत्मस्वरूप, परमात्माकी तरह, सबसे न्यारा, अंतरंगमें एक चैतन्यमय मात्र तत्त्व हूं, हमारा किसी से भी सम्बन्ध नहीं है ऐसी हृष्टि अपने आपकी आए। क्या किसी अन्यसे इसका सम्बन्ध है ? जैसे सब जीव हैं तैसे ही यह हंस भी है। सर्व एक समान स्वरूप थाले हैं। जहां ऐसी हृष्टि जगायी कि संकट समाप्त हो जाते हैं।

जोश्य दुम्मङ्क ककण तुहैं भवकारणि ववहारि ।

वंमु पर्वंच हिं जो रहउ सो जीणवि मणु मारि ॥१७१॥

कहते हैं कि योगी ! तेरो क्या खोदी बुद्धि हो रही है जो तू संसार के कारणभूत व्यवहारमें तो रहता है और अपना जो निश्चय स्वरूप है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। सर्वप्रपञ्चोंसे रहित जो शुद्ध आत्मा है उसको जान और विकल्पहीनी मनको मार। ब्रह्म और प्रपञ्च। ब्रह्म तो हुआ चंतन्यस्वरूप और प्रपञ्च हुआ यह मायास्वरूप। बाह्य प्रपञ्च और अंतरङ्ग प्रपञ्च ये सब कीड़े मक्कीड़े, पुरुष, स्त्री, बालक, पक्षी आदि हुए और अंतरङ्ग प्रपञ्च यिथात्व, रागद्वेष, कषाय, इच्छा, आदि हुए। इन दोनों प्रकारके प्रपञ्चोंसे रहित वह शुद्ध ब्रह्म है, चैतन्यस्वरूप है।

मैया ! शब्द वे ही हैं जिन्हें वेदान्ती भी बोलते हैं उन्हीं शब्दोंको यहां भी बोला गया, पर जिनकी जैसी हृष्टि होती है उस दृष्टिसे वैसा ही वे अर्थ लगाते हैं। कोई यों अर्थ लगाता कि ब्रह्म एक है और ये नाना प्रपञ्च हैं, ये माया हैं, ब्रह्म तो निर्विकार है और फिर सबकी जड़ भी है। इसे घटा लो अपने आपमें कि जो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, खाली जीवका असाधारण स्वभाव है वह स्वभाव भी सर्वत्र एक है। स्वभाव दो नहीं होते हैं, और वह स्वभाव अपरिणामी है, अविकारी है, स्वयं स्वभावमें विकार नहीं पड़ा है, और ये जो नाना प्रपञ्च हैं, ये मायारूप हैं, अनेक पदार्थोंके संयोगरूप हैं। बात एक घट गयी, पर जिसकी जैसी हृष्टि है वह उस ही प्रकारका इसमें अर्थ लगायेगा।

स्वरूप एक है, जीव नाना है, यह भी ठीक है पर वह स्वरूप, ब्रह्म क्या परमार्थतः अन्य जीवोंसे अन्य जीवोंसे अत्यन्त पृथक् वस्तु है, तो ऐसा जो आत्माका ब्रह्मस्वरूप है उस ब्रह्मस्वरूपमें बुद्धि करूँ और अपने त्रिकरूपजालोंका हनन करूँ। न लगाऊँगा चित्त यदि एक अपने चैतन्य-

स्वभावमें तो विकल्प होगा ही। और, विकल्प यही है कि अपने स्वभाव का बहां अनुभवन नहीं है। सो हे योगी ! तू व्यवहारमें मत लग। अर्थात् संसारके कारणभूत् जो ये समस्त प्रपञ्च हैं उन प्रपञ्चोंको तू सत्य मत मान। ज्ञान है ना, तो उसकी दृष्टि सारे जीवोंमें परमार्थके निरसनेकी होती है। परमार्थसे सब जीव एक वैतन्यस्वभावमात्र हैं, और यह जो बखेड़ा है यह किसी एकका काम नहीं है। अनेक द्रव्योंको मिलाकर यह बखेड़ा हुआ है। यदि पदार्थोंके अद्वैत स्वभावकी दृष्टि हो तो यह बखेड़ा फिर नहीं दिखता है। इन प्रपञ्चोंसे अपनेको हटाओ और विकल्पजाल-रूपी मनको मारो, यह शुद्ध आत्मद्रव्य शुभ अशुभ मन, वचन, कायके व्यापारसे रद्दित है।

मैया ! यह ही तो व्यवहार है, मनकी प्रवृत्ति, वचनकी प्रवृत्ति है और कायकी प्रवृत्ति। इसीको ही व्यवहार कहते हैं, पर आत्मामें तो केषल ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति है, प्रवृत्ति नहीं है। तब फिर क्या करना है कि ब्रह्मको जानकर मनको मारना चाहिए। ब्रह्म अर्थात् आत्माके ही समान जो एक स्वरूप है उस स्वरूपको जानो और विकल्पोंका परिदार करो। जैसे सानेके लोभी पुरुषको जब तक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है तब तक वह साधारण भोजन का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अशक्त है। उसे तो चाहिए मौजका साधन। यदि उसे बड़े मौजका साधन मिले तो वह छोटे मौजको दूर कर सकता है। इसी तरह इस जीवको यदि शाश्वत परमार्थ आनन्दका निधान निज ज्ञायक स्वभाव दृष्ट हो जाय और उस परम आनन्दका अनुभव हो तो वह विषय विषरसका त्याग कर सकता है। इसे तो आनन्द चाहिए।

यदि महान् वास्तविक स्वाधीन परमार्थ आनन्द मिलता है तो पराधीन मायारूप विनाशीक परमार्थ इस विषय सुखका कौन आदर करेगा ? सो अपने शुद्ध आत्माको जानो। कैसे जानो ? धीतराग स्वसम्बोद्धन ज्ञानकी परिणति बनाकर जानो। जैसे कोई अच्छी मिठाई बनाए, मानो छोटी घूँघीके लड्डू बनाए, और दूसरेसे वह कहे कि इसे जरा देखना। तो वह उसे ले लेगा और मुँहमें डालकर स्वा जायगा। कोई कहे कि वाह, हमने तो लड्डू देखने को कहा था। और तो लड्डूका देखना इसी तरह होता है। उसका भली प्रकार ज्ञान खानेसे ही होगा। भोज्यवस्तुका सही ज्ञान आंखोंसे देखनेसे न होगा, वगैर चाले बिना न होगा। तो जैसे भोजनके जाननेकी तरकीब चलना है, इसी तरह आत्माके जाननेकी तरकीब रससम्बोद्धन है। वचनोंसे नहीं जान सकते हैं।

अपने आपका जो शुद्धस्वरूप है चैतन्यमात्र अर्थात् कोई पदार्थ होता है तो अपना स्वरूप रखता है। तो इस आत्माका भी तो कुछ स्वरूप है ना। वही चैतन्यमात्र प्रतिभास। उस प्रतिभासमात्र उस एक जाननका उपयोग बन जाय और दूसरा विकल्प न करें, वही मात्र जाननमें रह जाय इसीको कहते हैं स्वसम्बोदन और फिर यह प्रश्न हुआ कि स्वसम्बोदन क्या चीज़ है? तो अब तो इसमें बताया जा रहा है कि आत्माका ज्ञान स्व-सम्बोदनसे होता है, और स्वसम्बोदनका ज्ञान स्वसम्बोदनसे होता है शब्दों द्वारा नहीं होता है। ऐसा साधन बनाएँ कि चिंता न आ सके, ममता परिणाम न बन सके और फिर अपने ज्ञानयोगको भी अपनाएँ तो उस बीचमें स्वयं स्वसम्बोदन होता है तो यह स्वानुभव होता है। प्रथत्न तो ज्ञानका है, इसके सिवाय और क्या प्रथत्न किया जाय? जिसको ज्ञानकी रुचि है उसे स्वके जाननेकी स्वयमेव ऐसी बुद्धि बनेगी कि बाह्य प्रपञ्चमें उपका उपयोग न लगेगा। ऐसा हो जाय तो अपने हितकी बात है।

भैया! ऐसी सिद्धि बनेगी तो अपने आपमें गुप्त रहकर ही बनेगी। किसीको दिखाने, बनाने या सजावट बतानेकी जरूरत नहीं है। अपने हितकी हँस्या हो तो कहीं भी हो, गुप्त ही हो, गुप्त ही होकर अपना हित हो सकता है। अपने बाह्य विकल्पोंको छोड़कर कुछ अपने ज्ञानस्वभावके जाननेके रसका अनुभव करना चाहिए। करने बैठो तो कहो न हो और घरमें या चलते फिरते या किसी जगह या आराम करते कड़ो हो जाय। जैसे स्वसम्बोदनकी उत्पत्तिका प्रथम तो मनसे सम्बन्ध है पर जब स्वसम्बोदनकी अवस्था है उस समय मन काम नहीं करता है। वेसे सभी जीवोंको स्वसम्बोदन है पर धीतराग स्वसम्बोदन अर्थात् रागद्वेष रहित जैसा स्वरूप है उस रूपमें हो यह संज्ञी जीवोंमें ही हो सकता है।

भैया! अपना किसे पता नहीं है मैं सुखी दुःखी होता हूं, ऐसी कल्पना होती है, मैं आफतमें हूं, मैंने यह किया, तो यह भी स्वसम्बोदन है, पर यह स्वसम्बोदन स्वरूपका स्वसम्बोदन नहीं है। गलत स्वसम्बोदन है, मिथ्या स्वसम्बोदन है। स्व मायने अपना, सम्बोदन मायने ज्ञान। अपना गलत ज्ञान, अपना सही ज्ञान दोनों स्वका संबोदन है, पर स्वसम्बोदनकी रूढ़ि सम्यग्ज्ञानसे है। स्वसम्बोदन ज्ञान करना यह तो सब जीवोंके लिए है। कोई अपने को रागरूपसे ज्ञान करता है, कोई अपने को शुद्धस्वरूपसे ज्ञान करता है, पर उसमें जो धीतराग विशेषण लिए हैं वह धीतराग स्व सम्बोदन है। तो उपका अर्थ यह है कि रागद्वेषरहित सुख ज्ञानमात्र जैसा आत्मस्वरूप है उपका ही ज्ञान करनेका तो नाम स्वसम्बोदन है।

मैया ! स्वसम्बेदनका घनिष्ठ परिचय स्वसम्बेदन करके ही हो सकता है। जैसे भोजनका घनिष्ठ परिचय स्वाक्षर ही हो सकता है, बातों से नहीं, आंखोंसे देखने से नहीं। इसी तरह आत्मा का स्वसम्बेदन शब्दोंसे नहीं, चर्चासे नहीं किन्तु करके काई देखे तो उसे स्वसम्बेदन ही सकता है। तो ऐसे वीतराग स्वसम्बेदन द्वारा अपने शुद्ध आत्माको जानकर क्या करें कि अनेक मानसिक विकल्पजालोंसे रहित जो निज परमात्म स्वरूप है उसमें स्थित होकर इस विकल्पजालको नष्ट करें। वस्तुस्वरूपका ध्यान किया, विचार किया, यहां तक तो मन चला, किर इसके बाद मनके ले लिया विश्राम, सो शांति हुई आत्मामें। तो यहां उत्पत्तिमें मनकी उपेक्षा है पर ज्ञाप्तिमें मनकी अपेक्षा नहीं है।

सव्वहिं रायहिं छह रसहिं यंचहिं रूपहिं जंतु ।

चिन्तु गिवारिवि भाहि तुहुं अप्या देष्ट अणंतु ॥ १७२ ॥

तू समस्त रागोंसे, ५ रसोंसे चलायमान् चित्तको रोककर अपने वीतराग परम आनन्दस्वरूपका ध्यान कर। वीतराग परमानन्द सुखके कराने वाले अविनाशी शुद्ध आत्माका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर। वीतराग शुद्ध आत्मद्रव्यसे विमुख जो समस्त शुभ अशुभ राग हैं, जो ६ प्रकार के रस हैं उनमें निरन्तर चित्त जाता है, उसको रोककर तू आत्मदेवका ध्यान कर। जो केवल ज्ञानादिक अनन्त गुणों का आधार, अनन्तसुखोंका आधार, अविनश्वर है, ऐसा जो आत्मदेव है उसका तू ध्यान कर। जगतमें कोई भी पदार्थ अपने आश्रय के योग्य नहीं है। किसका सहारा लें, किसकी शरणमें जाएँ ? प्रत्येक पदार्थ जितने हैं वे सब अपने आपमें ही अपनी किंवा करते हैं। सो सब रागोंसे अपने चित्तको रोककर एक अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको ध्यावो ।

ये पुद्गल हैं, इनमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और उनके उपयोग करनेसे कैसा यह मौहका प्रताप है कि यह अपने आपको उनमें उपयोग दे करके अपना भ्रम बनाता है। मुझे रससे मुख हो, रूप देखनेसे मुख हो, शब्द सुननेसे मुख हो, ऐसा यह अपने आपमें अपना ध्येय बनाता है। ६ प्राणके रस हैं माठा खट्टा, कढ़वा, चरफरा, कपायला—इन रसोंमें जिसकी गृह्णता होती है उससे फिर और-और तरह के कमोदूय भी होते हैं। जो धैरानी पुरुष है उसके इन रसोंमें राग नहीं रहता है। अपना ध्येय अपने शुद्ध आत्मतत्त्वमें लगाना है। देव, शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा करना एक मोक्षमार्गमें प्रवेश करने के लिए कारण है।

देव कैसा होना चाहिए जिसमें १८ प्रकारके दोष न हों—जो केवल

ज्ञानादिक अनन्त गुणोंका निवान है जिसमें तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ होते हैं। किन्तु उनके कोई ममत्व नहीं है। रूप भी ज्ञात होता है परं रूप देखनेका राग भगवानके नहीं है। रस भी ज्ञात होता है, परं रस चलनेका राग प्रभुके नहीं है। गंध स्पर्श भी चलता है किन्तु उसके रूप नहीं है। बीतगण निज शुद्ध आत्मद्रव्यसे विपरीत जो ये सर्व प्रकारके शुभ अशुभ राग हैं उन रागोंसे, रसोंसे, रूपोंसे वह रहित है। इसलिए जो उन रागोंमें अपना चित्त जाता है उस चित्तको हटाओ। ये रस ६ प्रकारके त्यागे जाते हैं, मगर ये तो त्यागनेके रस हैं, और पुद्गलमें जो रस हैं वे मीठा, कड़वा, चरफरा कषायला आदि हैं, परं कड़वा रसका त्याग उनमें नहीं बताया, क्योंकि कड़वा कोई स्वाता नहीं है। चरफराको भी नहीं बताया है, क्योंकि उसमें भी कुछ आसकि नहीं है। दूध, दही, घो, मीठा इनमें आसकि है, सो इनका त्याग बताया है। तो जिसका स्वाद इसे हट हो उस चीजका इसे त्याग कराया है। तो शुद्ध आत्मतत्त्वसे प्रतिपक्षभूत जो काना, नीला आदि रूप हैं उनसे ममत्व छोड़ो और जो रस हैं उनसे ममत्व छोड़ो और एक अपने आपके शुद्ध आत्मस्वरूपमें आओ। अपने आत्माको जिस रूपसे विचारो उस रूप परिणमता है। अपने को बहिरात्मा रूपसे देखो तो यह बहिरात्मारूप चलेगा और अन्तरात्मारूपसे देखो तो अन्तरात्मारूपसे चलेगा। इस बातको अब इस दोहे में कह रहे हैं।

जेण सरुविं भावपद्म अप्या एहु अणंतु ।

तेण सरुविं परिणवद्द जह फलिहउ मणि मंतु ॥१७३॥

यह अविनाशी आत्मा जिस स्वरूपसे ध्याया जाता है उसी स्वरूप यह परिणम जाता है। जैसे मंत्र वाले मंत्र पढ़ते जाते हैं और दूसरों जगह काम होता जाता है। इसी तरह अपने स्वरूपका जिस तरह से ध्यान किया जाता है उस स्वरूपसे बहां काम होता है। यह आत्मा शुभ, अशुभ और शुद्ध इन तीनों रूपोंसे परिणमता है। जो अशुभरूपसे अपने आत्माका ध्यान करता है वह अशुभरूप परिणम जाता है। जो शुभ रूपसे अपने आत्माका ध्यान करता है वह शुभरूप परिणम जाता है और जो शुद्धरूपसे अपने आपका ध्यान करता है वह शुद्धरूप परिणम जाता है।

जैसे स्फटिक मणिके नीचे जैसा ही रंग लगाया काला, पीला, नीला, लाल आदि तो वह उसी रूप परिणम जाता है। अंगूठेमें जो मुद्री पद्धनते हैं उसमें नग जड़ा जाता है। वह नग जिस रंगका नीचे होता है

वैसा ही उसका रंग लगता है। इसी तरह अपने आपके स्वरूपका चिन्तन करनेसे उस ही प्रकारका यह आत्मा परिणमता है। जो अशुभोपयोगका ध्यान करे तो पापरूप परिणमता है, शुद्धोपयोग का ध्यान करे तो पुण्यरूप परिणमता है और शुद्धोपयोग रूप ध्यान करे तो शुद्धरूप परिणमता है।

मन्त्र बाले कितने ही ऐसे होते हैं जैसे किसीको गालीका चका तोड़ना है तो जरासा धुराकी तरफ बढ़कर उस चकेका ध्यान किया कि इस चके को हमें तोड़ना है, ऐसा अपने आत्मामें बलसारखकर उसने कल्पनामें चका तोड़ दिया या ठट्टेरेका बना कर कल्पना करके चका तोड़ दिया जाता तो दृढ़ जाता है। ऐसा मन्त्र दिखाने वाले लोग करते हैं। तो जिस रूपसे परिणमा हुआ ध्यान किया वैसा ही अपने आपको परिणमा दिया तो यह आत्मा जो अनन्त है, अविनाशी है, बीतराग अनाकुलता रूप, अनन्त सुख आदि अनन्त शक्तियोंसे परिणत है और प्रत्यक्षीभूत है। तो जैसा शुभ अशुभ भावोंरूपसे यह आत्मा ध्याया जाता है उसी तरह सफटिक मणिकी तरह यह आत्मा परिणत हो जाता है। जैसे मन्त्रमें बाहर जिस-जिस स्वरूपसे उपयोगको लगाता है यह उस रूपमें तन्मयताको प्राप्त होता है इसी तरह इस दृश्यांतसे यह ध्यान करना कि यह आत्मा जिस-जिस रूपसे विचारा जाता है उस-उस रूप परिणम जाता है। ऐसा जानकर मनमें निर्णय तो करो। यदि हमें शुद्ध बनना है तो अपनेको स्तालिस रूप से ध्यान करें। सब प्रकारके रागादिक विकल्पोंका त्यागकर अपनेको एक शुद्धरूपसे ध्यान करना चाहिए।

एहु जु अप्या सो परमपा कम्भविसेसे जायउ अप्या ।

जामहै जाणहै अप्ये अप्या तामहै सो जि देउ परमपा ॥१७४॥

यह जो परमात्मा है, जो कर्म विशेषसे जात है वह जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्वसम्बेदन ज्ञान द्वारा अपनेको जानता है उस समय यह आत्मा ही परमात्मदेव है। निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो परमानन्द है उसके अनुभवमें कीड़ा करनेसे यह देव कहा जाता है। यह ही आराधने योग्य है। जो आत्मा शुद्ध निश्चयकरि भगवान केवलीकं समान है, ऐसा परमात्मदेव शक्तिरूपसे देहमें है। वह ऐसा शक्ति द्वि प्रारम्भसे न होता तो केवलज्ञानके समय कैसे प्रकट होता? जैसा परमात्मा हुआ जाता है वह शक्ति रूपसे अब भी मुमर्से है। अगर शक्तिरूपसे न होता तो तपस्या करके भी न प्रकट होता।

बालमें तेल नहीं होता है, तो कितना ही यंत्रोंसे पेला जाय पर

उससे तेल नहीं निकल सकता है। निलोमें तेल निकलनेकी शक्ति है तो जब पेला जायेगा तो तेल स्वयं व्यक्त हो जाएगा। इसी तरह हम आप जितने आत्मा हैं इनमें परमात्मत्व बसा हुआ है और यह परमात्मतत्त्व यदि न होता तो यह परमात्मा नहीं हो सकता था। निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो अनन्त आनन्द है इसके अनुभवमें कीड़ा करने से परमात्मवेष प्रकट हो जाता है। यह परमात्मवेष ही आराधनेके योग्य है। उस निज शुद्ध आत्माके अनुभवके कालमें यह परम आराध्यवेष रद्यं अनुभवमें आता है।

मैया ! कैसा है यह परमात्मा कि शुद्ध निश्चयसे देखा तो ज्ञान, दर्शन, शक्ति, सुख रूप है और कुछ चुप्ता रुपा आदिक १८ दोषोंसे रहित है। ऐसा निर्दोष यह हम आपका परमात्मा है। मगर अनन्त कर्मोंका बंधन लगा है। अपनी बुद्धिका दोष हुआ तो यह पराधीन हो गया। “मैं वह हूं जो हैं भगवान्, जो मैं हूं वह हैं भगवान्।” पर अपने दोषसे यह पराधीन हो गया। वीतराग निविकल्प स्वसम्बोद्धन ज्ञानमें परिणाम आत्माके द्वारा मैं अपने शुद्ध आत्माको ही अनुभजँ। अपने शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग सुखका अनुभव है उससे जो दिव्य है ऐसा यह देव परम आराध्य है। शुद्ध निश्चयसे मुकिगत परमात्माके समान है। ऐसा यह परमात्मा शक्तिरूपसे देखें यदि न होता तो क्षेत्रल ज्ञानकी उत्पत्ति कैसे होती ? मिट्टीमें घड़ा बननेकी शक्ति न हो तो कुम्हार कथा बना देगा ? किसीने धूलसे रोटी बनाया है कथा ? धूलमें रोटी बननेकी शक्ति ही नहीं है। आटेमें रोटी बननेकी शक्ति है सो उससे रोटी बन जाती है। तो ऐसा यह परमात्मा शक्ति रूपसे देखके मध्य है। अब उस ही अर्थको और आगे व्यक्त करते हैं।

जो परमप्या णाणमउ जो हउँ देउ अणंतु ।

जो हउँ तो परमप्य पर एहउ भवि णिभंतु ॥ १७५ ॥

जो अनन्त देव हैं वह मैं हूं, जो मैं हूं ऐसा वह परमात्मा है, ऐसा निःसंदेह ही करके तू आपने आपकी भावना कर। जो परमात्मा ज्ञानरूप है वह मैं ही हूं, अविनाशी देव ही हूं। जो मैं हूं वही उत्कृष्ट परमात्मा है। इस प्रकार चिः्निदेह तू भावना कर। जब अपनी और प्रभुकी तुलना की जाती है तो स्वभावपर दृष्टि जाती है। परिणामनदृष्टि से देखो हम और भगवान् बिलकुल बराबर हैं कथा ? हम यहां जन्म मरण कर रहे, नाना देव लगे हैं और वह परमात्मा निर्दोष है। पर स्वभावकी जब हृष्टि करते हैं तो हम और भगवान् एक समान मालूँ देते हैं। हम आत्मा हैं वह परमात्मा

है। आत्मा और परमात्मामें यहीं फर्क है कि हम तो आत्मा हैं और वह परम आत्मा है। परम मायने उत्कृष्ट। हम हैं तो आत्मा पर वह है उत्कृष्ट आत्मा।

यहाँ हम आप आत्मा उत्कृष्ट नहीं हैं। जो उत्कृष्ट आत्मा है उसे कहते हैं परमात्मा। तो ऐसा सर्वत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादिकरूप जिसके लक्षण हैं वह परमात्मा है। वह ज्ञानसे ही रचा गया है, ज्ञानमय है। ऐसा ही मैं हूँ। पर व्यवहारदृष्टिसे कर्मोंके आश्रित होकर रह रहा हूँ तो भी निश्चयसे वहीं मैं हूँ जैसा कि वह परमात्मा है। यद्यपि व्यवहारनयसे कर्मोंसे मैं बंधा हुआ हूँ तो भी निश्चयसे मेरा बंधन कुछ नहीं है। जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। जो आत्मा परम आराध्य थोग्य है, अनन्त सुख आदि गुणोंका निवासरूप है ऐसे उस परमात्मतत्त्व की देखो।

जो परमात्मा है वहीं ज्ञानमय आत्मा है। परमात्मा कोई एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट आत्मा कहलाता है। जिसे भगवान्, ईश्वर आदि कहन्हीं भी शब्दोंसे कह लो। वह परमात्मा कर्मों कहलाता कि वह परमात्मा हो गया है याने उत्कृष्ट गुणमय हो गया है। परमात्मामें दो इन्द्र हैं—परम और आत्मा। परमका अर्थ है उत्कृष्ट, जहाँ अनन्त ज्ञानानन्द उत्कृष्ट लक्ष्मी पायी जाती है, ऐसे उत्कृष्ट लक्ष्मीवान् आत्माको परमात्मा कहते हैं। वह ज्ञानसे रचा हुआ है। समप्रस्वरूप मेरा ज्ञानमय है। यद्यपि व्यवहारनयसे यह मैं कर्मोंसे आच्छादित हूँ तो भी निश्चयसे वह ही मैं परमात्मा हूँ जो परम आराध्यदेव है। वह अनन्त सुखास्पद है। जो मैं अपने देहमें स्थित हूँ वह ही निश्चयसे परमात्मा है। जो भगवान् है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह भगवान् है, स्वभावके साहृदयरूप क्योंकि चैतन्य जाति एक है, वह चैतन्य विशिष्ट द्रव्य है और यह मैं चैतन्य विशिष्ट द्रव्य हूँ। सो वह परमद्रव्य है। ऐसे परमात्माकी है प्रभाकर भट्ट तू मावना कर, कोई संशय मत ला।

मैया ! यह वर्णन इस प्रयोजनके लिए है कि यह निश्चय हो जाय कि अपने देहमें भी शुद्ध आत्मा है। परम आत्मा होकर जो परमात्मा हुए हैं वैसा ही स्वरूप तुम्हारे इस आत्मामें भी है जो देहमें स्थित है। ऐसा निश्चय करके उस शुद्ध आत्माका आश्रय करो। मिथ्यात्व आदिक आश्रय हो जाय, उसके निमित्तसे अपनी ही परिणतिसे आत्मामें होने वाले केवल ज्ञानादिक उत्पत्तिके बोजभूत कारण समयसार नामक अपने शुद्ध आत्मा की एकद्वे व्यक्तिको पाकर जो आगम भाषासे वीतराग सम्यक्त्व आदिक रूप है उसको पाकर सब तात्पर्योंसे उसकी भावना करना चाहिए। अब

इस ही अर्थको एक दृष्टांत द्वारा समर्पित करते हैं।

गिरिमल फलिहाँ जैम जिय भिरणउ परकिय भाउ।

अप्पसहावहाँ ते मुणि मश्लु वि कमनसहाउ ॥१७६॥

हे जीव ! जैसे नीचेके सब डंक निर्मल स्फटिक मणिसे जुदा हैं इसी तरह इथ आत्मखभावसे सारे कर्म भाव छिन्न हैं। कोई हीरेकी अङ्गूठीमें स्फटिकके नीचे डंक या कागज लगा है तो वह जिस समय उसमें लगा है उस समय तो दिखता है पर वह कागज उस स्फटिकसे अत्यन्त जुधा है। कागजमें स्फटिक नहीं गया, स्फटिकमें कागज नहीं गया, फिर भी निमित्त नैमित्तिक भाव ऐसा है कि वह स्फटिक ऐसी योग्यता वाला उपादान वाला है कि उसमें उपाधिकी फलक आ जाती है। फिर भी कागज उस स्फटिकसे अत्यन्त जुदा है। इसी तरह बायू उपाधिका निमित्त पाकर आत्मामें राग-द्वेषादिक भाव हो जाते हैं फिर भी वे समस्त उपाधि कर्मोंके स्वभावरूप हैं, और यह आत्मतत्त्व चैतन्यस्वरूप है। सो सबको अपनेसे न्यारा मानो। आत्माका स्वभाव अत्यन्त निर्मल है और भावकर्म, द्रव्यकर्म, नो-कर्म ये सब अज्ञानरूप हैं। भावकर्म तो स्वरूपसे अज्ञानरूप है। द्रव्यकर्म, नो-कर्म ये द्रव्यसे भी अज्ञानरूप हैं। किन्तु इन सबसे भिन्न आत्मा चैतन्य-स्वरूप है।

भग्य ! अपने आपका आत्मभगवान अपने आपका शरणभूत है। अपने आपमें अजादि अनन्त विराजमान है। एक इस आत्मतत्त्वको न देखा सो यह सारा संसाररूप विषवृक्ष तैयार हो गया। तो अपने आपको समर्प्त परवस्तुतोंसे अत्यन्त भिन्न मानो। जैसे स्फटिकसे वह डंक भिन्न है इसी तरह भिन्न सबसे न्यारे केवल अपनेको पहिचानने से अपने आपकी ओर स्थिरता होती है, रुचि होती है, उन्सुखता होती है। यह परमात्मा अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त शक्तिरूप है और अपना ? अपना ज्ञान कम है, दर्शन कम है, शक्ति कम है, आनन्द भी कम है, पर है तो सही।

जैसे जिस घोड़ेमें चाल खराब हो, कम हो, पर चाल तो है, उसको सिलाकर उसमें अच्छी चाल उत्पन्न कर सकते हैं पर जो काठका घोड़ा है, जिसे बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें कोई चाल नहीं होती है। तो इसी तरह अपनेमें है तो ज्ञान, दर्शन, शक्ति, सुख। आज यह उलटा चल रहा है अपने दोषसे तो कभी यह ठीक भी हो सकता है। तो ऐसे अनादि अनन्दपरमात्मस्वरूपसे भिन्न अपने भावकर्म, द्रव्यकर्म, नो कर्मको जानो। अब उस ही शरीर और आत्माकी भेदभावनाको दृढ़तासे कहते हैं।

जेम सहाविं यिम्मलउ कलिहउ तेम सहाउ।

भंतिय मद्दलुवि महिणजिय मद्दलउ देक्खविक काउ॥१७७॥

जैसे स्फटिक मणि स्वभावसे निर्मल है या कांच स्वभावसे निर्मल है इसी तरह सभी पदार्थ अपने आपमें देवता अपना स्वरूप लिप हुए रहते हैं। किसी दूसरे पदार्थसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। हमारे इन्हें पुत्र हैं, घर है, घर वैभव है, ऐसा खाल करते हैं, पर चास्तबमें देखो तो यह देह भी तुम्हारा नहीं है। इस देहको तुम चाहते हो कि कभी बूढ़ा न हो और होता है बूढ़ा, इसका वियोग तुम नहीं चाहते हो पर वियोग हो जाता है, मर जाता है। तो देहभी अपना नहीं है तो बाह्यवस्तु अपनी कैसे होगी? एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ हो ही नहीं सकता है। ममता करते जाओ पर उससे लाभ कुछ न होगा। सब पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें स्थित हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वभावसे निर्मल है इसी तरह यह आत्मा स्वभावसे निर्मल है। अपने आत्मामें रागद्वेषभाव नहीं लगे हैं, ये सब इस जीवके अपने सहजस्वरूपके कारण नहीं लगे हैं। यह स्वभावसे तो परम निर्मल है। जैसा प्रभु है वैसा यह आत्मा है। ऐसे आत्मस्वभावको समझकर हे जीव! शरीरकी मलिनताको देखकर भ्रमसे अपने आपको मैला मत मान।

जैसे मैल लग गया हो अज्ञानी मानता है कि मैं मैला हो गया। अरे तू कहाँ मैला हो गया, अन्तरमें निहारन् तू तो आकाशकी तरह निर्मल एक चैतन्य ज्योतिस्वभावी है। जाननेका उपाय यह है कि यह निहारें कि उस वस्तुके साथ उपाधि न हो और फिर जैसा उसका प्रकट रूप हो वस वही स्वभाव है। जैसे दर्पणका स्वभाव अपने आपको मूल करते हुए शुद्ध ठहराना है, वस यही स्वभा। उसका प्रतिविवृत्त होने पर भी अन्तरमें है। इसी तरह स्वभाववृष्टिसे देखा जाय तो जगतके समस्त जीव उस अरहंत सिद्ध प्रभुके समान हैं, पर यह काम आत्मस्वरूपसे विलक्षण है, मलिन है। निर्मल शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्म पदार्थसे विपरीत है।

शरीर जुदा है, जीव जुदा है। शरीरमें रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं, जीवमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं। यह जीव ज्ञान त्मक है और ये समस्त शरीर पुद्गत ये सब जड़ हैं। तेरे परमात्मस्वरूपसे यह शरीर तो अत्यन्त भिन्न है। विलक्षण है, जुदा है। तू इस शरीरकी किसी अवस्थाको देख कर अपने आपमें संतोष मत कर। इस कायको तू अशुद्ध देख और अपने आपमें वसे हुए इस ज्ञायकस्वभावी भगवानको तू शुद्ध निरख। जितना-नितना परवस्तुसे भिन्न वस्तुके एकत्वस्वरूप पर ढढ होगी उसना

ही यह जीव मोक्षमार्गमें प्रवेश करता चला जायगा । इस शक्तिक्रमे शरीर और आत्मामें भेदविज्ञानकी भावना की है । अब उस ही पूर्वोक्त भेद-भावनाको कुछ दृष्टान्तों द्वारा व्यक्त करते हैं ।

रत्तवस्थें जैम बुद्ध देहुण मरणाइ रत् ।

दैहिं रत्ति गावि तहैं अथुण मरणाइ रत् ॥१७॥

जैसे वस्त्र लाल पहिन लिया जाय तो पहिनने वाला पुरुष अपनेको लाल नहीं मानता, सफेद कपड़ा पहिन ले कोई पुरुष या स्त्री, तो क्या कोई यह कहेगा कि मैं सफेद हो गया हूँ ? यदि ऐसा कोई कहेगा तोउ से लोग बाबला कहेंगे । लाल कपड़े पहिन लिया तो ऐसा कोई न कहेगा कि मैं ही लाल बन गया । कपड़ा लाल है, इस लाल कपड़ेके अन्दरमें मैं जैसा हूँ तैसा ही हूँ । तो जैसे कोई लाल वस्त्र पहिन ले तो वह अपने को एक नहीं मानता । इसी प्रकार शरीर भी कदाचित् रक्त हो जाय, लाल हो जाय, कुड़ा हो जाय तो भी ज्ञानी पुरुष आत्माको जैसा है वैसा ही मानते हैं । आत्मा तो आकाशकी तरह निलेप शुद्ध चैतन्यमात्र है । सो उस लाल वस्त्र के पहिन लेनेसे अपनो को लाल रंगका लौकिक पुरुष नहीं मानते । इसी तरह यह ज्ञानी जिसको अपने रागद्वेष रहित के बल शुद्ध स्वरूपकी श्रद्धा है ऐसा बीतराग निर्विकल्प स्वसम्बोद्धन ज्ञानी जीव शरीरके लाल होनेसे अपने आत्माको लाल नहीं मानता ।

अथवा जैसे कोई विद्वान् पुरुष कपड़ा पुराना हो जाने पर अपनेको पुराना नहीं मानता, कटी कसीज किसीने पहिन लिया तो कोई नहीं मानता कि मैं कट गया । तो कपड़ेके पहिननेसे जैसे यह जीव उसी रंगका अपनेको नहीं मानता, इसी तरह अवस्थाके अनुसार शरीरकी हालत जीर्ण हो गयी, बल कम हो गया, तो शरीरके जीर्ण हो जानेसे ज्ञानी पुरुष अपने को जीर्ण नहीं मानता, पुराना नहीं मानता । जैसे कटा कपड़ा कोई पहिन ले तो कोई पुरुष अपनेको यह नहीं कहता फिरता कि मैं कटा हो गया । लाल पीला कपड़ा पहिनने से कोई पुरुष यह नहीं कहता फिरता कि मैं लाल पीला हो गया । तो जैसे किसी भी वस्त्रके पहिनने पर कोई भी अपने को नानारूप नहीं मानता । इसी तरह यह ज्ञानी जीव भी शरीरकी कैसी भी स्थिति हो जाय तो भी वह अपनेको नानारूप नहीं मानता । इस ज्ञानी जीवको अपने उस सहज स्वरूपके घारेमें ऐसा दृढ़ निरचय है, ऐसा तीक्ष्ण श्रद्धान है कि वह मात्र अपने उस चैतन्यस्वरूपका अनुभव करता है ।

जैसे लोग खाल रखते हैं कि मैं इतने पुत्रोंका बाप हूँ, ऐसी सम्पत्ति

वाला हूं, ऐसे पोजीशन वाला हूं ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने आपमें ऐसा परिणाम करता है कि मैं तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूं, और किसी किसी समय तो अपने ज्ञानसे इसे भी भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूं। यह जीव मनुष्य कव है, उपयोग दृष्टिसे कह रहे हैं भीतरमें कि जब यह अपनेको मनुष्य या मनुष्य जैसा आचरण करते हुए श्रद्धान करे कि मैं यह हूं, पर ज्ञानी जीव अपने आपमें ज्ञानस्वरूपका दर्शन करता है। मैं ज्ञान मात्र हूं, मनुष्य नहीं हूं स्त्री नहीं हूं, बाप नहीं हूं, बेटा नहीं हूं। यह मैं तो आकाशकी तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञानस्वरूप मात्र हूं। तो यह और आत्माका भेदज्ञान करने वाला जीव अपनेको भिन्न पहिचान लेता है।

मैथा ! जब तक अपने शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि नहीं होती तब तक अपना परिचय नहीं हो सकता। यहां शुद्धके मायने पर्याय शुद्ध नहीं, राग द्वेष रहित वीतराग नहीं वह रहे किन्तु यह मैं आत्मा अपने आपके अस्तित्वके कारण जैसा स्वतःपित्र हूं, मैं द्रव्यधृष्टिके द्वारा जैसा भावोंमें परिचित होता हूं ऐसा चैतन्यमन्त्र मैं आत्मात्त्व हूं। यह भेदविज्ञानकी भावना इस जीवको तब तक करना चाहिए जब तक यह ज्ञानमात्र उपयोग न रह जाय। जब तक विकल्प है, ध्यान है, राग है तब तक इसका उद्घार एक भेद विज्ञानकी ही भावनासे है। विकल्प रागादिक्षेत्रे तो इस चिदानन्द प्रभुवा धात होता है। जैसे पापके उदयमें वैष्णवको भोगते हुए भी इस चिदानन्द प्रभुवा धात होता है इसी तरह वह वैष्णव पाकर उनमें राग करते हुए अपने चैतन्यप्राणका वह धात करता है। इस कारण अपने डापके स्वरूप की रक्षा करना ही तो अपने को जैसा चित्तस्वरूपसे हो, उस रूपसे निरख कर तावनमात्र अपनेको अनुभव करना चाहिए।

यह जीव व्यवहारकी मुख्यता करके निमित्तसे अपनेको कर्ता मानकर अपने स्वरूपसे चिगा रहा। और अपनेमें जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्यका इसने गौरव न माना। जैसे कुरुहारके बीच बन्धे हुए गधे हों और वहीं सिंह हो तो एक सिंह भूलसे वचपनमें चला आया था तो अपने को भी गधा मानता था। वह सिंहका वच सिंहकी दहाड़को सुनने और उसके रूपकी अपने रूपकी तुलना करते ही उसमें भी ऐसा उत्साह जगता है और दहाड़ भारकर उस कुसंगसे निकल कर अपना खतंत्र विहार करता है।

जैसे स्वर्णकी डलीको रही मैले कपड़ेमें बांध दिया जाय, तो स्वर्ण तो मलिन नहीं हुआ, वह तो अपने आपके स्वरूपमें जैसेका ही तैसा है। इसी तरह इस मलिन देहमें यह जीव बंध गया तिस पर भी यह जीव अपने आपमें अपने स्वरूप मात्र है, पर यह जीव बाह्य पदार्थोंमें ही दृष्टि गढ़ाए

रहता है। किसी भी परपदार्थमें दृष्टि जाय, तब या तो राग करके मरेगा यह या द्वेष करके मरेगा या रांद्रध्यान करेगा या आत्मध्यान करेगा। कितना काल न्यूनीत हो गया इस जीवको भ्रमण करते-करते? जिसको बचतों से नहीं कहा जा सकता है। कर्म आवृतकी हालतमें कि लो यह में आत्मतन्त्र हूं तो भेद विज्ञानकी मावना ही हम लोगोंको शरण है।

अपने व्यावहारिक जीवनमें चलते हुए भी जब जब हम भेदविज्ञान करते हैं—सबसे न्यारा इस चैतन्यस्वरूपको देखते हैं, या “सबसे जुदा हूं, किसीसे सम्बंध नहीं है, न किसीके साथ आया हूं, न किसीके साथ जाऊंगा” ऐसी भेद भावना हृद होती है तो उसे शरण मिलती है। और अपना यह ज्ञान अपने पास न ही तो कहीं भी भट्टें, कुछ भी मिल जाय, या तो रौद्रध्यान करके अपना जीवन निष्फल करेंगे, या आर्तध्यान करके निष्फल करेंगे। इस पुण्यके ठाठ वैश्वके स्वस्वन्ध से भी इस आत्माकी दृष्टि परकी और होती है और परकी दृष्टिके समय दोहरे विपदा नहीं है। धन्य है वह आत्मा जिसको स्वदृष्टिसे रुचि है। अपने आपको सहज स्वरूप रूप में ही निरन्तर अपनेको देखना चाहता है। भवितव्य उत्तम होता है जिनका उनकी ही लगन इस स्वभावकी ओर होती है। जान करनेसे या कुछ दिलानेसे अन्तर में लाभ नहीं होता। अन्तरमें लाभ तो अन्तरके परिज्ञान से ही होता है। सो कैसी भी परिदिव्यति हो, हमें यह तो विश्वास रखना ही चाहिए कि हूं मैं सबसे न्यारा।

मैया! कुछ भी हो, ये सब न कुछ की तरह हैं। अन्तमें छोड़कर ही जाना होगा। और जब तक जीवन है तब तक भी वे कुटे हुए हैं। जब ज्ञानदृष्टि जगे तब इसका भवितव्य सुधरता है। अहो, नहीं जगती दृष्टि, मतिनतामें जैसे अनन्तकाल खोया जैसे ही यह भी समय व्यतीत ही जायगा। यहां भेदविज्ञानकी मावनामें वस्त्रका दृष्टांत देकर समझाया है। मैला वस्त्र पहिनकर कोई अपनेको मैला नहीं मानता। इसी तरह ज्ञानी जीव मतिन देह होनेसे अथवा जीर्ण देह होनेसे अपनेको जीर्ण नहीं मनता। वह तो अपनेको अमूर्तआकाशशब्द निर्लेप केवल शुद्ध स्वरूपमात्र देखता है।

वन्यु पण्डुइ जेम बुद्ध देहु ण मरणइ णटु ।

गुडु देहे णाणि तहुँ अपु ण मरणइ णटु॥ १८० ॥

भिरणउ वथु जि जेम जिय देहुँ मरणइ णाणि ।

देहुवि भिरणउ णाणि तहुँ अपहुँ मरणइ जाणि ॥ १८१ ॥

जैसे वस्त्र लष्ट हो जाय तो देहको नष्ट कोई नहीं मानता, अगर

पहिने हुए करड़े फट जायें तो कोई अपनेको यह नहीं मानता कि मैं फट गया हूं इसी तरह यह देह नष्ट हो जाय तो ज्ञानी यह नहीं मानता है कि मैं नष्ट हो गया हूं। व्यवहारमें इसका सबको ज्ञान है कि कपड़े जुदा हैं और हम जुदा हैं। अज्ञानी जीव तो इस देहको ही मान लेता है कि यह मैं हूं, पर ज्ञानी जीव इस देहसे भिन्न अपने आत्मस्वरूपको मानता है। और, ऐसा मान लेने का कारण यह है कि उन ज्ञानी सन्त पुरुषोंको अपने आपमें अनादि अनन्त विराजमान् एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप अनुभवमें आया। मैं सबसे न्यारा केवल चित्प्रकाशमात्र हूं ऐसा उनके अनुभवमें आया है जिसके बलसे वे देहसे भिन्न अपने आत्माको जानते हैं। अंतरङ्गमें देहसे भिन्न आत्माके पहिचाने का पुरुषार्थ होना यह सबके बड़ा उत्कृष्ट कार्य है और यह गुप्त रूपसे होता है। यह उत्कृष्ट कार्य दिखाकर न बनेगा। किन्तु अपने आपमें अपने आपकी माघना करें तो होता है। जिसे अपने कल्याणकी चाह है वह ही अपने आपके आत्माकी इस तरह भाषना करता है।

जैसे हर प्रकार के वस्त्र इस देहसे भिन्न हैं इसी तरह यह ज्ञानी जीव इस देहको भिन्न मानता है। व्यवहारसे यह देहमें स्थित है, पर यह आत्मा जुदा पश्चार्थ है। शरीर जुदा पश्चार्थ है और फिर यह जीव इस देहमें स्थित है। तो दो द्रव्योंका सम्बन्ध बताना व्यवहार है। तो जीव देहमें स्थित है ऐसा कहना व्यवहारनयका काम है। तो व्यवहारसे व्यापि यह देहमें स्थित है तो भी यह परमात्मतत्त्व देहसे विलक्षण है और सहज शुद्ध परम आत्मन्दरूप एक स्वयावको लिए हुए है। ऐसे निज परमात्माको है योगी! तुम जानो। जिसे जिस बातकी लगत लग जाती है वह उस बातका हल निकाल ही लेता है। जिसको अपने आपके आत्माके शुद्ध स्वरूपमें निरखनेकी छुन लग गयी है वह अपने आपमें अपने आपको पा लेनेका उपाय बना ही लेता है। यह जीव सहज शुद्ध परमात्मन्द एक स्वभाव बाला है, ऐसा ही यह निज परमात्मतत्त्व ही, उसको तुम शरीरसे भिन्न जानो।

अभी देखो जिससे अपनेको भिन्न मानते हैं उसमें कुछ भी परिणति हो उसकी परिणतिसे अपने आपको खेद नहीं होता है। सङ्कपर कितने ही लोग आते जाते दिखते हैं किन्तु उनके किसी परिणमनसे अपनेको हर्ष विषाद नहीं होता क्योंकि यह प्रतीति लिए थें हैं कि वे सब तो पर हैं, मैं उनसे न्यारा हूं। इसी प्रकार यदि परिवारके लोगोंसे अपने आपके न्यारे-पनका विश्वास हो जाय और इस देहसे न्यारेपनका विश्वास हो जाय तो देहकी कुछ भी परिणति हो और अन्य जीवोंका कुछ भी परिणमन हो उससे

भी अपने चिचें विहृलता न उत्पन्न करेंगे, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, “हैं ये सब” ऐसा जाननहार रहेंगे। अब दुःखोंको उत्पन्न करने वाला जो देह है उस देहका घातक जो शत्रु है उसको भी तुम मित्र जानो, यह वात दिखाते हैं।

इहु तणु जीवष तुडम रिव दुभखद जेण जयोइः

सो पहु जणहि मित्र तुहुं जो तणु एहु हयोइ ॥ १८२ ॥

हे जीव ! यह शरीर तेरा शत्रु है। यह शरीर दुःखों को उत्पन्न करता है। शरीर लगा है तो इसी से भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है और इस शरीरसे आत्मबुद्धि बर लेने पर तो फिर राग-द्वेषादिके समस्त संकट चलते रहते हैं। तो यह देह इस मुख आत्माका शत्रु है। जो कोई इस शत्रुको यदि नष्ट कर दे, इस शत्रुका घात करदे तो इस शत्रुका वात करने वाला पुरुष मेरा मित्र है। जैसे आपका किसी पुरुष से बैर हो गया और दूसरा पुरुष भी उससे बैर रखता है तो वह तुम्हारे लिए मित्र हो गया। जैसे आप किसी मित्रसे प्रेम करते हैं और उसी मित्र से दूसरा प्रेम रखे तो उसे भी मित्र मानते हो, इसी तरह किसी तुम्हारे शत्रुसे कोई दूसरा शत्रुता रखता हो तो उस दूसरे शत्रुता रखने वालेको भी अपना मित्र मानते हो।

हे जीव ! यह शरीर तो तेरा शत्रु है क्योंकि यह शरीर केवल दुःखोंको उत्पन्न करता है। तो ऐसे दुःखोंको उत्पन्न करने वाले इस शरीर का जो घात करे उसको तुम परम मित्र जानो। यह शरीर तेरा शत्रु होने से भूख उत्पन्न करता है। अभी शरीर न लगा होता, खाली आत्मा होता तो फिर सिद्धमें और अपनेमें क्या फर्क रहा ? सिद्ध होना, इसका अर्थ यह है कि केवल बनना है, शरीरसे सर्वप्रपञ्चों से मुक्त होना है। तो जितने भी कलेश हैं वे सब इस शरीरके कारण हैं। जो इस शरीरका घात करता है उसको तो तुम परम मित्र जानो। यह शरीर तेरा शत्रु होने से दुःख उत्पन्न करता है। इससे तू अनुराग अत कर। जो तेरे शरीरके अनुकूल काम करता है उससे भी राग अत कर और जो शरीरका घात करदे उसको भी शत्रु न जान। यह शरीर तो तुमसे अत्यन्त मिन्न है।

मैया ! देखो मजेकी बात कि जगत्‌के जितने भी विनाशने पदार्थ हैं उन सब विनाशने पदार्थसे अत्यन्त विनाशना यह शरीर है। पर मौह ऐसा लगा है कि इस और दृष्टि नहीं ढालते कि मैं देहसे जुदा हूँ। जुदा की अछाह हो जाय तो दुःख अवश्य कम हो जाते हैं। इस शरीरका जो शत्रु है शरीर को नष्ट करता है, वह तो मेरा बैरी नहीं है वह मेरा मित्र है। यहां यह

बात बतला रहे हैं कि जब द्रव्य देहका विनाश हो रहा है तब साधुको क्या करना चाहिए ? तब साधुको वीतराग चिदानन्दस्वरूप निज परमात्मतत्त्व की भावनासे उत्पन्न सुखखण्डी असृतको पीकर तृप्त होते हुए अश्वास समता रसके परिणाममें ठहर कर जो शरीरका घात करने वाला है उस पर द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे पांडवोंने कौरवोंके कुमारों पर द्वेष नहीं किया।

महाभारतके समय कौरव वंशमें छोटे लड़के ही रह गए, जौरव वंशमें जो बड़े बड़े लोग थे मिट गए, नष्ट हो गए, कौरवोंवे कुदुम्बमें छोटे लड़के रह गए। तो जब पांडवोंको उन्होंने देखा कि ये खड़े हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो सोचा कि इनकी तपस्याका भंग करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे दादा, बाबा इत्यादिको घरबाद कर दिया है। सोचा कि ये छोंग करके खड़े हो गए हैं। उन कुमारोंके चित्तमें द्या न उत्पन्न हुई। उनके द्वे तो हो गया। जो है के गरम-गरम कड़ा कुण्डल उनको पहिना दिया। तिस पर भी उन पांडवोंने शरीरपर राग नहीं किया।

उन पांडवोंमें से सुनते हैं कि नकुल और सहदेव जो छोटे भावै थे वे पपने तीनों बड़े भाइयोंके कष्टको देखकर विचलित हो गए, उन दोनों छोटे भाइयोंके मनमें चित्तमा हो गयी। ओह ! देसे बीर दुर्ल, देसे ऊँचे राजघरानेके महापुरुष और कैसा शरीर जल रहा है ? ऐसा देखा न गया और मनमें इस प्रकारका विकल्प कर लिया। यद्यपि उस साधु अवस्थामें वे कुछ करन सकते थे पर ऐसा भाव उनका आ जानेसे वे मोक्ष नहीं गए। वे सर्वार्थसिद्धिं गए, सर्वार्थसिद्धिमें जाकर मनुष्यभवमें आए फिर मोक्ष गए। तो जब कोई बैरी देहका विनाश करता हो तो उस समय एक वीतराग चिदानन्द स्वभावी परमात्मतत्त्वकी भावना करें ऐसा साधुवोंको उपदेश है और उस परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न जो सुखामृत समता रस है उसमें हिति होकर शरीरका घात करने वाले पर द्वेष न करें। जैसे पांडवोंके शरीर पर घात किया कौरव कुमारोंने, फिर भी उन पांडव कुमारोंने उन पर द्वेष नहीं किया। और भी इसके उदाहरण है।

श्री गजकुमार मुनिके सिरके ऊपर अर्गीठी उनके स्वसुरने ही जलायी थी, ऐसा उपसंग होने पर भी वे विचलित नहीं हुए। जो पुरुष अपने समता परिणाममें ठहरते हैं वे पुरुष परमेष्ठी हैं, धन्य हैं। ऐसे ही सुकुमार सुकौशल मुनि हुए हैं जिन पर सिंहनीने जो पूर्वभवमें उनकी माँ थी, आक्रमण कर दिया। उसका मरण इस अपने बच्चे के शोकके कारण हुआ था। उसने समझ लिया था कि देखो पिता चले गए और बच्चा भी चला गया। सो बच्चे पर बहुत घड़ा क्रोध उसके था। इस ही संक्षेपसे

उसका मरण हुआ और मरकर सिंहनी हुई और जंगलमें तपस्या करते हुए सुकुमार सुकौशलको पजे से मारकर घात बर दिया। तो जो जिसका लक्ष्य करके संक्लेश करता है और फिर मारता है तो वह ऐसे ही स्थान पर पहुंच कर जन्म लेता है कि वह दूसरेके द्वारा हना जाय। तो जैसे इन पूर्व तपस्थियोंने शरीरके घातकोंवे उपर द्वेष नहीं किया इसी प्रकार उन्हें तपस्वीजनोंको भी द्वेष न करना चाहिए। यह इसका अभिग्राह हुआ।

देखो अपनेको द्वेष उत्पन्न न हो इसके लिए चाहिए पर्याप्त स्वयंच की साधना, जिस स्वाभावकी साधनाके प्रतापसे द्वेष उत्पन्न नहीं हो। है। अब देखो ये द्वेष ईर्ष्यके इस दैहिको जलाते रहते हैं। दूसरेका बुरा विचारनेसे कहाँ दूसरेका बुरा नहीं हो जाता। दूसरेका बुरा विचारने वाले ने केवल अपव्याप्ति किया। उस अपव्याप्तिके फलमें वह नरक निशोदर्में जन्म लेता है। कैसा है निगोद कि जिसमें कुछ चेत नहीं है। वे सांगण्य वनस्पति कहलाते हैं। जो शरीरका घात करते हैं वे तो मेरे मित्र हैं। यह बात बड़ी कठिनाईसे समझमें आती है, पर जिनका वैराग्यमें चिन्त है और जिनके केवल आत्माके ही कल्याणकी धून है वे जीव केवल अपने हितमें जो साधक हो उसके प्रति तो प्रेम करते हैं पर जो अपने हितमें बावक हो उसके प्रति उपेक्षा करते हैं।

यहाँ यह बतला रहे हैं कि जो शरीरका घात करने वाला है उसे साधु मित्र मानते हैं वह कैसे कि शरीर है जीवका इन्द्रि, अहितकर। जीव का वह मित्र है जो जीवके शत्रुका घात करे। लोकव्यवहारमें भी जो अपने शत्रुसे बैर रखे और अपने शत्रुसे बदला लेनेका यत्न करे तो उससे मित्रता ही जाती है तो शरीरके घातक पुरुष पर भी शत्रुताकी कल्पना न करो। एक साधुकी ऐसी कथा है कि उन मुनि महाराजके कोई बहुत पहिले वे प्रेमी थे। किसी कारणसे उन्हें वियोगसे आर्तव्यान हुआ था। तो जब वे मुनि महाराज उसे कहाँ मिले तो चक्रवर्षोंसे खालको नोच-नोचकर नमक किंडिका था। इस प्रकारका उपसर्ग उनसे उस साधु पर किया था। जब वे साधु महाराज विरक द्वारा ये तो उनके पिताका उनके प्रति इतना प्रेम था कि छिपे छिपे सैनिक लोग उनके आगे पीछे लगाये रहते थे ताकि किसी भी प्रकारका उपसर्ग उनपर कोई कर न सके। पर जब उपसर्गका उपद्रवका समय आया तो कोई भी सैनिक उन साधुमहाराजको देखने वाला न था। इस प्रकारका उपसर्ग उन पर हुआ। पर वे पुरुष घन्य हैं जो ज्ञानरसके रसिक हैं। जिन्हें केवल ज्ञानरस ही सुहाया, उन्होंने उपसर्ग बालने वाले जीवोंको अपना शत्रु नहीं माना। अब यह बतलाते हैं कि

पाप कर्म उदयमें आए तो भी अपना स्वभाव न छोड़ना चाहिए ।

उदयलैं आणिवि कर्मु मईं जो मुंजेवड होइ ।

तं सइ आवित्त स्वविल मईं सो पर लाहु जि कोइ ॥१८३॥

जिन कर्मोंको मैं अपने उदयमें भोगना चाहता था वे कर्म स्वयं ही उदयमें आये हैं, ऐसा जानकर वे साधु पुरुष शांत चित्त होकर उन कर्मोंका क्षय करते हैं ।

जिन महात्मा पुरुषोंके विशिष्ट आत्मभावना का बल होता है उन्हें उस बलके कारण आगे उदयमें आने वाले कर्मोंको शीघ्र ही उदयमें लेकर नष्ट कर देते हैं और जो उदयमें आते हैं कर्म उनके प्रति यह ज्ञानी सोचता है कि जो कर्म मुझे उदयमें लाकर खिराने चाहियें वे वे कर्म अब स्वयं ही सामने आ गए तो मैं उनका फल सहन करके शांत भावसे रहकर क्षय करूँगा, यह तो बड़े लाभकी बात है । जैसे किसीको कर्ज देना है, उसके मनमें यह परिणाम आया कि आज अमुक के घर जाऊँ और अपना कर्ज चुकाना लाऊँ । और वह जानेकी तैयारीमें था । वही आदमी जिसको कर्ज चुकाना था उसी समय आ गया तो वह कितना हुश होता है कि वहां जाने के अमसे बच गए । वह कर्ज चुकाने वाला स्वयं वही उसके घर आ गया । इसी तरह ये कर्म आए हैं स्वयं उदयमें बड़े दुर्घट परिसरह और उपसर्गके द्वारा कर्म आए हैं तो अब मुझे समतारसका स्वाद लेते हुए उनका क्षय करना चाहिए ।

निम्न जो परमात्मा च्व है उस अपने परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो रागद्वेष रहित स्वाभाविक आनन्द है उस एक सुखरसके स्वादसे जो आलूदा हुआ वह मेरे द्वारा उनके क्षय करनेसे हुआ । यह बड़े लाभकी बात है कि वे कर्म स्वयं ही मेरे समक्ष आ गए । जो कोई भी महापुरुष हुए हैं वे बड़े दुर्घट अनुष्ठानको करके धीतराग निर्विकल्प स्वसम्बोधनमें स्थित होकर कर्मोंकी उदयको लाकर उसका अनुभवन करते हैं । फिर हमारे लिए वे कर्म स्वयं ही उदयमें आ गए, ऐसा मानकर विवेकी जनोंको संतोष करना चाहिए ।

अब यह बतलाते हैं कि कोई कठोर बचन नहीं सह सकता है, सहा नहीं जाता है तो उस समय निर्विकल्प आत्मतत्त्वकी भावना करना चाहिए । कोई पुरुष यदि कठोर बचन बोलना है तो उसके दुःखको मेटने की ओरधिए एक है कि अपने आपके अन्दरमें उपयोग द्वारा घुसकर अपने निर्विकल्प सहजचैतन्यस्वरूपका अवलोकन करना चाहिए । उसको हम उत्तर दें और उससे हम विजय पाना चाहें तो नहीं पा सकते हैं । हम उत्तर

देंगे तो वह भी उत्तर देगा इस प्रकार से चात और बढ़ती जायगी। तो दिव्य पुरुष क्या करते हैं कि दूसरे के कठोर वचनोंको सुनकर अपने आपमें अपने शुद्ध ज्ञायक स्वरूपका अनुभव करते हैं।

णिष्ठुर वयणु मुखेवि जिय जड मणि सहण य जाइ ।

तो लहु भावहि वंसु पह चिं मणु झत्ति विलाइ ॥१८॥

हे जीव ! निष्ठुर वचनको सुनकर वहि वह सहा न जा सके तो कथाय दूर करने के लिए इस परम ब्रह्म स्वरूप की अपने मनमें शीघ्र भावना करनी चाहिए। जो ब्रह्म अनन्त है, अनन्त ज्ञान आदिक गुणोंका भरडार है, सर्वोत्कृष्ट है, उसका ध्यान करनेसे ये मनके विकार शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। बड़ो हिमतकी बात है कि कोई हुवचन बोलता हो और यह अपने आपमें अपने स्वभावकी हष्टि रखनेका यत्न करता हो, यह बड़ो अपर्यं दिमतकी बात है। हे हितैषी जीव ! तू हृदयको भेदनेके लिए शस्त्रकी तरह जो वचन हैं कर्णेवधी ऐसे निष्ठुर वचन सुननेके अनन्तर ही तुम निर्विकल्प समाधिमें ध्येय होकर अपने देहमें रहने वाले परमात्मतत्त्व की भावना करो। अपने आपपर बस चल सकता है, दूसरे पर नहीं चल सकता है। कोई विपत्ति आए, कोई निष्ठुर वचन हो है तो उसका उपाय एकमात्र यह ही है कि अपने देहमें विराजमान अनादि अनन्त छहेतुक इस परम तत्त्वका ध्यान करो।

यह परमात्मतत्त्व कैसा है ? उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादि गुणों का आधारभूत है। परम उत्कृष्ट है। जिस परमात्माके ध्यानसे क्या होता है कि यह मन शीघ्र विलीन हो जाता है। कैसे विलीन हो जाता है कि बीतराग निर्विकल्प स्वसम्बेदनसे उत्पन्न हुआ जो परम आनन्दरूप सुख है वही हुआ परम असूल, इस स्वादको लेते हुए अनुभव करते हुए की स्थिति में यह मन विकल्पजालोंको तोड़कर विलीन हो जाता है, एक ही औषधि है सकटोंके मिटानेकी। किसी भी प्रकारका संकट आए, एक अपने आपके सहजस्वरूपके अनुभवकी कोशिश करने लगें, अपने आपमें अपने आपको देखने लगें। बाहरमें कहीं कोई कुछ कह रहा हो उसका प्रभाव न आए, ऐसा बल विवेतकी पुरुषमें निज परमात्मतत्त्वकी भावनाके बलसे होता है। अब यह निश्चय करते हैं कि यह जीव कर्मोंके वशसे भिन्न-भिन्न जातिके मेंदसे भिन्न-भिन्न हो जाता है।

लोच विलक्षणु कम्भवसु इत्यु भवंतरि एह ।

चुञ्जु कि लइ इहु अपि ठिच हत्यु जिभविण पडेह ॥१९॥

विजक्षण है लोक अर्थात् जीवोंका समूह जो नाना जातियोंमें

बैठा हुआ है वह कर्मवश होकर इस संसारमें अनेक जातियोंको धारण करता है। यह जीव आत्मस्वरूपमें लगे तो इस भयमें न भ्रमण करेगा, इसमें क्या कुछ आश्चर्य है? कुछ नहीं। यह समस्त जीवतोंके जो कांसों दिखता है यह सब परमात्मस्वरूपके दिलक्षण है। क्या ही रहा है? कितनी विचित्र स्थितियां हैं इस जीवकी कि सब स्थितियोंमें यथापि वह परमत्रां जीवस्वरूप एक स्वरूप निज ब्रह्मको न पहिचानकर नाना व्हालताएँ हो रही हैं और जगह-जगह यह जन्म मरण करता-फिर रहा है। यह जीव स्वभावसे केवल ज्ञानस्वरूप है और वह देवत ज्ञान अत्यन्त स्वच्छ है। जैसे सोलह बार तषाये हुए स्वर्णमें अत्यन्त स्वच्छता रहती है, स्वर्णस्व घन रहता है, उसमें विजातीय भाव नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार यह परमात्मत्व एक ही स्वरूप है और वह सर्व जीवतांशमें सदृश है। स्वभाव-हृष्टिसे जो मैं हूँ वह प्रभु है। जो प्रभु है वह मैं हूँ। स्वभावहृष्टि करने वाला अपनेमें और प्रभुमें भेद नहीं जानता। और ऐसी ही अमेवधृतिसे वह बहुत स्थिर रहकर अनुभवन करता है तो सर्वविकल्पोंको छोड़कर तिरिक्तलप परमसमाधिका अनुभवन करता है।

ये समस्त जीव राशियां जो ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातिके भेदसे नाना प्रकारके दिख रहे हैं वे कर्मवश हैं। आत्माका स्वभाव तो कर्मरहित है। शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभवनमात्र है, परं उसकी जब भावना नहीं रहती है तब कर्मोंका जो उपार्जन होता है उन कर्मोंके आधीन होकर, कर्मवश होकर यह यहां ही पंचप्रकारके अवान्तरोंमें, संसारमें होता है। इस आत्माका स्वभाव हो परिवर्तनोंसे रहित है, धीतराग-परम आनन्दस्वरूप है। शुद्ध आत्मद्रव्य है। केंल अपनी ओरसे अपने आप होता द्रष्टाकी परिणति करता है। परं उससे विलक्षण इस भवान्तरों संसारकी यह वृत्ति होती है। इसमें क्या कुछ आश्चर्य है? कुछ भी आश्चर्य नहीं है। किन्तु जब यह जीव अपने हुए शुद्ध आत्मस्वरूपसे उन्मुख होता है, यहां ही स्थिर होता है, उन होता है तो फिर वह इस भवमें नहीं गिरता है।

इस दोहेसे यह शिक्षा लेनी है कि जो हुसारके भयसे भीत है, वो संसारमें रहना नहीं चाहता जिसको नरक, जिगोद कादिकी गतियां इष्ट नहीं हैं उस पुरुषको मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कषाय और योग इन ५ प्रकारके आश्रयोंको छोड़कर देसे परमात्मस्वरूपमें स्थित होना चाहिए जो परमात्मस्वरूप द्रव्याश्रय और भावाश्रयसे रहित है उस परमात्मभावमें

स्थित होकर निरन्तर निज शुद्ध ज्ञानमय आत्मतत्त्वकी भावना करनी चाहिए। भावनाका मात्र यह है कि अपने आपको अधिकतर ऐसा ही विचार करें कि मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं, मैं अन्यरूप नहीं हूं, मैं किसी परका कर्ता नहीं हूं, मैं केवल आत्मस्वरूप हूं, ऐसे परमात्मभावमें स्थित होकर निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना करना ही साधुका मुख्य कर्तव्य है।

अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि देखो भाई दूसरा मनुष्य यदि दोष प्रहण करता है, दूसरा कोई दोष देता है तो उसपर कोप न करना चाहिए। उस समय यह भावना करनी होती है कि स्थूल दृष्टिसे उदय ही इस प्रकार का दोषमय है। ऐसा जानकर दोष प्रहण करने वाले पर क्रोध नहीं आता है और अधिकतर ऐसा ही यत्न करना कि दूसरेकी कुछ कठोर बातको सुनकर भी अपना यत्न यह हो कि अपना सहज जो निर्धिकल्प चैतन्य स्वरूप है, अपने आपके सत्त्वके कारण जो अपना शुद्ध ज्ञायकस्वभाव है उस रूप भावना भानेका यत्न करना चाहिए। इसी बातको अब इस दोहे में कहते हैं।

अवगुणगहणादै महुतणादै जद जीवहैं संतोसु ।

तो तहैं सोक्लहैं द्वेष हड़ इड मणिणवि चद रोसु ॥१८६॥

मेरे अवगुण प्रहण करने से यदि किसी जीवको संतोष होता है तो मैं यही तो लाभ मानता हूं कि मैं दूसरे जीवोंके सुखका कारण तो बना। ऐसा ही मनमें विचार करो। मैं दूसरेके सुखका कारण तो बन गया। सो ऐसा मानकर कर गुरुसाको दूर करो। कोई जीव घन खर्च करके दूसरोंको सुखी करता है, कोई जीव अपनी ओरसे सेवा करके शरीरकी खुशामद करके दूसरेको सुखी करता है तो कोई जीव मेरेको लक्ष्यमें लेकर गाली देकर खुश होता है तो मैं आज उसके सुखका कारण तो बना—ऐसा जान कर रोष न करो। किसीके निष्ठुर बचन सुनकर, गाली भरी बात सुनकर अपनेको क्या-क्या करना चाहिए, उसका आज प्रकरण है।

पहिली बात तो यह है उल्कष्ट कि यदि कोई गाली गलौजका निष्ठुर बचन बोलता है तब यदि तुम्हारे अंतरंगमें बल है तो उस समय अपने आपका जो शुद्धस्वरूप है अर्थात् मैं स्वयं अपने आप जैसा चैतन्य प्रकाश-मात्र हूं, ज्ञानमात्र हूं, केवल जाननहार हूं, ऐसे अपने स्वरूपको ध्यानमें ले। उससे कितनी बातें बनेगी? वह अपने आपमें ही अपना परिणामन करता है। इस मुझ आत्मामें उसका कोई दखल नहीं है। वह अपने आप में ही अपना परिणामन करके समाप्त हो गया है। मैं अपने आपमें शुद्ध चैतन्य (काश मात्र) हूं।

दूसरी बात यह है कि यदि वह गाली देकर सुखी होता है तो उससे मेरा चिंगाड़ क्या ? बल्कि यह बात अच्छी हुई कि जो मैं उसके सुखका कारण तो बना । तो ऐसा मानकर रोष न करना चाहिए और भी रि ल-सिलेसे सुनिए । कोई कोई परोपकारी पुरुष दूसरे को द्रव्य देकर सुखी करते हैं और मैंने कोई द्रव्य नहीं लगाया पिर भी सुखी हो गया । सुझे कोई गाली देकर सुखी होता है तो इसका उपकार ही हुआ ऐसा ही जानकर उस पर रोष न करो । यद्यपि इस प्रसंगमें ऐसी बात है कि कोई क्षोभ न हो तो ऐसा सोचनेका ख्याल रहे और ऐसा सोचनेका ख्याल रहे तो कोई क्षोभ न हो तब बात कैसे बने ? तो थोड़ा-थोड़ा दोनों ओरकी बात है । कवाय भी कम करो थोड़ा चिचार भी करो । फिर परस्परका निमित्त होने थोड़ाके कारण हितघृदिमें भी सहयोग मिलेगा और वह काम बनेगा ।

तीसरी बात- जिसने मेरा दोष ग्रहण किया है उसके प्रति यह चिचारो कि उसने मेरे गुण तो नहीं प्रदण किया याने गुण तो नहीं छीना, किन्तु उसने मेरे दोष ही छीने । ऐसा जानकर उस दोष प्रहण करने वाले पर कोय न करना चाहिए । चौथी बात और भी देलिए—जिसने मेरा कोई दोष कहा और मुझमें ऐसा दोष है तो उसका बचन सत्य है, उसके कहनेका क्या बुरा मानें ? ऐसा ही जान करके कोय करना छोड़ दो । पांचवीं बात—यदि मेरे में यह दोष नहीं है तो उसके बचनोंसे क्या मैं दोषी हो जाता हूं ? मैं ही दोषी हूं तो मैं अपने लिए अकल्याणरूप हूं । मैं यदि दोषी नहीं हूं तो मैं मेरे लिए अकल्याणरूप नहीं हूं । कोई कुछ कहे, उनका कहना, उनका प्रयत्न उनके ही आत्मामें समाप्त हो जाता है ।

अथवा छठी बात कोई पुरुष मेरे परोक्षमें दोष प्रहण कर रहा है, परोक्षमें बहुतसे दोष बलान रहा है तो उसने परोक्षमें ही तो दोष प्रहण किया । मुझ पर इतनी हृषा रखी कि यह मेरे सामने तो नहीं कह रहा है । इन्हीं तो गनीमत है । वह परोक्षमें कुछ भी करता हो तो वह बेचारा अपना ही तो श्रम लेता है, ऐसा समझ कर उस पर क्षमा करना चाहिए । सातवीं बात—जो पुरुष दोष कह रहा है उस पुरुषने बचन मानसे दोषवा ही तो प्रहण किया । मेरे शरीरमें कोई बाधा तो उसने नहीं दी । न डंडोंसे मुझको मारा । वह तो अपनी ही जगह सज्जा है, वह तो मेरे पास भी नहीं आया, ऐसा जानकर उसको क्षमा करना चाहिए ।

अब आठवीं बात सुनिये—कोई पुरुष शरीर पर बाबा भी कर दे तो वह सोचना चाहिए कि यह शरीरको कुछ पीट ही तो रहा है, प्राणोंका विनाश तो नहीं कर रहा है । ऐसा ही जानकर क्षमा करना चाहिए ।

अथवा अंतकी बात देखो—कोई मनुष्य मेरे प्राणोंका विनाश भी करता है तो भैया ! वह प्राणोंका विनाश ही तो करता है। मेरी रत्नत्रय भावनाका विनाश तो नहीं करता है। मेरा जो कल्याण पंथ है, समताकी परिणति है उसको तो हमसे नहीं छीन पाया है। मेद रत्न त्रय और उभय रत्नत्रयकी भावनाका विनाश तो नहीं करता ऐसा जानकर सर्व तत्परताके साथ, अपने समस्त प्रयत्नोंके साथ प्रत्येक जीवको क्षमा ही करन, चाहिए। सर्व प्रकारकी चिंता छोड़ना ही चाहिए जिन्हें शांति चाहिए, इस बातका वर्णन इस दोहे में कर रहे हैं।

जोइय चिति म किंपि तुहुं जइ बीदउ दुक्लस्स ॥१८॥

तिलतुसमिति वि सलतावा वेयण करइ अवस्स ॥१९॥

हे शोधी ! तू यदि दुःखोंसे धिर गया है तो तू कुछ भी चिंता मत कर तिलक भूसेके बराबर भी शल्य होगी तो वह वेदानाको ही करती है। अब सर्व प्रकारकी चिंताएँ न रहें इसका उपाय क्या है ? जब ऐसी स्थिति है कि कुछ धंघा भी चाहिए। घरके सब काम भी करने चाहते हैं, सर्वप्रकार की धोखेबाजियाँ आयी हुई हैं, इनसे भी परेशानी हो जाती है, सदकी कषाय जुदा जुदा है, किस किसकी कषायको संभालते फिरे। बहुत बटिन बात है। अब ऐसी स्थितिमें चिंता न करें तो ऐसे में भी कुछ औषधि है क्या ? जूसकी अषिय छूषि संतोनि एक ही बदायी है वह है भद्रविद्वानका दृढ़ करके किसी भी क्षण इतना अपने आपको सतर करले कि यह में आत्मा सबसे निराकार हूं। इसका किसीसे रंच सम्बन्ध नहीं। यह अद्वितीया, अकेला रहेगा, अकेला ही परिणमता है, ऐसा अपने आपके अकेलेपन का व्यान हो जाय तो उस क्षण तो सब चिंताएँ दूर हो ही जाएं।

संया ! क्या दुःख है ? इच्छा विशुद्ध किसी परमदार्थके परिणमने का ही तो दुःख है। और दुःख क्या है, अमुक यों नहीं हुआ। नहीं हुआ न सही, इनना साहस बना ले तो दुःख बहुत हो जाय। इस लंडके ने ऐसा क्यों नहीं किया ? दुःख क्यों भाना कि उस लंडक पर हुम अपना स्वामित्व मानते हो। यह मेरा बशा है फिर भी ऐसा नहीं चलता है। तो जैश सम्यग्दृष्टि करिये कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्ता रखते हैं, वह आलक भी अपनी सत्ता रखता है। उसने जो कुछ अपनेमें किया उसने अपने कषायके अनुकूल परिणमन किया। सबी दृष्टि बनाली जाय तो अभी क्षोभ कम हो जायेगा और कदाचित बहुत बहुत कोई उत्टा चले तो हुम उत्टे न हिस्मत बनायो, अथवा सबसे उपेक्षा करके त्यागमार्गमें आओ। सो अपने

करने योग्य जो काम है उसे करना नहीं चाहते और दूसरे जीवोंपर स्वामित्व दुष्कृति करके संक्लेश कर रहे हैं।

सर्वदुःखोंके नष्ट होनेकी एक ही आवश्यि यह है कि सबसे न्यारे केवल ज्ञानस्वरूप अपने आत्माको अनुभवमें उतारो। यह आवश्यि यि ए विना जाहरी कितने ही उपाय बना लो पर सफलता नहीं मिल सकती। तो हे योगी ! तू बदि दुःखोंसे डर नया है तो रंच भी विना मत कर। जगत् में कितने ही प्रकारके दुःख हुँल हैं जो सहे नहीं जा सकते। उसका कारण यह है कि यदि सारा जगत् परहृष्टिकी जीवपर बना हुआ है। जरा अपने आरक्षे आत्माके स्वरूपको देखो—यह अविकार शुद्ध ज्ञायकर्षरूप है। स्वभावकी हृष्टिसे देखो। वर्तमानमें यह कैसा परिणम रहा है, इतनी हृष्टि को गौण करके इस आत्माका स्वधाव कैसा है ? इस पर निगाह करक अपने ज्ञाननंदस्वरूप निराकुल ऐसा स्वधाव है पर जैसी ही भूल की अपने आपमें संतोष न पाकर, जैसे ही बाहरकी ओर हृष्टि की कि बस उसमें अशांति उत्पन्न हो जाती है।

पारमार्थिक निश्चय सुखके प्रतिपक्षभूत जो नारक आदिक हुँख हैं उन दुःखोंसे कुछ डरते हो तो हे योगी ! हुम रंच चिंता मत करो। जिल के तुसके घरावर भी यदि शल्य होगा ? तो वह बाधा को अवश्य करेगी। तब अपना चिंतारहित स्वरूप देखकर और ऐसे अपने निर्दोष स्वरूपमें विपरीत विषय-कथाय आदिककी चिंताओंको छोड़कर उन समस्त चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। जैसे किसी बाएका रंच मात्र भी प्रवेश हुँखका कारण है, हसी तरहसे किसी प्रकारकी चिंता शल्य भी दुःखका कारण है। जैसे शरीरमें कोई कांटा चुम जाय तो शल्य रहती है। इतना बहुतो शरीर और पैरमें छोटासा कांटा चुम जाय, जो मुश्किलसे भी आंखों दिखे तो भी कितनी चेदना होती है। ऐसे ही जिसके चित्तमें किसी भी प्रकारकी शल्य हो, चिंता हो, ममता हो तो उसकी हुँख ही होता है।

मोक्षु म चिंतहि जोइया मोक्षु ण चितिउ होइ॥ १८८॥

जे ग शिवद्वउ जीवउ मोक्षु करेसह सोइ॥ १८८॥

हे योगी ! अन्य चिंताकी तो बात क्या ? मोक्षकी भी चिंता मत करो। किसको कह रहे हैं ? जिसकी सर्वचिंताघोषे छोड़नेकी बात होती है उसे कह रहे हैं। जो साधु पुरुष घर त्यागकर आत्मसाधनके लिए उद्यत हैं उनको कह रहे हैं कि तू इस ज्ञानस्वरूपको निहार-निहारकर उप्त रह, सुखी रह। ऐसी भी चिंता मत कर कि मेरे कर्म छूटें और मोक्ष मिले। अरे कर्म तो छूटेगे ही और मोक्ष तो मिलेगा ही। मोक्ष प्रार्थनासे नहीं

मिलता है। मोक्ष तो करनीसे मिलता है। जैसी करनी करने से मोक्ष प्राप्त होता है वैसी करनी करो तो मोक्ष मिलेगा, प्रार्थनासे मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। चिंता करनेसे मोक्ष नहीं होता है। चिंता तो चिंताकी इच्छाके त्यागसे ही होता है। रागादिक समस्त चिंताओंसे रहित केवल ज्ञानादिक अनन्त गुणोंकी प्रवर्तना सहित जो मोक्ष है, वह मोक्ष चिंताके त्यागसे ही होता है।

जिन मिथ्यात्म आदिक चिंता समूहसे कर्मोत्पत्ति होती है जिनसे यह जीव बँधा है उन कर्मोंको वही जीव दूर करेगा। जो समस्त कर्मोंके विकल्पोंसे रहित जो शुद्ध एक ज्ञायकस्वरूप है, उस स्वरूपमें जो स्थित है ऐसे परम योगीश्वरोंको मोक्ष मिलता है। प्रार्थनासे चिंतासे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्षका घ्येय सबका होना चाहिए। घाहे साधु हो और घाहे गृहस्थ हो, इस जगतमें खल-खल करके तो कुछ नफा न मिलेगा। एक शरीर पाया, उसको छोड़ा, दूसरा शरीर पाया। इस तरह शरीरके छोड़ने से और नये शरीरके पानेसे कुछ लाभ न मिलेगा। आज मनुष्य है, कल और कुछ हुए, फिर और कुछ हुए, इस तरहसे बनते, बिगड़ते आज तक चला आया है। अच्छा परिवार मान लो आज मिल गया तो क्या हो गया? क्या सदा रहेगा? घन सम्पत्ति आज मिल गए तो क्या हो गया? क्या घन सम्पत्ति सदा रहेंगे? अपने आपके कल्याणके लिए कुछ महत्व पूर्ण विचार करना चाहिए। मोह ममतासे तो विगड़ ही होगा।

भैया! महाब्रत लेनेका सामर्थ्य नहीं है तो घरमें रहो, घर छोड़ने की बान नहीं कही जा रही है और मोह ममता छूट सके तो बहुत ही अच्छी बात है। घरमें रहो, पर सत्य-सत्य समझलो तो घरमें रहकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। घर गृहस्थी तो जब तक बनी है तब तक बनी है, मोह करें तो, न करें तो। ऐसा तो नहीं है कि बच्चेसे मोह करें तो वह दुबला न होगा और मोह न करें तो वह दुबला हो जायेगा। अरे उसे दुबला होना है तो वह दुबला हो ही जायेगा, उसे आप मस्त नहीं कर सकते। जो है उसके जाननहार रहो और यह जानते रहो कि मेरा स्वरूप मेरेमें है और परका स्वरूप परमें है। ऐसा देखते रहो, तो घरमें रहो तो भी मोक्षमार्ग तुम्हें मिलता रहेगा।

यदि ममता न छोड़ी, ममता बनाए रहे तो उस ममताके होनेके कारण आपका दूसरेके प्रति ऐसा व्यवहार होगा, जो कभी अनवन हो जायेगी। घर विशेष ममताके कारण विचित्र हो जायेगा, कभी दुःखमय वातावरण छा जायेगा। तो घरमें भी सुख न मिला और मोक्षका मार्ग

भी गया। खूब सोचलो ज्यानसे। खुदके करनेकी बात तो खुदमें करने वात है। किसीको दिखाकर करने की नहीं है। अपने मनमें सोचो और देखलो खूब कि ममत्व करनेसे, परवर्षतुमें अहं बुद्धि करनेसे कोई बात पूरी नहीं पड़ सकती है। सो उन परमयोगीश्वरोंको यह शुद्ध आत्मस्वरूप का अद्वान, ज्ञान और आचरण करनेसे मुक्ति होगी। यह मोक्ष क्या चिंता करनेसे होगा? मोक्षका तो स्वरूप चिंताओंसे रहित है। चिंतारहित पद कहीं चिंता करनेसे मिल सकता है? चिंताओंसे तो चिंता ही मिलेगी। इसलिए चिंतारहित मोक्षको पाना हो तो चिंताओंको दूर करो।

भैया! बैठे ही बैठे अपना दुःख चौगुना भी बढ़ाया जा सकता है और अपना दुःख आधा भी किया जा सकता है। यह सब हमारे ज्ञानकी तारीफ है। ऐसी कल्पना करने लगें जो मोह और समता बढ़ाने वाली हैं तो जो हमें थोड़ासा भी दुःख है वह भी अठगुना कर डालेंगे। एक महसूस करने से ही तो आत्माका स्वरूप बनता है। समता होनेसे दुःख महसूस होता है, और घरके लोगोंसे, पड़ौसके लोगोंसे दुःखोंका निवारण भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी दुःखमें अगर ज्ञानमावना बनाएं, अपना ज्ञान सही बनाएं तो समझो कि दुःख दूर हो गया। दुःख दूर दूसरेकी प्रार्थनासे नहीं होता। दुःखका दूर होना किन्नी पर उपर्यायोंसे नहीं होता। दुःख दूर होगा तो अपने आपके उपर्योगको शुद्ध करने से होगा। ऐसा सही निर्णय बनाए रहो।

उदय पुण्यकर है तो लक्ष्मी आंगनमें वरषती है, पर लक्ष्मीमें यदि ममता परिणाम कर लिया तो पुण्य भी खत्म कर डालेंगे। पुण्य न ठहर सकेगा। इस कारण प्रत्येक परिस्थितिमें ज्ञानका सही बनाए रहना अत्यन्त-आवश्यक है। इस जीवको ज्ञा के सिवाय अन्य कुछ शरण नहीं है। यह मोक्ष जिसमें केवल ज्ञानादि अनन्तगुणोंका जो प्रकाश है, रागादिक समस्त दोषोंका जहां अभाव है ऐसा मोक्ष मोक्ष भी मांगसे नहीं मितला, किन्तु निर्देश ज्ञानस्वरूप जो निज आत्म-त्व है उसकी वृद्धिसे स्वयमेव मोक्ष मिलता है। मोक्षकी करनी करें तो मोक्ष मिलेगा और मोक्ष प्रार्थना करके न मिलेगा।

यद्यपि गृहस्थोंको इस पदबीमें मोक्षकी मांग भी धर्म है। सबको जुदा-जुदा परिस्थितियां होनी हैं। जहां घर गृहस्थीमें सैकड़ों फिसाद लगे हुए हैं, राग और चिंताओंसे मन व्यग्र बना रहता है, ऐसी स्थिति वाले गृहस्थ जनोंको मोक्षकी इच्छा होना अच्छी बात है। पर गृहस्थ भी यह जान ले

कि है तो इस समय अच्छी बात, मगर मोक्षकी मांग वाली स्थितिसे भी आगे जब हम बढ़ेगे तब मोक्ष होगा। तो ऐसा यह मोक्षपद अपनी करतूत से मिलता है। अपने ज्ञानको यथार्थ बनाए रहना यह, सबसे महान् पुरुषार्थ है। कभी धन कम हो जाय, हो जाने दो, चिंता मत करो। कोई बिगड़ हो जाय हो जाने दो, कुछ चिंता मत करो। दुःखों का उदय आता है और इन दुःखोंका उदय आता है तो संकट होता है। यह सारा संसार संकटोंसे भरा है। कहाँ बचकर जायेंगे? उदय आता होगा तो आगको यदि इस तरह संकट न मिलता तो और तरह का मिलता। जो कमाये हुए कर्म हैं वे तो उदयमें आयेंगे ही। किसी तरह उदय आये, कहीं उदय आए, उसके ज्ञाता उष्टा रहो, कितनी ही विपत्ति आए, पर समतापरिणाम छोड़ना यह अपना कर्तव्य नहीं है।

यथापि सविकल्प अवस्थामें गृहस्थकी पदवीमें मोक्षकी इच्छा करना अच्छा है क्योंकि उनको विषय कथाय आदिके अपध्यान बहुत लगे हैं। उन अपध्यानोंसे बचने के लिए और मोक्षमार्गकी भावना हुदृकरने के लिए ये सब भावनाएं करना अच्छा है कि मेरे दुःखोंका क्षय हो, मेरे कर्मोंका विनाश हो, मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, मेरा सुगतिमें गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र गुण मुझमें प्रकट हो, मोक्ष हो, ये सब भावनाएं करना चाहिए, किन्तु यह भी ध्यानमें रहना चाहिए कि मैं इन उपायोंसे मोक्षमें बढ़ूँगा तो वह बहुकर जब हमारी समताकी विशेष स्थिति होती जायगी, वहाँ मोक्षकी भी इच्छा दूर होगी, नष्ट होगी तो मोक्ष मिलेगा। वीतराग निर्विकल्प परमसमाधि के कालमें फिर ये सब भावनाएं नहीं रहती हैं। केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव रहता है। अब परमसमाधि क्या चीज़ है? उस स्थितिका बर्णन प्रारम्भ करते हैं।

परमसमाहि महासरहि जे छुब्दहि पइसेवि ।

अप्या थक्कहि विमलु तहं भवमल जंति बहेवि ॥ १८६ ॥

जो कोई मनुष्य परम समाधिरूप महान् सरोवरमें गमन होता है, सर्व आत्माके प्रदेशोंसे अपने आपमें अपने आपको भग्न करता हुआ रहता है, ऐसा आत्मा अपने चिदानन्दहरूप अखण्ड आत्मात्त्वमें दिघर होता है। जो आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित है, अत्यन्त निमंत है उसी पुरुषके यह मल दूर हो जाता है। यहाँ वीतराग परमसमाधि स्वरूप न कहकर पहिला फूल बताया है ताकि ऐसा संस्कार जरे कि श्रोतागणोंको रुचि हो कि सारा भगड़ा छोड़ना चाहिए, और एक आत्माके समता परिणामका आश्रम लेना चाहिए। गम खानेमें, समता करनेमें बहुते गुण

है। सुख शांति तो समतासे ही मिलती है। जिसका ज्ञान निर्मल रहता है वह समतासे चूकता नहीं है, और कदाचित् चूक जाय तो फिर जलदीसे समतामें आ जाता है।

जो पुरुष इस समाधि समताके महान् सरोवरमें खूब अवणाह करके अपने सर्व आत्मप्रदेशोंसे सबमें दूध करके जो परमात्मारूप ठहर जाते हैं निर्मल होकर उन समाधिरत पुरुषोंके संसारके संकट सब दूर हो जाते हैं। क्या चाहिये तुम्हें? हे जीव, हे आत्मन्, सोचो तुम्हें क्या चाहिए? जो इच्छा होगी वह चीज़ मिल जायगी, तब भी संतोष न होगा। जिस चीज़ को बीसों बधोंसे खाते पीते चले आ रहे हैं उसीकी ही इच्छा नहीं मिट रही है, तो इच्छाके करनेसे कहीं इच्छाकी पूर्ति ही सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इच्छाका अभाव करनेसे निर्मल समताका परिणाम प्रकट होता है।

भैया! जहां न तो कर्मोंका मल रहता है, न शरीरका मल रहता है और न मति आदिक विभाव गुण रहते हैं और न मनुष्य तिर्यक्ष आदिक पर्यायें रहती हैं, ऐसा ही वह मोक्षपद है, सर्व प्रकारसे शुद्ध है, किसी भी प्रकारका मल नहीं है। उस आवश्यकताके कारण भूत जितने भी कर्म है, जो निज शुद्ध आत्मस्वरूपसे विलक्षण है, वे सर्व कर्म दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? जैसे काठ पर लगी हुई धूल पानीमें वहा दैनेसे विलुप्त दूर हो जानी है। इसी प्रकार शुद्ध आत्माकी भावनाके उछाट-परिणामरूपी जलके प्रवाहसे यह सारा मल दूर हो जाता है। प्रभुकी भक्ति करो और एक ही मांग रखो कि हे प्रभो! ये कर्म, सर्वविकल्प थे सब मेरे दूर हों। और जब तक यह जीवन है तब तक सुझमें ऐसा बल प्रकट हो कि हजारों भी आपत्तियां आयें तो उन आपत्तियोंसे परे जो निज ज्ञायक स्वरूप है अगवान् आत्मसत्त्व उसके हृषिके प्रसादसे मुझमें दुःख सहनेकी क्षमता पैदा हो।

भैया! दुःखोंसे डर छोड़, दुःखोंका उपाय बना-बनाकर कोई दुःख से दूर नहीं हो सकता है। पर दुःखोंके सहनेकी इपनी क्षमता बनायें तो दुःखोंसे दूर हो सकते हैं। क्या-क्या उपाय करना चाहिए कि दुःख न हों। जिस चीज़का संयोग हुआ है उसका वियोग हम रोक सकते हैं क्या? तो फिर उपाय करें फरके दुःख दूर तुम नहीं कर सकते हो। पर दुःखोंके सहनेकी क्षमता उत्पन्न करके और अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी हृषि बना करके दुःखोंको दूर कर सकते हैं। सो शुद्ध परिणामोंका जल जहांहो और अपने सर्व पाप मलको दूर करो। खूब स्वाध्याय करो और अपने आत्मा

का बोध बनाओ, इससे ही पार होनेका मार्ग मिलता है।

स्यत्वलविद्यपूर्वं जो विलच परमसमाहि भण्ठति ।

तेण सुहासुहमाधदा मुण्डि स्यत्वलवि मेलंति ॥१६०॥

जो निर्विकल्प परमात्मस्वरूपसे विपरीत रागादिक समस्त विकल्प हैं उनका विनष्ट होना इसीका नाम परमसमाधि है। रागादिक भाव न होना इसीका नाम परमसमाधि है। आत्मावा स्वभाव तो रागादिक करने का है नहीं, किन्तु उपाधिका निमत्त पाकर इस आत्मभूमिका में विभाव परिणामन होता है। वह विभावपरिणामन ही असमाधि है, उनका नाश होना सो समाधि है। छहदालामें घताया है कि यह राग आग दृष्टे सदा तात्त्व समाप्त से दृष्टे। यह रागरूपी आग इस जगतको इस प्रकार जला रही है जैसे बनके इवनको आग जला देती है। इस राग आगके बुझानेका उपाय मात्र ज्ञानरूप मेघोंकी वृष्टि हो जाना है। इस जीवका उद्धार ज्ञानसे है, कमायीसे नहीं है, नाना विकल्पसे नहीं है। सबसे निराले केवल ज्ञानम त्र अपने आपको निरसना यही शांतिका उपाय है। सारा जगत दुःखी हो रहा है। उसका कारण है कि परकी ओर हृष्टि है। रागभाव बना हुआ है।

भैया ! कितने खेदकी बात है कि रहना कुछ नहीं है पर राग छोड़ा नहीं जाता है। कुछ दिनोंमें सब कैसला हो जाना है, वियोग हो जाना है पर राग नहीं छोड़ा जाता। यह रागरूपी आग इस सारे जगतको जला रही है, इसलिए समतारूपी अमृतका सेवन करना उचित है। उस ही समताको परमसमाधि कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञदेव रागादिकके अभाव को परम समाधि कहते हैं। आत्मा निर्विकल्प ज्ञायकस्वरूप है, उससे प्रतिकूल ये समस्त विकल्प हैं, इन विकल्पजालोंके अभावका नाम परम-समाधि है। इसी कारण परम आराध्य जो आत्मतत्त्व है उसके ज्ञानसे मुनिजन्म, तपस्वीजन सर्वप्रकारके शुभ अशुभ भावोंका परित्याग करते हैं। देखो अपना परमपिता अपने आपमें ही बसा हुआ है, किन्तु उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। सो उसका प्रसाद नहीं मिल सकता। अथवा यह ही जीव तो खुद परमपिता है, शरण है, परमात्मस्वरूप है, किन्तु इसका ज्ञान न होनेसे यह गरीब बना फिर रहा है।

इस स्वयम्भके दर्शन करने की यह पद्धति है जो इसका सहज स्वभाव है, उस स्वभावका उपयोग करना यह उसके दर्शनका उपाय है। सो अपने आपमें इस प्रकारका दर्शन तो करना नहीं चाहते और बाहरमें दूसरी जगह इन चर्नचक्रुर्वोंको गड़ाकर परमात्माको पहिचालना चाहते हैं तो कैसे

पहिचान सकते हैं ? जो परमात्मस्वरूप है सो ही यह आत्माका स्वभाव है। अपने आपके ज्ञायकस्वभावका लक्ष्य किए बिना परमात्मस्वरूपका दर्शन नहीं हो सकता। कोई पिंडरूप जगतका कर्ता परमात्मा फिर नहीं रहा है कि जैसे यहां के लोग मिलते हैं तो लोगोंको दर्शन हो गया। तो कहीं परमात्माका भी दर्शन हो जाय, यों नहीं होता। समवशरणमें विराजमान् जिनेन्द्रियेके भी कोई दर्शन करता हो तो भले ही उस मुद्राके शरीरके दर्शन करतें किन्तु अपने आप ज्ञायक भावका जोर लिए बिना परमात्मा का वास्तवमें क्या स्वरूप है, उसकी परख नहीं हो सकती। इसलिय जिन्हें परमात्माके दर्शन करना है उन्हें अपने आपके आत्माके स्वभावका परिचय करना बहुत आवश्यक है।

अपने आपको सहजस्वरूप रूप निरख लेना, यह परम आराध्यान है। चरित्र तो स्वरूपाचरण है, और उसही स्वरूपाचरणकी प्रगति के लिए अणुब्रत, महाब्रतस्तुप व्यवहार चारित्र पाला जाता है। यह स्वरूपाचरण चतुर्थ गुणस्थानसे प्रकट होता है और सिद्ध होने पर भी बना रहता है। पर चतुर्थ गुणस्थानका स्वरूपाचरण प्रतीतिस्तुप है और इससे ऊपरके गुणस्थानोंका स्वरूपाचरण हटताको लिए हुए है और प्रभुमें स्वरूपाचरण प्रकट पूर्ण स्वच्छ विशाल रूप है। तो अपने आपका लक्ष्य किए बिना हम परमात्माके दर्शन कर ही नहीं सकते, ये मुनिजन्म संतजन इसी जिए परमसमाप्ताका पालन करते हैं और शुभ अशुभ भावोंका प्रतिकार करते हैं। ये शुभ अशुभ परिणाम शुद्ध आत्मद्रव्यसे उत्टे हैं। शुभ, अशुभ मन, वचन, कायके व्यापारसे यह अपना आत्मस्वभाव दूर है।

मैं या ! वंधनमें फँसा हुआ जीव वंधनसे कैसे दूर हो, उसका उपाय यहां कहा जा रहा है। इस जीविको बहुत वंधन लगे हैं—शरीरका वंधन, कर्मोंका वंधन, विभावोंका वंधन, मन, वचन, कायकी क्रियाएँ हो रही हैं। विकलप भी रहा है, ये सारे वंधन ही तो हैं। तो वंधनसे दूर होनेका प्रथम उपाय यह है कि यह तो समझमें आये कि मेरा स्वभाव वंधनरहित है। यदि अपने स्वभावको ही वंधनसहित मान लिया तो वंधनसे छूटने का किए उपाय कहांसे मिलेगा ? मैं आत्मा स्वभावहृष्टिसे वंधनरहित हूं। आत्माके सहज स्वभावका परिचय एक बड़ी स्फूर्ति पैदा करता है। ऐसा ज्ञानस्वभावरूप आत्मतत्त्व है। उसका आश्रय करनेसे ये समस्त रागादिक विकल्प दूर होते हैं।

मैं या ! अपने को असली शरण मिल जाना चाहिए। हम इस लोक में जिन-जिनकी ओर मुँह ताकते हैं, अपनी शरण मानते हैं वे कोई पदार्थ

वास्तवमें मेरी शरण नहीं हो पाते। प्रथम तो ये बाध्य चेतन अचेतन पदार्थ जिसको शरण मानकर निकट पहुंचते हैं वे अनुकूल नहीं परिणामते, प्रतिकूल परिणामते हैं। तब शरण क्या मिलेगा और कदाचित् अपने कुटुम्बके पुरुष ? मित्रजन मेरी इच्छाके अनुकूल परिणाम जायें तो अपना राग बढ़ा-बढ़ा कर खुद अशरण हो जाते, शरण कहाँ मिलती। इस जीव को शरण चाहिए ऐसी, जो कभी घोखा न दे, सदा साथ रहे, वह इस लक्ष्यको लेकर निगाह करते जाहिए। हमें वर्तमान परिस्थितिमें क्या करना पड़ता है यह बात तो अलग है, चल रहा है ऐसा पर अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम किसकी शरणमें पहुंच जायें तो उससे घोखा न हो और सदा साथ रहे। घोखा उनसे होता है जो विनाशीक हैं। विनाशीक पदार्थोंकी शरण गहरा परमार्थ शरण नहीं है। जो चीज मिट जाती है उसकी शरणमें जायें और वह चीज मिट गई तो आकुलता होगी हम विनश्वर वस्तुओंका क्या शरण गहे ?

यथोपि उन विनश्वर वस्तुओंसे भी इस गृहस्थ पदधीमें काम पड़ता है, गृहस्थावस्थामें अन्य वस्तुओंके संघर्ष विश्राह दिये बिना गुजारा चल ही नहीं सकता। वे जितने भी पदार्थ हैं सब बिनाशीक हैं। इन विनाशीक वस्तुओंके संभालने और अपनी पोजीशन रखनेका क्या ल्याल करें, ये स्वयं मर मिटने वाले पदार्थ हैं। इनकी आशा रखना, शरण रखना व्यर्थ है। तब इस जगत्में हम किसकी शरण गहे ? जो विनाशीक न हो। तो भावै विनाशीक तो सिद्ध नहीं है। वह कभी भी अपनी अवधारा न बदलेगा जैसा है तैसा ही रहेगा। ठीक है वह तो विनाशीक नहीं है किन्तु यह प्रभु और उनका उपयोगी यह मैं उनमें एकरूप तो नहीं हो सकता। वह आदर्श है परमशरणके पास पहुंचने के लिए। उन अरहंत सिद्ध प्रभुके स्वरूपको ध्यान करके हम अपने आपमें अपनी शरण गह सकते हैं, पर वह मेरा कुछ सुख दुःख बना दे, दुःखसे छुटाकर अपने पास पहुंचा दे, सो नहीं कर सकता है।

सूर्यका काम मार्ग दिखा देना है, पर किसीका हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती चला देना सुर्यका काम नहीं है। कहीं अपना छाता झूल आए किसी दुकान पर और आगे चल दिये और दूसरेका छाता दिख गया तो उस छातेको देखकर स्मरण हो आया कि छाता यूल गए हो, इतना तो काम हो गया पर यह तो नहीं हो सकता कि वह छाता जाकर उस अपने छाते को हो आये अथवा तुम्हें लपेटकर दुकान पर छाता लिया ले आए, वह खुद आयेगा, दुकानदार गलूबड़ हुआ तो कुछ मिडेगा भी और

लायेगा। ये प्रभु पदार्थ कल्याण मार्ग दिखानेके लिए आदर्श हैं, पर हम मार्ग पर न चलें तो प्रभु हमें हाथ पकड़कर उद्धार न कर देगा। मोह हमें ही छोड़ना होगा तब उद्धार होगा। रागद्वेष मोह हमें दूर करना होगा तब उद्धार होगा।

अहो किसी क्षण कमरेमें बैठे हुए, दुकानपर बैठे हुए, किसी धर्म कार्यमें रहते हुए यह ध्यान तो हो जाय कि समस्त पर सत् है, किन परका विकल्प करते हो? अपने आपमें विराजमान् जो सहज स्वरूप है उसकी दृष्टि ही जाय तो वे क्षण घन्य हैं। असली कमायी यह है। बाकी तो जिसे कहते हैं कोयतेमें काला हाथ करना। और वास्तविक कमायी तो जितना अपने स्वरूपके निकट वस सकें और उस स्वरूपकी उपासनासे, परमात्मा की उपासनासे, अपने स्वरूपके स्पर्शसे जितना आनन्द पा लिया, आनन्द से तृप्त हो लिया, निराकुल हो लिया उतनी तो कमायी है, उतने क्षण सफल हैं और बाकी चाहे किसी भी बातमें हम बुद्धिमानी समझें, वैभव जोड़ लें, इज्जत बढ़ा लें, मगर यह अपनी कमायी नहीं है।

मैया! अपने को लाभ तो रत्नत्रयसे प्राप्त होगा। यह वैभवका प्रसंग, वेतन अचेतन परिमहका संग वे कुछ भी लाभ न देंगे। इस कारण जितना हो सके, यत्न करें तो अपने ज्ञानके स्पर्शका करें। जैसे कोई पुरुष नीचेसे ऊपर आना चाहता है तो सीढ़ियोंसे चढ़कर आता है तो सीढ़ियों का आश्रय लेता है पर उसकी दृष्टि रहनी है ऊपर आनेके लिय। सीढ़ियों को समझो व्यवहार और ऊपरको समझो निश्चय। दृष्टि रहती है निश्चय की और प्रवृत्ति चल रही है व्यवहारकी। यही है ऊपर आनेका तरीका। ऐसी ही बात कल्याणमार्गगामी पुहारोंके होती है कि दृष्टि तो रहती है उनको अपने शुद्ध आत्माकी, मैं यह हूँ और उस आत्मस्वभावके दर्शनकी धूमें जितनी भी प्रवृत्तियां करते हैं वे हैं व्यवहारधर्म।

मैया! यह चीज व्यानामें न हो कि हमें क्या बनना है तो हम बनेगे क्या? हमें सिद्ध बनना है मानो तो हम बनेंगे क्या? हमें सिद्ध बनना है मानो तो सिद्धका अर्थ है केवल। अर्थात् खालिस आत्मा रहना है। केवल खालिस आत्माके रहनेका नाम सिद्ध परिणति है। इस आत्माके साथ संयोगमें बर्तमान समवायमें कर्म हैं, शरीर है और रागादिक परिणाम हैं। केवल नहीं है इस समय और बनना है हमें केवल, खालिस पाने सिद्ध तो हम अपने आपमें इस केवलका भी कुछ स्वरूप है, यह ज्ञात न होतो केवल बननेका यत्न कैसे करेंगे? तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही तो हमें स्वाद जितता है। हम कहां हैं वह तो ठीक है, परिस्थिति केसी है

यह भी ठीक है, किर मी हमारा जहां लक्ष्य होगा, उष्टि होगी, उसके अनुरूप अनुभव होगा ।

एक बार बादशाहने बीरबलको नीचा दिखानेके लिए कहा कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि हम तुम दोनों चले जा रहे थे । रास्तेमें पास ही पास दो गड्ढे मिले । एक गड्ढा था शक्करका और एक था गोबरका । सो तुम तो गोबरके गड्ढेमें गिर गए और हम शक्करके गड्ढेमें गिर गए । बीरबलने कहा, 'महाराज, ऐसा ही तो स्वप्न हमें मी आया, पर इससे आगे थोड़ा और देखा कि हम तुम्हें चाट रहे थे और तुम हमें चाट रहे थे । अब यह बतलाओ कि बादशाहको क्या चाटाया ? गोबर और खुदने क्या चाटा ? शक्कर ।

तो यों समझ लीजिए कि हम गोबरके गड्ढेमें हैं । आरम्भ परिग्रह सम्बन्धी सभी कार्य करने पड़ते हैं पर उस गृहस्थका लक्ष्य यदि परमात्म स्वरूपकी और हो, उसकी ही धुनि बनी हो, तो उसके स्वादका आनन्द आयेगा और कदाचित् वाह्यपदार्थोंका त्याग भी कर दें और अन्तरमें उन ही वाह्य पदार्थोंके अहणका विकल्प रहे, जिस घरको छोड़ा उस घरकी स्वधर रखें तो परिस्थिति उसकी शक्करके गड्ढेमें पड़े रहनी जैसी है किन्तु स्वाद के रहा है गोबरका ।

इस दोहसे यह शिक्षा मिलती है कि समस्त परपदार्थोंकी आशा से रहित जो निज आत्मद्रव्यका स्वभाव है उससे विपरीत जो नाना प्रकारकी आशाएँ हैं इस लोककी और परत्रोककी, उन्हें जब तक मनमें ठहराता है तब तक यह जीव दुःखी है । ऐसा जानकर समस्त परद्रव्योंकी आशा से रहित जो निज शुद्ध आत्मस्वरूप है उसकी भावना करना चाहिए । देखो यह सारा जगत् आशारूपी पिशाचके गड्ढेमें पड़ा हुआ कितने कठिन दुःख सह रहा है । आशा छूटे तो क्लेश छूटें । आशा बनी है तो क्लेश ही क्लेश रहेंगे । जिनकी आशा दूर हो गयी है उनके समस्त क्लेश दूर हो गए हैं । यहां परमसमाधिका वर्णन चल रहा है कि जिनके रागादिक विकल्प नहों हैं उनके परमसमाधि प्रकट होती है ।

घोर करंतु वि तव-चरणु स्यथ लिं सत्थ सुणंतु ।

परमसमाहिविविजयउ णवि देवखलै सिज संतु ॥१६१॥

कहते हैं कि तपस्या भी कोई कर ले, समस्त शास्त्रोंको भी कोई जान ले, किन्तु परमसमतासे जो रहित है वह पुरुष शांत शिव शुद्ध अत्माको नहीं प्राप्त होता । तपस्या नाम किसका है ? बास्तवमें तपस्या नाम उस परिणति का है जिसमें किसी भी परब्रह्मस्तुकी

आशा नहीं है और शुद्ध आत्माके अनुभवमें तपन हो रहा है उसको तपस्या कहते हैं। ये बाह्य जो तप हैं बड़े दुर्धर घोर तप उनका भी प्रयोजन यह है कि इस तपस्याके उपयोगसे विषय कषायकी प्राप्ति नहीं हो और हम शुद्ध आत्माके अनुभवमें तप जायें, यह प्रयोजन है। जीवका उपयोग जब अपने शुद्ध आत्मामें केन्द्रित होता है उस समयका प्रतपन एक वाहतुकिक प्रतपन है। लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता है। आत्मा में उपयोग नहीं ठहरता है तो कठिन बात है ना। ऐसी कठिन बातको करले कोई तो यही तो तप है।

मैया ! जो कायर पुरुषोंसे नहीं बन सकता ऐसे कार्यको कर सके उसीका तो नाम है तप। जैसे बाह्य तप द्वारा एसे नहीं किया जा सकता है। प्रतिमायोग वारण, गर्भीमें तपना, अनशन आदि होते रहना, यह हर एकसे जैसे नहीं बन सकता, उससे भी अधिक तप है आशाका त्याग और शुद्ध आत्मस्वरूपकी दृष्टि। यह जो अंतरङ्ग तपश्चरण है यह उससे भी कठिन चीज है। कोई जीव दोनों प्रकारकी बातोंसे तो रहित हो, न तो शुद्ध आत्माका अनुभव हो और न परवश्चुकी आशाका त्याग हो, ऐसी स्थितिमें घोर तपस्या भी कोई करे तो भी बह शिव शांत परमात्मतत्त्वको न देख सकता क्योंकि उनके अंतरंग तपश्चरण नहीं होता।

मैया ! कैसे-कैसे दुर्धर तप हैं ? शृङ्खले मूलके नीचे बड़ी धरघातमें भी ध्यान लगाये रहना, गर्भकि समयमें पर्वत आदिक अथवा मैदानके रथानोंमें गर्भीका आताप सहना और सर्वीमें नवी आदिके किनारे पर जहां कि बड़ी तेज बर्फली हवा चल रही हो निश्चल बैठे रहना और आत्माके ज्ञानसुधा रससे तृप्त होना, ये बातें जिसके पायी जाती हैं उनके तो तपश्चरण अतरंगसे भी है, पर शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं हो और केवल बाह्य तपस्या हो तो जैसी दृष्टि हो वैसी ही तो सृष्टि होती है। केवल इस स्थितिमें परद्रव्य पर हृष्टि है। यह शरीर है, यह मैं हूँ, मैं तपस्या करूँगा तो मोक्ष जाऊँ । औरे कहाँ दृढ़ छाल रहे हो ? एक शुद्ध ज्ञायक-स्वरूपका अनुभव पाये बिना वही सब फिर कार्यकारी हो जाता है। यदि अपने शुद्ध आत्माका परिचय हो जाय तो । न परिचय हो अपना तो यह काम कार्यकारी नहीं हो पाता। परिचय हो जाय तो यह कार्यकारी हो जाता है।

जैसे पूजन करने वाले बहुत होते हैं जो कि सुचह ठंडमें न होते और संदिर्में घंटोंका समय पूजनमें बिताते बाहरमें सबका एकसा उद्योग है, समय भी लंगाते, द्रव्य भी चढ़ाते, सारे काम उसी प्रकार होते रहते

हैं। पर उनमें जो पूजाका लक्ष्य समझते हीं, प्रभुका स्वरूप जानते हीं, अपने हितकी बात समझते हीं, उनको पूजनका वास्तविक फल मिलता है और जिसको न प्रभुस्वरूपका पता है, न आत्मस्वभावका पता है और कर रहे हैं उसी तरह सब काम। उनके बारे बाह्य दृष्टिके ही ही रहे हैं, अनात्म बुद्धि करके हो रहे हैं, लो भले ही उस कालमें मंद कथायके प्रनापसे पुण्य बंध होता है, पर संसारके संकटोंसे किस तरह क्लूटकर निकलना होता है? यह मार्ग समझमें नहीं आया है। सो तपश्चरणको कर ले जब तक परमसमाधि नहीं होती है तब तक शिव शांत इस प्रसुस्वरूप को नहीं निरख सकते हैं।

और तपस्याकी ही केवल बात नहीं है, सर्वशास्त्रोंको भी जान लेवें, पर उन शास्त्रोंके मर्मको पहिचाने विना शास्त्रोंको भी पढ़ लें तो केवल उनकी जानकारी एक विकल्प भर है। तात्पर्यका पता नहीं है तो ऐसा पढ़ लिख कर वह परमसमाधिके विना शिव-शांत आरितस्थको नहीं निरख सकता है।

एक सेठ जी थे। जब उनका मरणकाल आया उससे पहिले सब व्यवस्था बनायी और जो गुप्त धन था उसको संकेत भाषामें अपनी बहिर्योगमें लिख गए और गुजर गए। कुछ दिनों बाद सेठ जी के लड़के दरिद्र हो गए। उनके हाथ वह बही लग गई जिसमें लिखा था गड़ा हुआ धन। क्या लिखा था? “कोई दिन—जैसे मान लो माघ बदी चतुर्दशीको चार बजे दिनके सिल्वरमें जो धन गड़ा है उसे खोद कर निकालना।” सो माघ बदी चतुर्दशीको चार बजे शामको वह मविरके सिल्वर पर चढ़ गया और उसको खोदने लगा। तो इतनेमें कोई धर्मग्रंथी नहीं थे तो बोले क्या कर रहे हो? बोला कि सिल्वरमें धन रखा है, पिता जी त्रिलोक गए हैं कि माघ बदी चतुर्दशीको चार बजे दिनके सिल्वरमें धन गड़ा है सो खोद लेना। उसने कहा कि अगर सिल्वरमें धन गड़ा है तो वह कभी भी खोदी तो निकलेगा। माघ बदी चतुर्दशीको दिनके चार बजे ही क्यों निकलेगा? सो वह सोचकर कहता है कि सेठ जी की आँगनमें माघ बदी चतुर्दशीको दिनके चार बजे सिल्वरकी छाया जहां पड़ती है वही धन गड़ा है सो खोद लेना। तो लिखा तो जरूर था कि माघ बदी चतुर्दशीको दिनके चार बजे सिल्वरसे धन खोद ले पर उसका उसने मर्म न जान पाया था। उसका तात्पर्य था कि पौषमें दूसरी जगह छाया सिल्वरकी पड़ती है, सुबह दूसरी जगह पड़ती है, र बजे दूसरी जगह पड़ती है और चार बजे दूसरी जगह पड़ती है। इस जगह पर इस नियत समय पर पड़ती है। सो यही

लिखा गया था ।

सो भैया ! कितने ही शास्त्रोंको पढ़ लें, पर मर्म जाने बिना परम समाधि नहीं प्राप्त होती । परमसमाधि उसे कहते हैं जहाँ किसी प्रकारके रागादिक विकल्प नहीं हैं । आत्माका ढाका तो घिल्कुल स्वाधीन थात है । दृष्टि फिरे तो बड़ा सुगम है और हृष्टि न फिरे तो बड़ा दुर्गम है । जैसे कोई वच्चेको अपनी गोदमें लिए है और उसरोंसे पूछता है कि वच्चे कहाँ हैं, तो उसे कितना भ्रम थाला कहते हैं ? तो जैसी मुहूरत वहाँ कह सकते हैं वैसी ही मृदगा यहाँ हो रही है कि खुद तो हैं शांत और आनन्द का निधान, किन्तु अपने अपके स्वरूपकी दृष्टि न होनेसे कहाँ कहाँ अपनी शांति खोजनेसे अपनेको शांति न मिलेगी ।

जहाँ रागादिक विकल्प नहीं हैं ऐसी परमसमाधिसे रहित कोई साधु है तो वह ज्ञानदर्शन साधक बाला अपने परमात्मतत्त्वको नहीं देख सकता है । यद्यपि वह अपने ही देहमें स्थित है, लेकिन पर हृष्टि होनेके कारण उसे नहीं निरख सकते हैं । वह परमात्मतत्त्व कैसा है ? पर उपशम रूप, रागद्वेष मोक्षे रहित वह परमपत्तन है । यहाँ यह तात्पर्य है कि यदि कोई अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको उपादेय मानता है तो अपने आपका केवल स्वरूप जैसा है वैसेको निरखते रहना ही उपादेय है, ऐसा भान्कर उसके साधकरूपसे उसके अनुकूल नपश्चरण करना और उसके परिज्ञानके साधक शास्त्रोंका पढ़े कोई तो परम्पराया मोक्षका साधक होता है और यदि अपने शुद्ध स्वरूपकी उपादेयताकी दृष्टि नहीं है तो उन तपस्याओंसे और उन शास्त्रोंके ज्ञानसे पुण्यबंध तो हो जायेगा, पर संसारके संकटोंसे किस तरह निकला जाता है ? वह मार्यानहीं दीख सकता ।

भैया ! जो निर्विकल्प समाधिसे रहित पुरुष हैं वे अपने स्वरूपको नहीं देख सकते हैं । आनन्द तो स्वयं इस आत्माका स्वरूप है । वह अपने देहमें अवस्थित है । इसी कारणसे जिसका व्याज इस और नहीं है वे इसे नहीं देख सकते हैं । हृष्टि ही नहीं है इस और तो कैसे ही है ? जैसे जो जन्मसे आवा पुरुष है वह सूर्यको क्या देखेगा ? इसी तरह ज्ञानहीन पुरुष, आत्महृष्टि से रहिन पुरुष इस परमात्मतत्त्वको निरख नहीं सकता है ।

विसय क्रसायवि णिवृलिवि जे ण समाहि करंति ।

ते परमपत्तन जोहया यावि आरहय होंति ॥ १६२ ॥

विसय कषायों को मो दक्षकर जो समाधिको नहीं प्राप्त करता । हे

योगी—बह परमात्माका उपासक ही नहीं है। संसारमें यदि कोई संकट है तो वह परहृष्टि है दूसरा कुछ संकट है ही नहीं। किसे कहेंगे संकट? परहृष्टिकी पुट है तो संकटोंका विस्तार है और परहृष्टि नहीं है तो कोई संकट नहीं है। जो पुरुष विषयकषायोंको उत्थानकर परमसमाधिको नहीं प्राप्त कर सकता, वह परमात्माका आराधक ही नहीं है। विषयकषाय अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे विरुद्ध हैं, आत्माका स्वरूप विषय और कषाय से रहित है, ऐसे विषय कषायोंको जो नहीं दलते हैं और मन, वचन कायसे भुल नहीं हो सकते हैं, वे पुरुष निर्दोष परमात्मतत्त्वके आराधक ही नहीं हैं।

मैया! व्यान कैसे जमें? इसके ५ कारण हैं। प्रथम कारण है वैराग्य। कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता। अरे मन, वचन, काम धाला जो राग है वह राग भाव निकले तो चित्त स्थिर रहेगा। बन्ध हैं वे योगी, जिनकी हृष्टि केवल निज सहज ज्ञानकस्थभावकी ओर हो। आत्मस्वभावकी हृष्टि और अनुभूतिके प्रतापसे जिनको पचेनिधयके विषयोंमें राग नहीं रहता है, ये विषय जिनके नीरस हो जाते हैं वे वैराग्यशील पुरुष बन्ध हैं। वैराग्य उसे कहते हैं जहाँ विषय कषायोंके परिणाम न हों और साक्षी आत्मस्वभावका अनुभवन रहे। इसको वैराग्य आ गया, इसका अर्थ यह लगाना कि विषय कषायोंमें राग नहीं रहा और शुद्ध आत्माका अनुभव जग गया। इसीका अर्थ है वैराग्य। राग मिट गया।

मैया! राग मिट गया तो चौबोंका लपेट कहाँ रहा? चौबोंके लपेटनेका कारण तो राग है। सो जब शुद्ध रागरहित ज्ञानकस्वरूपका परिचय होता है तो विषय कषायोंसे निवृत्ति होने लगती है। अन्तरमें हटना और लगना—ये दो काम पड़े हुए हैं। विषयकषायोंसे हटना और अपना जो सहज स्वभाव है उसमें अपना उपयोग लगना। ये दोनों बातें व्यधिए एक साथ होती हैं किन्तु ये बुद्धियुक्त पुरुषार्थ हटानेमें लगें, निषेच में लगें या विविमें लगें। करनेका काम विविहै, हटाना नहीं है। कोई पुस्तक हटा दी, पर व्यवहारमें भी उसने हटाया, आगे किया या अपनी ऐसी किया की। हटाया नहीं किसीको है। हटाना विविरूप बात नहीं है। किया होना, संचरण होना विविरूप बात है। इस रागद्वेषको कैसे हटायें? उपयोग ऐसा बने कि रागद्वेषका आश्रय न ले, सो रागद्वेष हट गए। तो प्रथम कारण तो है वैराग्य, विषयकषायकी निवृत्ति, शुद्ध आत्मतत्त्वका

आनुभव, ध्यानका कारण वैराग्य है। चित्त न ला ना ध्यानमें, अकिमें, आत्मचित्तनमें तो समझो कि वोई राग बैठा है। राग न हो तो सहज उपभोग बने।

ध्यानका दूसरा कारण है तत्त्वविज्ञान। कोई कहे कि वैराग्य भी हमारा कैसे बने, शुद्ध आत्माका अनुभव कैसे बने? तो दूसरा कारण बताया है तत्त्वविज्ञान। पदार्थका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप रूप जानना, लो तत्त्व विज्ञान हो जाय बस यहीं तो वैराग्यका हेतु है। जान लिया चेतन चेतन है, जड़ जड़ है, प्रत्येक सत् स्वतंत्र है, किसी अन्य सत्का किसी दूसरे सत् पर कोई परिणमन नहीं होता। निमित्त अवश्य होता है। विकृद्ध परिणमन, विभावरूप परिणमन का निमित्त पाये बिना नहीं होता। न हो कोई निमित्त तो इस द्रव्यको यह अटकी नहीं है कि मैं तो बहुन बुरा ही परिणमूँ। जैसा सहज मेल है वैसे यह परिणम जाता है। तो उस शुद्ध आत्माके अनुभवरूप वैराग्यके लिए आवश्यकता है तत्त्वविज्ञानकी। तत्त्वविज्ञान वहीं वास्तविक है जहां शुद्ध आत्माकी उपलब्धि हो रही हो।

ध्यानका तीसरा कारण है निर्ग्रन्थ अवस्था। कोई परिश्रह न हो तो उसका चित्त समाधानरूप रह सकता है। चौथा कारण है चित्तका वश कर लेना। यद्यपि तत्त्वविज्ञान हुए बिना चित्त वशमें नहीं होता, नाना विकल्पोंमें उल्लभता रहता है, किर भी बाह्य कारण ऐसा सद्यमपूर्वक पहली पदबीमें मिलाया जाता है कि जिससे तत्त्वविज्ञानका अवसर प्रकट हो। तत्त्वविज्ञान हो जाने पर तत्त्वविज्ञानी जीव अपने आपसे जनता को मापकर, साधारण जनको उसी प्रकार निरखकर, अपना प्रथम जैसा उपाय नहीं बताकर, प्राक् पदबीकी विधियोंका उनके लिये निषेध करे तो बात यों नहीं बनती।

अच्छा, इस तत्त्वविज्ञानी जीवने पहिले क्या किया था? कोई अवस्था ऐसी होती है कि ऊपरी कुछ विकेक होनेपर साधनोंको जुटाना है। किर कोई अवस्था ऐसी होती है कि वह साधनोंमें साधारणतया रहता है और उपादानकी ओर दृष्टि रखता है। और बड़ी अवस्था हुईं तो बड़ी अवस्था पा लेने पर यह माप न करो कि सभी जीवोंका शुरुसे यहीं उपाय हो। भिन्न-भिन्न पदविधियोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे ये सब आलम्बन बलते हैं। पर परिपक्व अवस्था वहां होती है जहां प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत् न जर आने लगते हैं। ऐसा होने के लिए उसे परिषह विजयी भी होना चाहिए। यह ध्यान का श्वां कारण बताया जा रहा है। आता है उपद्रव,

क्लेश आते हैं, संकट आते हैं उनको सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए तब जाकर ध्यान वास्तवमें बन सकता है। इन ५ कारणोंके बिना ध्यान चलायमान् चलता फिरता रहता है। सो ६न् ५ कारणोंको बैठाकर, अपने आपमें अपनी दृष्टिकी मुख्यता रखकर स्वभावसुधारसका दर्शन करके ऐसा आनन्द प्राप्त करो कि जिसके प्रतापसे भव भवके बांधे हुए कम्ळ क्ष एमात्रमें खिल जाते हैं।

मैया ! कर्मोंको बीज-बीजकर देख देखकर आलग नहीं किया जाता, किन्तु ऐसा निर्मल पवित्राम बने कि जिसके प्रतापसे ये समस्त वर्म अपने आप खिल जाते हैं। यहां परमसमाधिका वर्णन चल रहा है। इस की महिमा गायी जा रही है कि इस परमसमाधिका जो आश्रय नहीं करता वह पुरुष परमात्माका आदावक्ष ही नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इससे शिशा यह लेना कि अपने व्यवहारमें हम समतापरिणाम बनायें। जरा-जरासी बातोंमें क्रोध हो जाना, अहंकार हो जाना, छल क्रपटके परिणाम हो जाना, इनसे तो हुँछ भी लाभ न मिलेगा। ऐसी ढदार दृष्टि जगे कि बाध्यपदार्थोंके परिणामनको निरखकर अपने अंतरङ्गमें विहृतता न उत्पन्न हो। यही है बड़ी तपस्याकी साधना।

परमसमाहि घरेवि मुणि जे परवंसु या जंति ।

ते भवदुक्लहृं बहुविहृहैं कालु अण्टु सहंतु॥१६३॥

जो कोई मुनि परमसमाधिको धारण करके निज दृष्टिमें ठहरे हुए परमन्त्रहको नहीं जानते हैं वे शुद्ध आत्माकी भावनासे रहते होते हैं, नाना प्रकारके संसारके दुःखोंको सहते हैं। मैया ! अपने आपके सहज-स्वरूपकी पहचान की जाय तो संसारके समस्त वक्लेश दूर हो जाते हैं। एक अपने आपक सहजस्वरूपकी पहचानके बिना जो साधु परम समतापरिणामको धरकर व्यवहारिक समतापरिणामको रखकर भी अपने आपक परम ब्रह्मस्वरूपको नहीं जानते वे दुःखोंको ही सहते हैं। इस आत्माका जो सहज स्वरूप है, उसका जो रूपक है, उसका ही वर्णन यदि किया जाय तो कुछ-कुछ सुननेमें ऐसा मौजा खाता है जिसे सर्वव्यापक अविकारी ब्रह्म का स्वरूप देवांतरमें कहा है। परन्तु वही एक ऐसा ही स्वतंत्र सत् नहीं है। जब इसका द्वान करते हैं तब मोङ्क खाते हैं।

समस्त जीव अनन्तानन्त हैं। इस जीवमें स्वभावसे वही स्वरूप पाया जाता है जो सब जीवोंका एक समान है। इस कारण वह अहरुप एक है। संसारमें जीव सर्वत्र पूर्णतया व्यापक है। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां पर कोई जीव न ठहरा हो। तब जब सर्व जीव सामान्य रूपसे

व्यापक हैं तो वह ब्रह्मस्वरूप भी उन्हीं सबमें है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप भी व्यापक है। यों यह ब्रह्मस्वरूप व्यापक हो गया। ये सब जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, परन्तु स्वरूपसे जब देखते हैं तब वह अपरिणामी दिखता है। परिणामन पर्यायमें है, स्वभावमें परिणामन नहीं है। अश्यपि स्वभाव विभाव के द्वारा तिरोहित हो गया है, किर मी स्वभाव अपरिणामी है।

स्वभावको जाननेकी यह तरकीब है कि सम्भावनारूप देखें। जैसे व्यवहारमें कहते हैं कि पानीका ठंडा रहनेका स्वभाव है। अग्निसे गरम हो जाने पर किर क्या पानी ठंडा मालूम होता है? नहीं। पानीका स्वभाव ठंडा है लेकिन जब अग्निके संथोगसे तप्त हो जाता है उस स्थितिमें ठंडा स्वभाव अनुभूत नहीं होता, किर मी स्वभावसे ठंडा ही है। यदि स्वभव ठंडा न होता तो पानी ठंडा कभी नहीं हो सकता है। तो स्वभाव सम्भा वनारूपसे जाना जाता है और वह स्वभावसे अपरिणामी है। चाहे पानी गर्म भी हो तो भी उसका स्वभाव ठंडा ही कहा जायेगा गर्म होने पर भी। इस हृषिसे स्वभाव अपरिणामो हुआ। तो इस आत्माके स्वरूपको जब स्वभावहृषिसे देखते हैं तो वह सब विशेषण इसमें आ जाते हैं और विशेषण वेदांतमें ब्रह्मस्वरूपको कहा गया है परन्तु यह स्वभाव यह आत्मा यह परमब्रह्म जिस रूपसे निरखा जाने पर वह आत्मा सर्व व्यापक एक नजर आया है वह इतना ही सद्भूत नहीं है। उसने स्वभावकी परख की है।

पदार्थ तो यहाँ चैतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य है। इन समस्त चेतनामें जो स्वभाव पाया जाता है उस स्वभावके उपयोगीकी स्थिरताको परम समाविकहते हैं। ऐसे इस परमब्रह्मको जो मुनि नहीं प्राप्त करते हैं वे नाना प्रकारके संसारके दुःखोंको अनन्तकाल तक सहते हैं। जिनकी दृष्टि निर्मल होती है वे यह वर्णन सुनकर और कहकर अपनेमें पक्ष और मलीमसत्ता नहीं उत्पन्न करते। किंतु जोरसे यह कहा जा रहा है इस दौहामें कि 'समता धारण करके भी, परमसमाधिकी धारण करके भी जो परमब्रह्मको नहीं जानते हैं वे नाना भावी दुःखोंको अनन्तकाल तक सहते हैं' तीर्थ तो यह है कि इस अणुत्रत महाव्रतकी प्रवृत्तिको चलाना और इस प्रवृत्तिको चलाते हुए जो जीव अपने स्वभावका परिचय प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान सुधारसका स्वाद लेकर अलौकिक आनन्दसे उम्मीदेते हैं उनका तिरना अवश्य सिद्ध है। अलौकिक तीर्थ यही है, इस तीर्थप्रवृत्ति बिना धर्मका मर्म भी पहचाननेका अवसर नहीं आ सकता।
सो भैया! तीर्थप्रवृत्ति है चतुर्मुक्ती प्रवृत्ति, लेकिन इसमें भी यदि

परमब्रह्म स्वरूपका ज्ञाना होले तो उसके संसारका तिरना आवश्य सिंड हो गया । जो मुनि अपने देहमें ही विराजमान परमात्मस्वरूपको नहीं देखता कैसा है जो परमात्मस्वरूप ? केवल ज्ञानादिक अनन्त गुण स्वभावरूप है । परमब्रह्म शब्दसे बाच्य ऐसे उस परमात्मस्वरूपको जो नहीं जानते हैं वे यद्यपि प्रतिज्ञा कर चुके हैं परमसमताकी, बीतराग तात्त्विक ज्ञानानन्द-स्वरूप अनुभवकी, किन्तु जब शुद्ध आत्माकी भावना ही नहीं है तो वे संसारके दुःखोंको सहते हैं । चीज क्या है कि वस्तुका वस्तुष्व ही सन्दर्भके कारण जैसा उसका स्वरूप हो सकता है वह ध्यानमें आ जाना, इतनी ही बात तो करना है निश्चयके पात्रे के लिए । किर जिसने अपने ऐसे सहज-स्वरूपका बोध किया है वह ज्ञानी पुरुष है और उस ज्ञानीपुरुषके इस सहज स्वरूपके ही बोधकी धुनके कारण जो उसका यत्न होता है चलना फिरना, बैठना-उठना, अन्य और द्रव्य समारभ करना, वे सब अपने लक्ष्यको आधित करके नहीं होते हैं ।

अपने लक्ष्यको आधित न करके प्रवृत्त होना, इसही का नाम शुभो-पद्योग है । तो उस शुशोपयोगमें खालियत है अपने लक्ष्यको आधित न करके होना अर्थात् जिसके अपने सहजस्वरूपका परिचय नहीं है और ऐसे कवलयका जिसके लक्ष्य नहीं है वे पुरुष कर्मक्षयके उपायको नहीं कर पाते हैं । अतः जैसे हम अनेक बातें जानते हैं वैसे ही हम अपने आत्मा को भी जानें । जैसे हम अन्य पदार्थोंको अकेले-अद्वेले जानते हैं, इन स्फंचोंमें बने हुए, समाये हुए एक-एक छणुकी चर्चां कर लेते हैं और वह एक अणु किस प्रकारका होता है ? ऐसी चर्चाएँ जब हम करते हैं तो यह इकला आत्मा कैसा है ? इसकी वृष्टि देना, यह भी एक ज्ञान है और सम्बन्धज्ञानमें सम्बन्धित हो जाती वाला ज्ञान है । उसको जानना परम आवश्यक है, फिर जिसकी जैसी पदवी है, गृहस्थ है, साधु है उस पदवीके अनुसार उसका आचरण चलेगा ।

भैया ! इस ब्रह्मस्वरूपको जाने विना ये नारकादिक दुःख भोगे जाते हैं । नाना प्रकारके जिसमें सांसारिक ब्लेश है, मानसिक करे शा हैं वे सब दुःख इस अपने सहज स्वरूपके ज्ञाने विना भोगे जा रहे हैं । यह आत्म-तत्त्व तो पारमार्थिक सुख स्वरूप है । कहां तो यह स्वभाव शुद्ध ज्ञानानन्दरूप है – शुद्धका अर्थ है ज्ञानगुणका ज्ञानगुणकी ओरसे जैसा जो कुछ होना चाहिए उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान, और कहां कर्म उपाधिका निमित्त पाकर जो विकार परिणाम होता है ऐसा अशुद्ध भाव । सो यह जीव अनन्तकाल पर्यन्त अर्थात् जब तक इसको वेतन होगा तब तक यह जीव

संसारमें दुःख भोगता रहता है यह है—मर्मकी बात ।

इस पदकी स्थिरता करनेके लिए जब कि गृहस्थजन कोइ विद्य कथाओंमें अपना उपयोग बसाये रहते हैं तो उन विद्यकषायोंसे बचनेके लिए, अशुभोपयोगसे जो अपना घात हो रहा है उस घातसे बचनेके लिए क्या बात बन सकती है गृहस्थावस्थामें ? तो कदाचित् कभी शुद्ध स्वरूप की रंच भलक भी हो जाय किन्तु अधिकतर परमेष्ठीका गुणस्थरण, गुरुओं की सत्संगति और और भी परोपकार, दया दान आदिक नामा प्रकारकी शुभ वृत्तियाँ बनती हैं, तो ऐसी शुभ वृत्तियोंमें रहते हुए हम लोगोंका लक्ष्य उस कैवल्य प्राप्तिका होना चाहिए मुनि उसे रहते हैं जो आत्माके कैवल्य स्वरूपका उपासक होे । तो जो गृहस्थ मुनिका उपासक हो उसने अपनेमें कैवल्यस्वरूपकी उपासनाका ही तो माध बनाया ।

भैया ! आचरणमें स शुज्जनोंका आचरण निलेप अधिक रहता है और गृहस्थजनोंका आचरण बहुआत्मवन करते हुए रहता है । परम भावना यह रखनी चाहिए कि है प्रभो ! मैं कब कर्म कलंकोंसे कूटकर राग-द्वेषादिक भावोंसे मुक्त होकर जैसा मेरा स्वभाव है, स्वरूप है ऐसा केवल ज्ञाता दृष्टा कब बन सकूँ, ऐसी अपनी भावना रखनी चाहिए । अपने शुद्ध आत्मतत्त्वमें स्थित होकर राग-द्वेषादिक समस्त विभावोंके त्याग हारा इस स्वभावकी उपासना करनी चाहिए ।

जाम सुदासुहभावदा णवि सवलवि तुहुति ।

परमसमाहित तामु मणि केवुलि एभुभएंति ॥ १६४ ॥

जब तक समस्त शुभ अशुभ भाव नहीं दूटते हैं तब तक मनमें परमसमाधि नहीं होती है, ऐसा केवली भगवान कहते हैं । यह प्रन्थ है परमात्मप्रकाश । इसमें परमात्मतत्त्वका वर्णन किया गया है । अरहंत सिद्ध इवरूपका वर्णन न करके आत्मामें जो स्वभावस्व परमात्मतत्त्व प.या जाता है उसका इसमें वर्णन है । तो जिस प्रन्थमें जिसप्रयोजनको लेकर वर्णन होता है उसका उसी दृष्टिसे वर्णन सुना जाता है । यहां यह कहा जा रहा है कि तुम अपने सहजस्वरूपका कुछ भान तो करो कि मैं अपने सत्त्वके कारण अकेला हूँ कैसा ? यह निर्णय तब तक नहीं होने पाता जब तक किसी भी क्षण शुभ और अशुभ सर्व प्रकारके विकल्प नहीं दूटते हैं ।

साधुजनोंके शुभ अशुभ प्राव दूर होकर स्वानुभवके कारण वह परम-समताको प्राप्त होता है, फिर भी कदाचित् शुभ अशुभ भावोंका संकार अवृद्धिरूप ह अपनी योग्यतासे पड़ा रहता है, पर अनुभवतो होता है उस

का जिसमें उपयोग हो। इस ज्ञानी संतका कर्मोदयके निमित्तसे शुभ भाव भी पड़ा हुआ है संस्कारहृपसें, फिर भी उपयोग किसी-किसी समय उस को प्रहण नहीं करता और आपने शुद्ध ज्ञायकस्वरूपको प्रहण करता है। इस प्रधार गृहस्थके भी अनेक कषाय विद्यामान हैं और उनके उदयमें गृहस्थजनोंकी आत्मासें भी उस प्रकार का विभाव उठता है लेकिन जब वे किसी भी क्षण स्थानुभवकी ओर होते हैं तो उनका भी उपयोग उन कषाय भाष्योंसे विगड़ता नहीं है, परं गृहस्थोंकी यह अनुभूति धोड़े समय को होती है और साधुजनोंकी अनुभूति अधिक समयके लिए होती है, परं वृत्तिविक आत्माका परिचय निज प्रभुताका दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक प्रत्येक पदार्थ सम्बन्धी विकल्प विश्रान्त नहीं होता।

आत्माका कैसा दर्शन करना? क्या आंखोंसे आत्मा ही खेगा? वह तो पद्धति नहीं है, फिर कैसे दर्शन करना? ऐसा उपाय अपने ज्ञान द्वारा बनाएँ कि जब सब पदार्थ आसार हैं, मिन्न हैं, विनाशीक हैं तब उन पर उपयोग देनेसे क्या लाभ है? उनके राग करनेसे क्या लाभ होगा? ऐसा व्यानमें रखकर उन परपदार्थोंके विकल्पको छोड़ो। अपने आप ही यह बन विश्राम पायेगा और वहां आत्माका प्रभुका दर्शन होगा। आत्म-दर्शन करनेकी विधि यह ही है।

जैसे कोई इत्रका फुवा आपको दिखाये कि देखो इत्र कैसा है? तो आप कैसे देखेंगे? आंखें फाड़कर देखेंगे क्या? उसको नाक पर लगाकर देखेंगे। हां मार्द इत्र तो अच्छा है। अच्छा जो मिठाई सबसे अच्छी लगती हो उसका नाम लो। किसी ने कहा (एक लड़का ने कहा) आम अच्छा लगता है। लैर आम ही सही। आम तो मिठाई नहीं, परं मीठा है, जलो किसी ने कहा कि माई देखो यह आम कैसा है? तो क्या कोई उसे आंखें फाड़ फाड़कर देखेगा? औरे उसे तो चूस करके ही देखा जा सकता है। तो आमके रसके ज्ञानेकी पद्धति ही यह है कि उसे चखा जाय। अन्य किसी पद्धतिसे उसका स्वाद नहीं जाना जा सकता है। आपको रसगुल्ला कोई दिखाये कि देखो यह कैसा है जो क्या आप उसे आंखें फाड़काढ़कर देखेंगे? आप तो उसे मुखमें ढाल लेंगे। यदि वह कहे कि वाह इसने तो रसगुल्ला देखनेका तरीका ही यही है। तो उस ज्ञानेकी बीजको देखनेका मतलब खानेसे है। तो कैसा है वह आत्मा? उसे आंखोंसे देखा नहीं जा सकता, हाथों से टटोला नहीं जा सकता, कानोंसे सुना नहीं जा सकता। आत्माके देखनेकी पद्धति ही यही है कि सर्व परपदार्थोंके विकल्पको छोड़कर मनमें

विश्राम लें तो अपने उस ज्ञायकस्वरूपका दर्शन हो जाता है।

भैया ! जिसके जब तक समस्त शुभ अशुभ भाव नहीं छूटते तब तक चित्त रत्नत्रय रूपको प्राप्त नहीं होता। ऐसे परमसमाधि हो जाएँ सकती है, केवली भगवान् ऐसा कहते हैं दुःख सुख, शुभ अशुभ भाव ये मेरे स्वभावरूप नहीं हैं, औपाधिक हैं, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर हुए हैं। मैं तो परम आनन्द स्वभावी हूँ। इसका स्वरूप तो जानन और आनन्द है। उस स्वरूपसे अत्यन्त विपरीत ये रागादिक विकार हैं। सो ये शुभ अशुभ समस्त परिणाम जब तक नहीं छूटते तब तक इसके शुद्ध-पर्योग नहीं होता। परमसमाधि न होनेसे रत्नत्रयरूप परिणामन नहीं होता, क्योंकि इसका मन रागादिक विकल्पोंसे रहित नहीं बन पाता है। मन ही जब आकुलन्याकुल है, रागादिक भावोंसे विरा पड़ा हुआ है तो वहाँ वह परमसमाधिका परिणाम कैसे ठहर सकता है ? इस प्रकार केवल धीतराग सर्वज्ञदेव यह बात कहते हैं कि सर्व यत्न करके अपने आपके इस सहज स्वरूपको तो जान जाओ।

यहाँ तक परमसमाधिका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद अरहन्यपक्षी न्याया करते हैं। चाहे अरहंत कहो, चाहे भावमोक्ष कहो, चाहे जीवनमोक्ष कहो, चाहे केवल ज्ञानमय कहो सब एकार्थक हैं। ये चार नाम अरहंत पदके कहे गये हैं—अरहंत, भवमोक्ष, जीवनमोक्ष और चौथा ज्ञानोत्पत्ति।

सथल विवर्यहै तुझाहै सिशपयमरिग वसंतु ।

कृमचुच्छकश्च विलुप गृह आपा हुइ अरहंतु ॥ १६५ ॥

चारधातिया कर्मांक नष्ट हो जाने पर यह आत्मा अरहंत होता है। कौन होता है ? जो मोक्षपदके मार्गमें वसता हुआ समस्त विकल्पोंको नष्ट करता है। इस जीवके साथ ८ कर्म अनादिसे लगे चले आये हैं। श्रेणीकी अवस्थाको छोड़कर कोई अवस्था देसी नहीं है कि जहाँ आठोंके आठों ही कर्म जीवमें न हों। सिद्ध तो अलग है ही और अरहंत भी चारधातिया कर्मोंसे दूर हैं पर श्रेणीमें जो क्षीण मोह अवस्था होती है, वहाँ पूरे आठ कर्म नहीं हैं। मोहनीकर्मका अभाव हो गया और उसे नौचं सर्वत्र आठों कर्म प्रत्येक जीवमें पाये जाते हैं। उनमें से चार कर्म तो इस जीवके साक्षात् चेतन्यप्राणके बातके निमित्त हैं। आत्मका गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। इस स्वभावका चारधातिया कर्मांक निमित्तसे घात चल रहा है।

यद्यपि मिमिक्ष अपने आपमें अपना परिणामन करता हुआ रहता

है, पर ऐसा ही इस विश्वका निमित्तत्त्वमित्तिक सम्बन्ध है कि उपादान उस रूप योग्य परिणामन वाला है तो उपाधिका निमित्त पाकर वह उस रूप परिणामता है। ऐसे निमित्तत्त्वमित्तिक सम्बन्धमें यह सारा जीव लोक अरनेप्रयत्ने परिणामनको करता हुआ दुखी हो रहा है। सो वे चार घातिया कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तब अरहंतपद मिलता है। इसका नाम है अरहंत। अरहंतका अर्थ है पूज्य। अरहंतके ही लक्ष्यको लेकर प्रायः समस्त वर्षोंने उस प्रभुका स्वरूप समझा और कल्पना की। पर उस वीतराग सर्वज्ञस्वभावकी दृष्टि न रखकर केवल मेरा मालिक है, मेरा ईश्वर है, मेरा पीतम है—इन दृष्टियोंसे जाना। सो मूल हृष्टि छूटकर फिर नाना रूपोंमें भगवान् बन गया।

मैंवा ! भगवान्के नामोंको देखो तो जितने भी भणवान्के नाम हैं वे सब नाम इस अरहंतकी दशाको ही सूचित करते हैं। जैसे अरहंत मायने पूज्य अथवा रागद्वेषादि शत्रुवोंका नाश करने वाले और लोग कहते हैं ईश्वर अर्थात् अपने ऐश्वर्यमें स्वतंत्र, समर्थ। कोई कहते हैं अल्ला। अल्ला शब्द बना होगा अल्यःसे। संस्कृतमें एक घातु है अल्। अल् पूजायां। इसका क्लृप्तं रूप हुआ अल्यः। फिर इससे विगड़ विगड़कर अल्ला हो गया। तो जो अर्थ अरहंतका है वही अर्थ अल्लाका हुआ। वही अर्थ, विष्णु, शिव और राम आदि नामोंका हुआ। तो जितने भी नाम हैं वे सब अरहंत शब्दके बाचक हैं। पर स्वरूप हृष्ट छोड़ा तो भगवान्के नानारूप बन गए। अरहंत स्वरूपकी यहां व्याख्या चल रही है। इसको फिर आगे कहेंगे।

चार कर्मके विनष्ट होने पर यह आत्मा अरहंत होता है। वे कर्म कौनसे हैं ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इनका विनाश होता है तो इस क्रमसे होता है कि पहिले तो मोहनीयका नाश हुआ और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय—इन तीनोंका एक साथ नाश होता है। मोहनीयमें भी पहिले अनन्तानुबंधी चार और मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व, सम्यक् प्रकृति, इन सातोंका नाश होता है। फिर बादमें अप्रत्याख्यानावरण चार प्रत्याख्यानावरण चार, इन आठोंका एक साथ नाश होता है। इसके बाद फिर नयुं सक्वेद हास्यादिक द का नाश होता है। फिर स्त्रीवेद फिर पुरुषवेदका नाश हुआ, फिर संज्वलन क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन, फिर अंतमें जोभ संज्वलन का विनाश होता है। मोहनीय कर्म का तो यों फुटकर क्रमसे नाश होता है। उसके बाद यह आत्मा बारहवें गुणध्यानमें पहुंचता है और बारहवें

गुणस्थानके अंतमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय हन तीन कर्मों का एक साथ नाश होता है। इस प्रकार जब चारधारिया कर्मोंका नाश हो गया तो केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

यह जीव पहिले तो मुनि हुआ, सो मुनि अवस्थामें मोक्षपदके मार्ग में ठहरा हुआ रहा तो उस मोक्षमार्गके अभ्यासमें समस्त विकल्पोंका भिन्नाश हुआ, पश्चात् अरहंत अवस्था हुई। पैचपरमेष्ठीमें सर्व प्रथम अरहंत परमेष्ठीका नाम लिया। यद्यपि सबसे पहिले होते हैं साधु परमेष्ठी। कोई आत्मा सिद्ध न ता है तो सबसे पहिले क्या होता है? साधु परमेष्ठी अथवा साधुओंमें जो विशेष पढ़े लिखे हैं, दूसरेको पढ़ाते लिखाते हैं उनको आचार्य महाराज उपाध्यायका पद होते हैं। आजकल उपाध्याय देखनेमें नहीं आते। क्योंकि उपाध्यायके लिए विशेष ज्ञान चाहिए। जो अंग पूर्वों रूप हैं पर इस समय न अंगज्ञान किसोके हैं और न पूर्वोंका ज्ञान किसी के है। सो उपाध्यायका तो पद तो नहीं रहा। पर उन साधुओंमें जो मुख्य हुए हैं व्यवहारकुशल, सब नीति कुशल, शिष्योंको आत्माका पीछण करा सकें, ऐसी जिनमें योग्यता होती है वे कहलाते हैं आचार्य।

भैया! या तो आचार्य परम्परासे होते हैं। पहिले के आचार्योंने दूषरोंको आचार्य पद दिया, इस तरहकी परम्परासे आचार्य चलते हैं और क्रदाचित् किसी कालमें आचार्योंकी विच्छिन्निति हो जाय वे किसीको आचार्यपद न दे सकें तो चतुर्विंश संघ और उनमें मुख्यनया अमण्डसंघ किसी योग्य समर्थ साधुको आचार्यपद स्वीकार कराते हैं और तबसे आचर्य होते हैं। पर आचार्य, उपाध्याय और साधु ये—तीनों मुनि हैं, साधु परमेष्ठी हैं। वे आत्माका उत्कृष्ट ध्यान करके, सकल विकल्पोंको तोड़ करके केवलज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं।

यद्यपि एक परिपाठीमें आचार्योंने बताया है कि वे अपने ही जीवन कालमें दूसरोंको आचार्यपद देकर और अपने उस व्यवहारसे निष्पृत होकर किसी दूसरे संघमें एक मुनिके रूपमें रहे और अंतिम साधना करे, पर कोई आचार्य ऐसा नहीं कर सकते तो भी ऐसा हृषि भेदविज्ञान होता है कि आत्मध्यान तब भी उनके उत्कृष्ट हो सकता है जिससे वे केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यों दोनों ही प्रकारके व उपाध्याय सहित तीनों ही प्रकारके साधुजन अपने मोहका अर्थन्त क्षय कर लेते हैं। तो अरहंत होते हैं। तो दूसरा नम्बर हुआ अरहंतका, पहिला नम्बर हुआ मुनिका। इस मोक्ष मार्गके विकासके उपायमें इन तीनोंमें परस्परमें भेद नहीं है। व्यवहारकृत भेद है, पर अध्यात्मसाधुओंके इन तीनोंमें कोई भेद नहीं है। साधु,

आचार्य और उपाध्याय—इन सबके बेबलज्जान दत्पन्न हो सकता है। तो पहिला पद हुआ गुरुपद और दूसरा पद हुआ अरहंतका। अरहंत भी केवलज्जानी है और सिद्ध भी बेबलज्जानी है किन्तु सिद्धके निमित्तसे शास्त्रपरिपाठी नहीं चलती। अरहंतदेवके निमित्तसे शास्त्रपरिपाठी चलती है। उनकी दिव्यध्वनि होती है। गणधरदेव फिर उस ज्ञानका और विज्ञास करते हैं। तो इस तरह अरहंतदेवसे शास्त्रपरिपाठी चलती है। इसी कारण अरहंतका नाम आपत है। फिर अरहंत आवस्थाके बाद स्वयमेव समय पाकर अथर्व जब आयुकी अतिम सत्तापितका समय होता है तब वह सिद्ध हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा हुआ सिद्ध। उनके न भावकर्म है, न द्रव्यकर्म है, न शरीर है जब कि उरहंतदेवके द्रव्यकर्म है और शरीर है।

ऐसे प्रभु सिद्धदेव तो सर्वत्रिष्ट है, अन्तर बाह्यसे लिल्कुल शुद्ध आवस्थामें है। परिपूर्ण वशा सिद्ध भगवानकी है, और उनकी सर्वप्रथम आवस्था प्राक् पदवीकी आवस्था परमेष्ठियें गुरुर्खोकी हैं। सो ये महामुनि मोहनीय कर्मवा। इनकरते हैं। इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरणका भी हजन होता है और अन्तरायका भी अभाव होता है तब वह अरहंत होता है। अरहंतका अर्थ है जो पूजनेके बोध्य हो। वे अरहंतदेव देवेन्द्रादिके द्वारा रचे हुए बड़े अतिशयवान् पूजाके पात्र हैं। जिनकी पूजा तीन लोकके सभी इन्द्र करते हैं।

मंड्या ! चाराचातिथा कर्मोंका क्षय करके वे अरहंत देव हुए हैं। इससे पहिली दशा उनके मोक्षपदमें बसनेकी है, मोक्षपदके मार्गमें बसनेकी है। मोक्षमार्ग है सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र। इनमें बसते हुए समस्त विकल्पोंको तोड़ देते हैं और वे साक्षात् प्रभु अरहंत हो जाते हैं। अरहंतकी मक्किसे पाप कट जाते हैं। यदि वीतराग भावके सहित प्रभुकी भक्ति हो, उनके गुणोंका अनुराग हो और उनके गुणोंकी महिमा जानकर अपने आपकी वर्तमान दशा पर पछतावा हो, तो वहाँ तो ही प्रभु का पुण्यानुराग और यह अपने आपकी ओर वर्तमान दशाको देखता है तो आपनी पासर दशापर होता है पछतावा। तो ऐसे पछतावा व गुणानुराग सहित जो एक अपूर्व भक्ति होती है उस भक्तिमें भव-भववे पाप कट जाते हैं। ऐसी तीक्ष्ण भक्ति उन ज्ञानी सत् पुरुषोंके होती है। जिसने आत्माके स्वभावका परिचय किया है और उस स्वभावके अनुरूप प्रभुकी प्रकट छुट दशा है, ऐसा जिन्हें भान होता है उन पुरुषोंके ही प्रभुकी परमात्मक भक्ति होती है। इसी सम्बन्धमें और कहते हैं।

केवलणाणिं अणवरड लोयालोड मुण्ठि ।

णियमे परमाणंदमउ अप्पा हुँ अरहंतु ॥१६६॥

वे अरहंत अब कैसे हैं कि कवल ज्ञानके द्वारा निरन्तर लोक और अलोकको जानते हैं । निरन्तर जानते हैं, एक साथ जानते हैं । जितनी तीन लोक, तीन कालके समस्त द्रव्य और पर्याय हैं उन स्वरूपके ज्ञानी एक साथ जानता है । भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकालके पदार्थोंको प्रभु अरहंत एक साथ स्पष्ट जानते हैं । इसी कारण उषी संतोंने यह बताया है कि भूत भविष्यकी पर्याय हो चुकी और होगी, पर केवलज्ञानके ये समस्त पदार्थ और उनका परिणामन सब वर्तमान है । जैसे किसी बोर्डपर भावी तीर्थकरोंका चित्र बनाया, संकेत बनाया या नाम लिखा और भूतकालके तीर्थकरोंका चित्र बनाया या नाम लिखा, पर उस बोर्डमें देखने वाले पुरुषोंमें वे सब वर्तमान हैं, इसी प्रकार अरहंत सिद्ध देवोंके तीनिकाल, तीन लोकके समस्त परिणामन सदा वर्तमान होय बताये गए हैं । तो वे भगवंत केवल ज्ञानके द्वारा निरन्तर लोक और अलोकको जानते हैं और इसी कारण वे नियम से परमानन्दमय हैं ।

भगवान् सर्वज्ञदेव तीन लोक और तीन कालकी समस्त वस्तुओंको यथार्थहृपसे एक साथ जानता है । ज्ञानका काम जानन है । जानन किस का ? जो सत हो उसका जानन । तो जाननस्वरूपके कारण जब यह जानता है तो जाननमें रुकावट क्यों है ? जाननमें रुकावट वहाँ होती है जहाँ निमित्तरूपमें तो ज्ञानाधरणका उदय है और उपादानरूपमें आत्माके ज्ञानमें एक आच्छादन है, न्यूनता है, विकास नहीं है । जब वह कमसे जानता है, इन्द्रियोंसे जानता है और न्यूनधान नहीं होता, साक्षात् होता, समक्ष होता तो जानता है, किन्तु भगवान्के ज्ञानमें न तो क्रम है कि पहिले इसे जान निर इसे जानें । जाननेका न उनके क्रम है, न इन्द्रियोंकी आधीनता है और न उनके व्यवधानका कोई प्रयाप है । यह हम लोगोंके लिये है कि सामने कोई चीज़ ही तो जानते हैं ।

जहाँ रुकावट है वहाँ सामना भी होता है । रुकावट और समक्षता ये दो प्रतिपक्षकी चीज़ हैं । जहाँ रुकावट नहीं है वहाँ समक्षता क्या मानें ? सर्व समक्षता है । तो सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें कहीं इन्द्रियधी आधीनता नहीं और व्यवधान भी कहीं नहीं । ऐसा केवलज्ञानी अरहंतदेव तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको जानता है । काहेरके द्वारा जानता है ? केवल ज्ञानके द्वारा जानता है ? जो लोक और अलोकका प्रकाश वरने वाला है,

जो परिणामता है उसे उपादान कहते हैं और उस परिणामनमें जिन पर-उपाधियोंका सान्निध्य पाकर परिणाम होता है उन उपाधियोंको निमित्त कहते हैं।

निमित्त और उपादानके प्रसंगमें जो नैमित्तिक कार्य होता है वह नैमित्तिक कार्य औपाधिक है, उपाधिका सन्निधान पाकर हुआ है, पर परिणामनकी स्थितिमें उपादानमें वह परिणामित उपादानके आधीन है। जैसे यह हाथ सामने आ गया और चौकी पर छाया हुई यह जो छाया पड़ी है यह हाथकी है या चौकीकी है? उत्तर होनों आते हैं। निमित्तकी ओरसे उत्तर आता है कि छाया हाथकी है और उपादानकी ओरसे उत्तर आता है कि छाया चौकी की है। इस जगह छायारूप कौन परिणाम? हाथ या चौकी? जो छायरूप परिणामता है वह उपादान है। ऐसे निमित्तका सान्निध्य होने पर भी हाथमें रहने वाला जो कुछ रूप, रस, गंध, स्पर्श है वह हाथसे निकलकर चौकीमें नहीं आया, यह खूब सामने दिख रहा है पर चूँकि इस प्रकारसे छायारूप परिणामन निमित्तके सान्निध्य बिना नहीं होता।

बलवान् ज्ञान वह है कि निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भी ज.नकर वस्तुकी स्वतंत्रताका अपलाप जहां नहीं कर सकते। इन दो बातोंमें ज.स औरकी एकांततः दृढ़ता हो जाती है उसीको एकांत कहते हैं। जैसे निश्चय एकांत होता है उसी तरह व्यवहार एकांत भी होता है और बादशिवायकी चर्चामें यदि व्यवहारवादियोंके मुकाबलेमें कोई प्रतिपक्ष खड़ा हो तो उसको बेवल निश्चयकी दृष्टि सूझती है। क्योंकि उसे व्यवहारवादीका मुकाबला करना पड़ रहा है और ऐसे ही जो निश्चय एकांतवादी का मुकाबला करनेके लिए व्यवहारवादी खड़ा होता है तो उस समय उसे केवल व्यवहार ही सूझता है क्योंकि उसे निश्चय एकांतका मुकाबला करना है। जो प्रकृत्या जिस पक्षकी बात चल उठती है वहां दूसरेकी बात को कितनी दृष्टियों तक सही सोचनेका अवकाश नहीं देते। पर ज्ञान सबल वह है कि जहां सर्व बातें यथार्थ प्रतीत हो रही हैं।

अब वस्तुके प्रदेशमें से हृष्टि हटाकर बाह्य बातावरणकी ओर हृष्टि देते हैं तब यह सिद्ध है कि निमित्तका सन्निधान पाकर दिकार उपादानने विकार परिणाम किया। निमित्तके अभावमें विकारपरिणामन नहीं हुआ, पर जो परिणाम रहा है उस परिणामते हुए को ही, देवलको ही देखकर उत्तर देते हैं तो वहां यह उत्तर आता है कि यह उपादान अपनी परिणामिते परिणामता है। उस हृष्टिमें दूसरेको देखनेका ज्ञान ही नहीं

रहता है। तब न निमित्तके मण्डनका ध्यान रहेगा और न निमित्तके सण्डनका ध्यान रहेगा।

और भी दृष्टांत देखो। जैसे दर्पण हाथ में लिए हुए हैं, पीछे चार लड़के लड़े हैं। दर्पण चार बालकों के प्रनिविष्वस्त्रप परिणम गया। अब यदि कोई केवल दर्पणको ही देखकर दर्पणमें होने वाली बातोंका वर्णन करे तो वह बतायेगा कि दर्पण अमुक रूप परिणम रहा है। उसकी दृष्टि केवल एक पदार्थकी ओर है। निश्चयदृष्टि का काम व्यवहार का सण्डन नहीं है और व्यवहारका मण्डन नहीं है। निश्चय दृष्टि तो एक पदार्थको दिखा देता है। यदि वह अशुद्ध परिणत है तो अशुद्ध परिणत दिखा देगा। इसे कहते हैं अशुद्ध निश्चयनय। और यदि शुद्ध परिणत है तो शुद्ध परिणत दिखा देगा। इसे कहते हैं शुद्ध निश्चयनय। और भी अन्तरङ्ग तीक्ष्ण दृष्टि करके वस्तुको देखा जाता है यहां शुद्ध अथवा अशुद्ध परिणमन पर भी निगाह ही नहीं होती। केवल वस्तु के स्वभावपर ही दृष्टि होती तो उसे यहां अखण्ड प्रूप अद्वेतुक एकस्वभाव दृष्टिगत होता है। इसे कहते हैं परमशुद्ध निश्चयनय।

फिर जब एक ही वस्तुके देखनेका पासा पलटते हैं और उस वस्तुके बाहरके बातावरण पर दृष्टि देकर निर्णय करते हैं तब यदांसे व्यवहारकी शुरुआत होती है। जब उसे विकारपरिणमनमें यह निर्णय होता है कि विकारपरिणमन निमित्तका सान्निध्य होने पर ही हो सकता है। यदि निमित्तका सान्निध्य न हो तो नहीं होता है। निमित्त गात्र किए बिना यदि उपादान विकार रूप परिणम जाता है तो वह उसका स्वभाव नहीं बन जायेगा। अब उसे यहां सारी तरफका कुछ निर्णय करो। ज्ञानी जीव सभी वर्णोंसे लाभ उठाता है। यह परमशुद्ध निश्चयनयसे भी लाभ लेता है, अशुद्ध निश्चयनयसे भी लाभ लेता है। शुद्ध निश्चयनय के कथनसे भी लाभ लेता है और व्यवहारजनयके कथन से भी लाभ लेता है।

जैसे जिसको कोई खेल करना है, कलाका काम करना अच्छा आता है, बहुत अभ्यस्त है, अभ्यस्त हो चुका है, तो उसका वह काम लीलामात्र में चलता है। जो पुरुष जिस चित्रको बनाना सीख रहा है, उस कलामें वह प्रवेश ही कर पाया कि उसमें तीव्र अभ्यस्त होकर पड़ा हुआ, डगमगाता हुआ टेढ़े, बैठे, लड़े कैसी स्थितिमें हो, लीलामात्रमें ही वह उस चित्रको बनाता है। अभ्यासकी यह बात है। इसी प्रकार जिसको वस्तुस्वस्त्रपके यथार्थज्ञानका पूर्ण अभ्यास है और जानता है कि वस्तु विज्ञानमें सम्भूत बात वह कौनसी है ? जिसका आलम्बन लेनेसे यह जीव संसारसंकटों से

मुक्त होता है। जिसे उस तत्त्वका अनुभव होता है वह पुरुष इन चार प्रकार के नयोंके कथनसे प्रयोजनकी बात निकाल लेता है।

ज्ञानी नयोंके कथनये क्या प्रयोजन निकालता है? परम शुद्ध निश्चयनयमें उपादेय तो सीधा प्रयोजन पड़ा हुआ है। हमको जानना है धू॒ष अनादि अनन्त अहेतुक स्वाभावको। जो कि धू॒ष है, जिस पर किया हुआ उपयोग संकल्प विकल्पका संहारक है। अशुद्ध निश्चयनयसे क्या प्रयोजन निकाल लेता है? वह वेष्ट एक वस्तुको वेष्ट रहा है, अशुद्ध परिणत वस्तुको वेष्ट रहा है। भले ही वह अशुद्ध परिणत वस्तुको वेष्ट रहा है किन्तु वह आमी निश्चय हृष्टिमें ही स्थित है। उसके प्रभावक बात तो यह उत्पन्न होती है कि आश्रयभूत परपदार्थों पर उसका उपयोग नहीं है, जिसका आश्रय लेनेसे विषय कथाओंमें भाव प्रबल होता है, क्योंकि वह इस समय एक को देखनेमें ही लगा है, तो आश्रयभूत परपदार्थोंका आश्रय न होनेसे रागादिक विकल्पोंको जागृति नहीं मिलती है। वे दूर तो जाते हैं। यह तो उसके जीवनमें जो निश्चयहृष्टिसे वस्तुको निरख रहा है एक प्रभाव पड़ता है।

और, इस निश्चयकी प्रक्रियामें उसको इस बातके लिए उत्साह मिलता है कि वह उस पर्यायको उस द्रव्य के गुणोंके सम्मुख ले जायेगा क्योंकि वह एकको ही देख रहा है। जहां यह उत्सुकता हुई यह पर्याय किस गुणसे निर्गत है, गुण हृष्टि हुई और वह गुण जो कि स्वतंत्र सद्वभूत एक नहीं है तब उस गुणका अभेदलप आधार आस्थयश्रीत क्या है? वह है द्रव्य तो एक ही वस्तुके देखनेके प्रसंगमें यों द्रव्य तक पहुंचन बन जाता है। उस ज्ञानीने अशुद्ध निश्चयसे यह लाभ लिया। यहां धू॒षका अर्थ है स्वभाव। अवस्था धू॒ष नहीं होती है। तो इसे एक कुछ भी किसी ओरकी हृष्टिको रखकर नहीं सुनता, किन्तु जिस हृष्टिको आपको बताकर कहा जाय कि जरा इस स्थानमें खड़े होकर तो देखिए क्या दिखना है? इस तरहसे देखते चलें तो आपको उस आशाओंसे यह विदित होगा कि ज्ञानी जीव सर्व कथनोंसे कैसा अपना लाभ उठाता है?

शुद्ध निश्चयन में यह देखा जाता है कि प्रभु सर्वज्ञदेव अनन्त चतुष्य विराजमान् अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त शक्तिका पुञ्च है। वह विकास शुद्ध विकास है, इस हृष्टिमें यह बात नहीं हैसी जा सकती है कि यह कर्मकि क्षयसे उत्पन्न होता है। हृष्टिकी सीमा है। निश्चय हृष्टि उसे कहते हैं कि केवल एक को देखो। एक ही परार्थको देखते हुएमें जो आशय बनता है उसकी चर्चा इस प्रसंगमें है। जैसे कि

अशुद्ध निश्चयनय वालोंने यहां आत्मपदार्थको राग-परिणत देखा। तो शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे उस आत्मपदार्थको ज्ञानसम्पन्न निरस्ते हैं। सो और भी अधिक सुगमता है कि वह पर्यायिसे और भीतर चलकर द्रव्यस्वरूप पर पहुँचा दे क्योंकि शुद्ध निश्चयनयने जिस पर्यायमें परिणत देखा, वह पर्याय स्वभावके अनुरूप है। इसलिए पर्यायिका लोतभूत शुद्ध का आभेद आधारभूत आत्मद्रव्य भी शीघ्र उसे प्राप्त होता है।

अब व्यवहारनयकी बात देखिए। व्यवहारनयका आश्रय इब बनता है जब एक वस्तुकी स्वरूपदृष्टि न करके उसके बातावरणका निर्णय किया जाता है कि आखिर हुआ क्यों यह विकारपरिणामन? तो वहां यह ज्ञात होता है कि नाना प्रकारण वे ही कर्म जो पूर्वमें परिणामका निमित्त पाकरके बंध कर लिया है उन कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर ये विकार होता है। इस व्यवहारनयके कथनसे ज्ञानी क्या लाभ लेता है कि ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं, मेरे से इनका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। उसके होनेके कारण विकार हुआ और उसके न होने पर विकार न हुआ ऐसा आत्माका और विकारोंका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। कब ऐसा समय आयेगा जब दुःखोंका अभाव हो और विकारोंका भी अभाव हो। आत्माका कभी अभाव नहीं होता। आत्माके ही नाते यदि विकार होते तो ये स्वभाव बनते और सदा रहते हैं। किन्तु इन विकारोंका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कर्मदैयक साथ है। कर्मदैय होने पर ही ये विकार होते हैं, कर्मदैयका अभाव होने पर ये विकार नहीं हुआ करते हैं। इस कारण ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं। और्ध्वाधिक हैं, परभाव है, ऐसा परिज्ञान करके उनसे उपेक्षा करनेमें लाभ होता है। जब ये विभाव नहीं होते तो मैं इनमें आत्मीयता क्यों करूँ और इनमें उपयोग फैसाकर क्यों अपने आपके जन्म मरण बनाऊँ? इस तरह वे उपभावोंसे उपेक्षा पानेका उत्साह प्राप्त करते हैं।

इस तरह ज्ञानी जीव जिसको वस्तुस्वरूपका इड विश्वास है वह सर्वकथनोंसे अपने आपके स्वभावका अश्रय करनेका लाभ लेता है। केवल ज्ञानी प्रसु जिसका कि स्वभाविक परिणामन चल रहा है उन परिणामनोंमें जब पूर्व समयका परिणामन था वहां तो कर्मोंके क्षयका निमित्त था। पर उसके बाद जितने उत्तरोत्तर परिणामन चल रहे हैं वे घर्म अधर्म आदिक द्रव्योंकी भाँति कालद्रव्यको निमित्त पाकर, अपने आपके अगुरुलघुव गुणकी धृति हाँचिके द्वारा अपने आपमें परिणामते रहते हैं, ऐसा शुद्ध परिणामात है। केवलज्ञानी भगवान निरन्तर एक साथ

स्पष्ट समर्पण विश्व को जानते हैं। वे भगवान् वीतराग परम समरसीभाव-रूप तात्त्विक परम आनन्दमय हैं, इसमें रं च संदेह न करना। इसी विषय को और भी दीहुएं कहते हैं।

जे जिणु केवलणाणमउ परमाणुदसहाउ ।

सो परमपृष्ठ परमपूर सो जिय अप्पसहाउ ॥१६५॥

जो जिन है, केवल ज्ञानमय है, परमानन्दस्वभावी है वही परमात्मा है। जो परममें परम है, उत्कृष्टोंमें उत्कृष्ट है ऐसा तो है प्रभुका व्यक्तरूप और ऐसा ही है मर्यादा आत्माओंका स्वभावरूप स्वभावका वर्णन और व्यक्तिकासका वर्णन एक शब्दमें होता है। जैसे प्रभु निरञ्जन है, तो आत्माका स्वभाव निरञ्जन है, जितनी विशेषताएँ, सहताएँ आप प्रभुको कहेंगे उननी विशेषताएँ और महत्ताएँ आत्मस्वभावको कहेंगे।

गर्म जल हो गया हो जाने दो, पर लोकव्यवहारमें जब आपसे पूछेंगे कि जलका स्वभाव कैसा होता है तो आप गर्म कह देंगे। आप कहेंगे ठंडा होता है। अच्छा यह पानी ठंडा है तो उसके सिरमें डाल देवें। जो खोलता हुआ पानी है वह जला देगा या ठंडा करेगा। वह गर्म परिणत है, किन्तु उसके अन्दर स्वभाव ठंडा पड़ा हुआ है, वह ठंडा परिणामन गर्म परिणामसे तिरीहित है, मगर शक्ति सदा रहती है। कोई द्रव्य शक्ति कभी ही, कभी न ही ऐसा नहीं होता। यह पानीका एक दृष्टांत मात्र है। पानी कोई द्रव्य नहीं है जिससे कि उसका स्वभाव बताया जाय। पर दृष्टांतमें पानी को द्रव्य मान करके कथन करें तो उसका स्वभाव ठंडा लोकव्यवहारमें है।

इसी प्रकार आत्मा इस समय तिर्यक्ष है, निरोद है, कौड़ा है, नारकी है, दो इन्द्रिय आविक है। है, वर्त रहा है, पर ऐसी कुयोनिमें वर्ताता हुआ जीवका स्वभाव कैसा है? यह स्वभाव वहाँ भी वह बताया जायेगा जो सिद्ध प्रभुके बारेमें बनाया जायेगा निरञ्जन, निविकार शाश्वत। वही आत्मामें लगाते जानो। पर भगवान्में परिणामन आता है, स्वभाव नहीं आता है। तो वही स्वभाव है और आपमें स्थित है। इम दूसरे जीवोंके स्वभावकी तो चर्चा कर लें, प्रभुवत् स्थरूप है इसका, उन जीवोंसे क्या हम अलग हैं? अपने आपके स्वभावकी चर्चा, स्वभावकी दृष्टि, स्वभावके ज्ञानका यत्न करें तो यह तो एक कल्याणका साधन है। करनेका काम तो निरन्तर यह ही है और नहीं है दूसरा। पर दूसरा करते क्यों हो? विषय कषाय, अशुभोपयोग, विकल्प ये क्यों करते हों? करने का तो यही काम है। पर करनेमें आ रहे हैं ये विषयकषायादिक भाव।

तो जब ने आ रहे हों जिस स्थितिमें, उस स्थितिमें इसके धारण करनेके लिए शुभोपयोग होता है। और शुभोपयोगमें रहते हुए ज्ञान शुद्धोपयोग की दृष्टिमें रखना है। यह है ज्ञानीका कार्यक्रम।

भैया ! अशुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता। शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग होता है। पर शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके हो सकता है जो शुभोपयोगमें रहकर भी शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखते हैं, दृष्टि बनाते हैं। तो इस तरह जो पहली पद्धतियें रहने वाले जन हैं उनमें व्यवहारका आलम्बन अविक होता है और निरचयका आवं स्वन कदाचित् होता है। वे ज्ञानी व्यवहारमें रहकर भी दृष्टि रखते हैं आत्मचाचाचक्षी और जैसे उनका विकास होता है वैसे ही उनके व्यवहारका आलम्बन कम होता है और पश्चात् ऐसी स्थिति आती है कि व्यवहारका आलम्बन कनहै नहीं रहता है, एक निरचयका ही आलम्बन रहता है। पश्चात् ऐसी स्थिति होनी है कि निरचयनयका आलम्बन भी छूटता है और यथार्थ जैसा स्वरूप है वैसा परिणमन होता है, वह ही परिणमन अरहत प्रभु का है।

पत्येक जीव शांति चाहता है शान्तिका यत्न करता है, किन्तु शान्ति नहीं मिलती। खूब लोच लो, जितना परकी ओर मुकाब होगा उननी ही शांति दूर भागेगी। क्योंकि परकी ओर लगाथी ना दृष्टि और वह पर तो पर ही है। वे अपने आपके रूपमें ही परिणमेंगे। मेरी इच्छा से तो परिणमेंगे नहीं। सो उनसे शांति न प्राप्त होगी। शांति तो मात्र अपने स्वभावके ध्यानसे होगी। सो स्वभावके ध्यान करनेके लिए हमारी ही जगह दृष्टि जानी चाहिए। एक तो परमात्मामें अरहत सिद्धिये स्वरूपमें जैसा कि वह अनन्त ज्ञानधारी है, अनन्त रक्षितस्थन है उस स्वरूपमें दृष्टि जावे। जो उनके गुणोंका प्रताप है उसका ध्यान करें और अपने स्वभावका भी ध्यान करें निज आत्माका ध्यान—करें, निज आत्माका ध्यान और परमात्माका ध्यान दो ही बातें शांतिके लिए आवश्यक हैं।

भैया ! परमात्माका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप निज आत्माका है। अनन्त यह है कि परमात्माका स्वरूप तो व्यक्त है, जैसा कि स्वभाव है और इस निज आत्माका व्यक्त स्वरूप परिणमन और भेद चल रहा है। और स्वप्राप्त वैसा ही है जैसा कि प्रभुका है। प्रभु केवल ज्ञानमय है, समर्पण चराचर विश्वको अपने ज्ञानसे जानता है। केवल ज्ञानका स्वभाव इस आत्माका भी है और परमात्माका भी है। इसी कारण आत्माके ध्यान की संगति परमात्माके ध्यानसे बैठ जाती है। वह प्रभु परम आनन्द

स्वभाव बाला है और यह आत्मस्वभाव भी परम आनन्दस्वभावी है। ऐसा वह परमात्मा है जो समस्त परम पदार्थोंमें परम है और ऐसा ही आत्माका स्वभाव है। भगवानका आनन्द छैसा है कि हन्दिवके विषयोंसे अतीत है। आनन्दमय निज आत्माके दर्शनसे सहज उत्कृष्ट निश्चल, अधिनाशी आनन्द प्रकट होता है, वह स्थात्मोत्थ है, अपने आत्मासे ही उठा हुआ आनन्द है, परपदार्थोंका विषय बनाकर जो आनन्द उठा है वह पराधीन आनन्द है। उनका आनन्द स्वार्थीन है, रागादि विवरणोंसे रहित है और जोलोकिक जनोंका आनन्द है वह रागादिक विकल्पोंसे परिपूर्ण है।

जैसा प्रभुका परम आनन्द स्वभाव है और वैसा ही निज आत्माका स्वभाव है। परमात्मा कहते हैं पर-मा-आत्मा। पर मायने उत्कृष्ट, मा मायने लक्ष्मी ज्ञानादिक लक्ष्मी जिसके उत्कृष्ट हो गई हो उसका नाम परम है और परम आत्माका नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द ही यह सार्वित करता है कि अन्य आत्माओंसे इसका उत्कृष्ट ज्ञानविकास है। आत्मा वही है, जैसे कि अन्य आत्मा हैं। स्वभाव वही है पर जिनके स्वभावका उत्कृष्ट विकास हो गया है। उसे कहते हैं परमात्मा। उत्कृष्ट अवन्तरगुण आदिक गुणोंरूप जिसके लक्ष्मी प्रकट हुई है ऐसा परमानन्द वीतराग सर्वज्ञदेव आत्माका स्वभाव ही तो है। जो आत्माका स्वभाव है वही तो प्रकट हुआ है। यहां यह जानना कि जो भगवान बताया गया है वीतराग सर्वज्ञ रागादिकसे परे वैसा ही का बैसा है।

संसार अवस्थामें निश्चयनयसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे जो सब जीवोंमें मौजूद है। भगवानमें वह बात प्रकट हो गई। केवलज्ञानकी अवस्था में स्वाभाविकतारूप है। उस स्वरूपको परमब्रह्म आदिक शब्दोंसे घोलते हैं। निश्चयनयसे सब जीव जिनस्वरूप हैं और जिन मी सर्वजीव-स्वरूप हैं। स्वभावपर उष्टि दें तो सब जीव भगवत् स्वरूप हैं और भगवान सर्व जीवस्वरूप हैं। स्वभावपर उष्टि देकर इस बातको देखते हैं तो समझमें आयेगा। यह सर्व वही जान सकता है जो आत्माके वैतन्य स्वभावके अवलोकनके द्वारा रवर्य समतापूर्ण बन सकता है। समताभावमें स्थित वह जीव मर्यको जानता है कि सब जीव जिनवर हैं और जिनवर सर्व जीवस्वरूप हैं।

स्वरूपका जानने वाला आत्मा इस तथ्यके जाननेके साथ समता-परिणाममें आ जाता है। यदि किसका लुरा करना, किसका भला करना, जगन्तमें कौन शत्रु है और कौन मित्र है? स्वरूपका जानने वाला सर्वत्र

समतापरिणामको प्राप्त होना है। ऐसे ही समतापरिणामी जीव निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहां तक कई कथनोंके द्वारा अरहंत भगवानके स्वरूपका कथन किया गया है। अब इसके बाद परमात्म प्रकाशक शब्दके अर्थके कहनेकी मुख्यतासे व्याख्यान किया जाता है।

समलहं कम्महं दोषहं च जो जिणुदेव विभिन्नण् ।

सो परमपपवासु तुहुं जोश्य शिष्यमे मरण् ॥१६६॥

समस्त कर्मोंसे और शुद्धा आदिक १८ दोषोंसे रहित जो जिनेश्वर देव हैं उनको है योगी ! तू परमात्मप्रकाश निश्चयसे मान। परमात्म प्रकाश इस अन्यका भी नाय है, और वहां शब्दोंका यथार्थ अर्थ भी लगता है कि जो समस्त कर्मोंसे दूर होते हैं वे परमात्मप्रकाश यानि परमात्मतत्त्व के सर्वथा प्रकाशरूप हैं। ऐसा तुम निश्चयसे मानो। कैसा है वह परमात्मप्रकाश कि समस्त कर्मोंसे पृथक् है। केवल कर्मोंसे ही पृथक् नहीं किन्तु दोषोंसे भी पृथक् हैं। समस्त कर्म कैसे हैं कि परमात्मस्वरूपसे अत्यन्त जुड़ा है। परमात्मस्वरूप है जानन का और जिसमें तुम रहने पर ये सर्व कर्म क्षय किये जाते हैं। पुहुङलकर्मका बंध होता है रागादिक सहित अवस्था होने पर। शुद्ध सहजआनन्दकी जघ जिसे लबर नहीं होती है तब जीव मोह और रागमें बढ़ता है। ऐसे समस्त कर्म हैं जो अपने आपका बात करते चले जा रहे हैं। उन कर्मोंसे भी भिन्न यह परमात्मप्रकाश है।

एक यह प्रभु कर्मोंसे ही अलग नहीं है किन्तु टंकोट्कीर्णवत् निश्चल एक ज्ञायकस्वरूप परमात्मतत्त्वके प्रच्छादक जो दोष हैं, जन्म जरा मरण आदिक हैं, वे भी नहीं हैं। जैसे टांकीसे उकेरी रही प्रतिमा है पाषाण की तो वह चलित नहीं होती अर्थात् निश्चल होती है। इसी प्रकार यह ज्ञाय छस्वभाव आत्माका निश्चल होता है, इसका जिसने अःश्रय किया वह संसारसे पार हो जाता है। यों वह सिद्धप्रभु कर्मोंसे रहित हो जाता है, और गुणोंक प्रच्छादक जो दोष हैं उन गुणोंसे भी भिन्न हो जाता है, ऐसा यहां अभिप्राय कहा गया है। अब और भी अभिप्राय बतलाते हैं परमात्मस्वरूपके सम्बन्धमें।

केवल दंसणु णाणु सुहु धीरित जो जि अणु ।

जो जिणुदेव वि परममुणि परमपयासु सुणंति ॥१६७॥

वह ज्ञानी होता है, परमज्ञानप्रकाश जिसके मोजूह है। ऐसा वह परमप्रकाशरूप ज्ञान, दर्शन, सुख शक्तिरूप है, केवल ज्ञानादिकचतुष्टयरूप है, वह एक साथ अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ज्ञाता होनेसे अवि-

नश्वर है। वह प्रभुत्वरूप आनन्दमय है। वहाँ भगवानकी महिमा जानकर ऐसा परिणाम करें कि हे प्रभु जिस ! मार्गसे चलकर आप मुक्त हो गए हैं उस ही मार्गसे चलकर हमें दर्शन हो। भगवानने गृहस्थजनोंके लिए सोधे शब्दोंमें मार्ग बताया है—गृहस्थजनोंके ६ कर्तव्य बताये गए हैं। उन्हीं ६ कर्तव्योंमें से एक देवदर्शन है। देवदर्शनमें कहीं पावणकं दर्शन नहीं किए जाते, किन्तु मंत्रसिद्ध मूत्रिकं सम्भृ जो साक्षात् अरहंत हुए हैं उनका स्मरण किया जाता है, कोई कहे कि वैसे ही स्मरण क्यों नहीं कर लेते ? तो गृहस्थजनोंको नहीं ख्याल रहता तो उनके ख्याल बनाने के लिए यह मूत्रि दर्शन है, पर उस दर्शनमें जैसा परमात्मप्रभुका अवतोक्तन हुआ बैंसा ही करे तो दर्शन सफल है।

गुरुपास्ति—गुरुबोंकी स्वामें रहना, उनकी वैयावृत्ति करना और उनसे ज्ञान सीखना यह आवश्यक है। गुरुबोंकी उपासना करना भी श्रावक का प्रतिदिनका कर्तव्य है। अब नहीं भिलते आजकल तो अपने भाव ही ऐसे बनाएँ कि कर्तव्य तो यह रोजका है। सुधार्याय भी प्रतिदिनका कर्तव्य है। जब जीव आकुल व्याकुल होता है तो ज्ञान ही उसको मदद देता है। उसके रिटेदार लोग मदद नहीं देते हैं। खुदमें ही ज्ञान जगे तो आकुलताएँ व्याकुलताएँ समाप्त हो जाती हैं। परदृच्छाओंके आलम्बनसे तो क्षेम ही होना है। अपनी इन्द्रियोंको रोक लेना यह एक संयम है। तप जीव को निरोध कर देता है। कोई इच्छा मत आए। मैं परमविश्वाससे वही रहूँगा, ऐसा भाव इच्छाके निरोध होने पर होता है और अंतिम कर्तव्य है श्रावकका क्षान देना। किसी न किसी रूपमें किसी न किसी मतके लिए अपने कमाये हुए घनमें भी हर्षपूर्वक अपने हाथसे दान करना चाहिए। ये ६ आवश्यक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्योंको निभाना जाय और हृष्टि परमात्माकी ओर लगाए रहे तो शांति मिलेगी और इस शांतिके प्रतीपसे कर्मोंका क्षय होगा। अपने कर्तव्योंमें सावधान रहें और जितना हो सकें उन्हीं कर्तव्यों द्वारा प्रगति करें, यही अपना एक काम है।

जिनदेव किसे कहते हैं ? केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तशीर्य ये जिसके पाये जायें उसका नाम है जिनदेव। ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति सब जीवोंमें है। किसीमें कम है, किसीमें ज्यादा है, किसीमें सर्वोत्कृष्ट है। जिसमें सर्वोत्कृष्ट है वह जिनदेव है। अरहंत कही, जिन देव कहो, केवलज्ञान कहो, ये सब निर्दोष आत्मा हैं। ऐसे जो परमगुण हैं उन्होंने यह बात बताई है। वह परम प्रकाश कैसा है जिसको जानने वाला प्रत्यक्ष ज्ञानियोंने यह सब मर्म बताया है। वह परम प्रकाश है लोक

और अलोकमें प्रकाश करने वाला । ऐसा वेष्टल ज्ञान जिसके होता है उसे केवल ज्ञानी कहते हैं ।

प्रभु अनन्त है, जो एक साथ अनन्तद्रव्य, अनन्तक्षेत्र, अनन्तकाल और अनन्तभाव जो जानता है, वह अविनश्वर है, वही अनन्त है । उसको परमात्मा कहते हैं । वही अनन्त है । ऐसे सभी परमात्मा अनन्त हैं । अनन्तका अर्थ है अविनाशी । ऐ परमात्मा अपनी सिद्ध दशाको अनन्तकाल तक बनाये रखता है और अनन्तविकास होनेसे परमात्माका नाम अनन्त है और अनन्त गुणोंके प्रकट होनेसे वह परमात्मा भी अनन्त है । ऐसा अनन्तज्ञाता, अनन्तद्रष्टा, अनन्त आनन्दमय, अनन्त शक्तिमय जिनेन्द्रदेव है ।

जो परमपठ परमपरु हरि हरु वं मु वि बुद्ध ।

परमपथामु भर्णाति मुणि सो जिणदेव विमुद्ध ॥२००॥

जिस परमात्माको मुनि परमपठ हरि, महादेव, ब्रह्मा, बुद्ध और परम प्रकाश, इन नामोंसे कहते हैं वही परमात्मा विमुद्ध जिनदेव है । जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु बुद्ध, हरि जिसके नाम हैं, इन शब्दों का जो अर्थ निकलता है वह अर्थ जिसमें पाया जाता है उसे जिनदेव कहते हैं । जैसे जो रागादिक शत्रुओंको जीते उसे जिन कहते हैं । शिव जो कल्याणमय है, आनन्दमय है उसे शिव कहते हैं । ईश्वर जो अनन्त ऐश्वर्यका स्वामी हो, अपने ऐश्वर्यमें समर्थ हो उसे ईश्वर कहते हैं । प्रभु का ज्ञान जो विकसित होता है वह उनके आत्मासे ही विकसित होता है । उसमें इन्द्रिय आदिकी आवीनता नहीं है, इस कारण अरहंतदेव स्वयं ईश्वर कहलाता है । विष्णु जो अपने ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोकमें व्याप जाय उसका नाम विष्णु है । सर्वज्ञदेवका ज्ञान लोकमें फैला है और अलोकमें फैला है । भगवान् अलोकमें नहीं जा सकता है, वह सिद्धालय तक ही रह जाता है । पर उनका ज्ञान लोकमें भी जाता है, अर्थात् वह लोक और अलोक सबको जानता है ।

ब्रह्मा जो अपनी सृष्टिको करदे उसे ब्रह्मा कहते हैं । अपनी सृष्टि आत्माकी केवल ज्ञानप्रकाश मान्ना है । प्रभु अरहंतदेव निरन्तर ज्ञान विलासकी सृष्टि कर रहे हैं । इसलिए प्रभु जिनेन्द्र ब्रह्मा है । दूसरे अरहंत देवने दुनियाको मोक्षका मार्ग बताया है, मोक्षमार्गकी सृष्टि की है । यद्यपि बड़ा है सिद्धपरमेष्ठी, पर सिद्धपरमेष्ठी के माध्यम से घर्षका प्रचार नहीं होता, अरहंतदेवके माध्यमसे प्रमुका दिट्ठ दर्ही हर्दी और गणघरोंने उसे पहिचाना । वही परमपरा छाज त्वं दर्ही छायी है ।

देखो भैया ! जैव सिद्धान्तके पूजायें पाठमें, ध्यानमें, त्यागमें किसी भी जगह हिंसाका नाम नहीं है। किसी भी जगह स्वरूपके विस्तृ बहवन का नाम नहीं है। दशलाक्षणी पर्व है, वह आत्माके दश गुणोंका प्रकाश करनेके लिए है। अष्टाहिका पर्व है वह जिनेन्द्र भगवानकी उत्साहके साथ मकि करनेके लिए है। रक्षावंधन पर्व है वह यह सिखानेके लिए आता है कि जैसे विष्णुकुमारने ७०० मुनियोंकी रक्षा की थी, इसी प्रकार सधर्मी जनोंकी सेवा करें, रक्षा करें। इसलिए रक्षावंधन पर्व होता है दिवालीका पर्व यदि ध्यान दिलानेके लिए आता है कि भगवान वीर प्रभुने दूस दिन प्रातः काल चार अधातियाकर्मोंको दूर करके निर्वाणपद पाया था। हम भी यह भावना भावें कि उनकी भक्तिके प्रसादसे हम भी इसी प्रकार निर्वाण पदके पात्र हों। जितने पर्व आपके आते हैं, जितने पूजा पाठ आपके जलते हैं वे विशुद्ध आत्मविकास और अहिंसा पथके उपदेशके लिए चलते हैं।

जिन्हें आज लोकमें अनेक देवी देवताओंके नाम कहते हैं वे हजारों देवता अरहंत, प्रमुकी सेवा किया करते हैं। जब स्वर्गोंके इन्द्र यी प्रभुके सेवक हैं तो अन्य देवी देवताओंकी वात क्या कहें ? ये देवी देवता भी जिन्हें सीतला भवानी आदिकेनामसे कहते हैं ये सब भगवान् की सेवा किया करते हैं। जो नहीं रहते हैं वे इन सेवक देवताओंसे भी हत्की जाति के हैं। प्रभुके सेवक देवताओंकी वे लेखा किया करते हैं। तो जैसे लोक-व्यवहारमें अपन कहते हैं कि कोई मंदिरका निर्माण कराता है, या कोई कार्य जैसे बड़ा ऊँचा ऊँचा स्कूल खोलता है तो वह किसी बड़े को यदि पकड़ेगा तो उसका काम सिद्ध होगा। तो ऐसा बड़ा कौन है जो अपने को और धर्मके काममें जिसको पकड़े तो अपना काम हो ! वह है केवल उत्कृष्ट सर्वोपरि देवाधिदेव अरहंत परमात्मा और जब कोई संकट आए तो एकका सहारा लें। जिन्न-भिन्न नानाका सहारा लेनेसे काम नहीं बनता।

यह भूल है कि हमने अमुक देवको माना तो हमारा कार्य सिद्ध हुआ। ये सब मान्यताएँ तो आत्माके विकासको रोकती हैं। इस कारण इतना हृदय श्रद्धान् रहना चाहिए कि जो वीतराग सर्वज्ञदेव है वही हमारा देव है। कोई सकृद आए तो हमें उस देवकी ही आराधना रहे और हमारा कोई गुरु है तो जो संयमवारी है, आरम्भ परिग्रहसे रहित है, कषाय वस्य जिसके उत्पन्न नहीं होता, आत्माके ध्यानमें भग्न है ऐसा निवृन्थ सातु हमारा गुरु है और शास्त्र हमारा वही है जिस शास्त्रमें निर्वाणपद

की सिद्धिका उपदेश दिया गया हो। विषय कषायोंके त्यागकी विविध बतायी गयी हो, त्यागकी महिमा बतायी गयी हो वही हमारा शास्त्र है।

बीतरागतासे विपरीत जो देश है, जो बहुत आरम्भ परिश्रद्ध रखते हो, राजपाट चलाता हो, विचित्र भेष कृष्ण बना रखा हो, ऐसे रथरूप घाला कोई हमारा देव नहीं हो सकता है। जहाँ निःशल्यता, हत्तहृत्यताका था। ये बताया गया हो वही हमारा देव है। हृद श्रद्धान रहेगा तो चाहे संसारमें कार्य न भी बने भगव हमारे सोक्षका कार्य तो नियमसे बनेगा और जिसके मोक्षका कार्य बनता है उसके संसारका कार्य अपने आप सामने आता है। जो गेहूं उत्पन्न करता है उसके भूषा अपने आप सामने आता है। ऐसा जानकर एकचित्त होकर, एक हृद श्रद्धान बनाकर यह अपना परिणाम रखें कि अरहंत जिनेन्द्रदेव और निर्वन्ध गुरु और यथायोग्य अन्तः संयमी जन, ये हमारी उपासनाके योग्य हैं।

मैया ! देव गुरु ने उपाध्य ही है और अन्य सधर्मीजन यथायोग्य उपासनीय हैं, इसके अतिरिक्त किसी देवी देवतामें ध्यान मत लगाओ, यदि किसी अन्य देवी देवतामें अपना ध्यान जाता है तो वह अज्ञानताका बढ़ाना है, उससे पुण्य भी समाप्त हो जाता है। यह सोचना अम है कि मैं किसीको मुखी दुःखी कर दूँगा। खुदकी कमायी तो खुदकी ही भोगनी पड़ेगी। अपनेको हुर्गतिसे यदि बचाना है तो अपना परिणाम निर्मल हो, अपना श्रद्धान निर्मल हो, अपने चारित्रकी प्रवृत्ति हो तो बात बन सकती है। सो यहाँ परमात्माका स्वरूप कहा है। ऐसा जो अनन्त विषय बाला देश है वह देश ही हमारा आराध्य है। यहाँ परमात्माका स्वरूप बताया जा रहा है। परमात्मामें दो शब्द हैं—परम और आत्मा। आत्मा तो सब आत्मा हैं ही, उन सब आत्माओंमें जो परम है, उत्कृष्ट है उसका नाम है परमात्मा। आत्माका जो स्वरूप है वह सबमें एक समान है वहोंकि वह भी आत्मा कहलाता है। चाहे बहिरात्मा हो, संसारमें रुक्षने बाला जीव हो, चाहे ज्ञानी आत्मा हो और चाहे परमात्मा हो सबका स्वरूप एक है। अब उन आत्माओंमें से जो परम है वह परमात्मा है। जो अपने अंतः स्वरूपका ज्ञाता है वह अनन्तरात्मा है और जिसका चित्त बाहरमें लगा है वह बहिरात्मा है। इस जीवको केवल वो ही शरण हैं, व्यवहारमें परमात्मा की भक्ति शरण है और निश्चयमें आत्मतत्त्वका स्मरण शरण है। इन दो के सिवाय अन्यत्र किसी जगह आसरा नके तो सब वेकार है।

इस जीवलोकमें कौन किसका साथी है ? सब अपने अपने कषाय आबके अनुसार अपनी-अपनी क्रियाओंमें ही सचि रखते हैं, और अपना ही

परिणमन करते हैं, यहां दूसरा कोई शरण नहीं है। परमात्मा भगवान् हमें व्यवहार से यों शरण है कि हम उनका व्यान रखकर अपने आपको पवित्र बनाकर अपने आपमें रेसते हैं, व्यवहार से यों शरण है कि परमार्थतः परमात्मा भी मेरा कुछ करता नहीं है। वह तो अपने ही आनन्दका का भोक्ता है। वह मलिन जीवोंके चक्करमें नहीं रहता, वह तो अपने अनन्त आनन्द और अनन्त ज्ञानका भोक्ता है पर प्रभुका जो सत्त्वज्ञान और आनन्द तेज है उस तेजके अनुभवसे आपने आपके स्वरूपका विकास होता है, जब हम बाणी बातावरणसे हटकर अपने अंतरङ्ग तेजमें प्रवेश करते हैं उस समय ये सब मायामय परिणमन विश्रांत हो जाते हैं और इस आत्माका परिणमन उस ब्रह्मतेज के अनुसार होता है। उस परमात्माकी यहां चर्चा है।

वह परमात्मा अनेक शब्दोंसे बोला जाता है। किन्हीं भी शब्दों से बोलो-यदि भगवानके बारेमें ऐसा आपको अद्वान हो कि वह समस्त दोषों से रहित है और गुणोंसे पूर्ण उत्कृष्ट है उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसा स्वरूप जानते हुए फिर वाहे किन्हीं शब्दों से कहो-उसमें भूत नहीं पड़ती। शब्द भगवान् नहीं है किन्तु स्वरूप भगवान् है। शब्द कोई हो, सभी शब्दोंका अर्थ जो कि भगवानके लिए बोले जाते हैं उन सब शब्दोंका अर्थ वही है जो परमात्माके शुद्ध स्वरूपका उपदेश है।

जैसे हरि उसे कहते हैं जो पाप कर्मोंको हरे। जिसने अपने कर्म मल दूर किए हैं उसका नाम हरि है अर्थात् निष्कर्म। हर-जो अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सर्व प्रकारके मलको नष्ट करता है उसको हर कहते हैं। अर्थात् सिद्ध। जहांन तो शरीरका सम्पर्क है, न कर्मोंका सम्बन्ध है और न भावकर्म रागद्वेष हैं, ऐसा शिवस्वरूप जो ब्रह्म पद है उसका नाम हर है। ब्रह्म-जो सृष्टिको रचा करे उसे ब्रह्म बोलते हैं। स्वगुणः वृहणाति इति ब्रह्म-जो अपने गुणोंको बढ़ाता हुआ रहे उसे ब्रह्म कहते हैं। जीवको, आत्माको तिरोहित करने वाले रागद्विक भाव हैं। यदि रागद्विक भावोंसे इसे अवकाश मिले तो इसका स्वरूप नियमसे बढ़ना हुआ ही रहे। जैसे कोई दिव्यगदार पतंग होता है उसे यदि इवाँ तो वह दवा रहेगा और यदि उसे दवाने वाला न मिले तो ऊँचा उठा हुआ ही रहेगा। इस प्रकार इस ब्रह्मतेजको आच्छादित करने वाले रागद्वेष मोह भाव है। यदि रागद्वेष मोह भाव न हों तो यह तेज, यह चैतन्य प्रकाश नियमसे बढ़ना जायेगा। वहां तक बढ़ेगा जहां तक कोई सीमा नहीं है। अर्थात् लोकमें जितने भी सत् हैं उन सब पश्चात्योंका ज्ञाता, विश्व भी सर्वज्ञ निर्दीष्ट शुद्ध स्वच्छ

ज्ञान ज्योतिस्वरूप जो आत्मतेज है उस ही का नाम परमात्मा है।

भैया ! परमात्माके स्वरूपको मानते हुए किर किन्हीं भी शब्दोंमें पुकारो। शब्दोंसे भगवान नहीं ज्ञात होता है किन्तु स्वरूपके दर्शनसे भगवान ज्ञात होता है। भगवान ऋषभदेव हुए हैं। जिसका नाम ऋषभदेव वनाया है वह नाम भगवान् नहीं है किन्तु उस ऋषभनाथ जीवकी पर्यायमें आया हुआ आत्मा कर्मकलंकोंको दूर करके परमात्मा बन गया है। पर सूक्ष्म निगाहसे विचारों तो जिसका नाम ऋषभनाथ रखा है वह भगवान नहीं है। जो भगवानस्वरूप है वह ऋषभदेव नहीं है। ऋषभदेव ही यद्यपि भगवान बने हैं पर जो आत्माका शुद्ध ज्ञानप्रकाश है क्या उस ज्ञानप्रकाश का नाम ऋषभदेव है ? नहीं है। किन्तु मरुदेवीके पुत्र, नाभिराजके नन्दन ऋषभदेव उत्पन्न हुए। इस कर्मयुगके आदि प्रवर्तक ऋषभदेव हुए हैं। तो शब्दोंसे भगवान ज्ञात नहीं होता किन्तु स्वरूपसे भगवान ज्ञात होता है।

आज जितना भी जो कुछ जगतके मनुष्योंको प्रकाश मिला है वह सब ऋषभदेवकी कहणा है। भू भोग भूमिके अंतमें ऐसा समय आया था कि जिस समय प्रजा कष्टमें थी, प्राहि प्राहि मचा रही थी। क्या होगा ? पुण्यभौग अब नहीं मिल रहा है। कैसे रक्षा हो ? तब उसी आदिनाथ देवने भगवान ऋषभदेवने जीवोंको सम्बोधा, उनको कर्म बताये। तुम शस्त्र आदिसे सज्जित होकर सेनाका काम करो, तुम स्थानी से लिख पढ़कर व्यधस्थाका काम करो, तुम खेती करके अन्नोत्पादन करो, तुम लोग वाणिज्य व्यवसाय करो, तुम सेवाकार्य करके लोगोंका डपकार करो। तुम कला शित्य द्वारा सब चीजोंका निर्माण करो। प्रभुने लोगोंको उपदेश दिया, मोक्षमार्ग कैसे मिलता है ? इसका उन्होंने प्रकाश किया। उन्हें कोई तो आदिम बात कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं। क्यों कि नाभिके पुत्र थे, नाभिसे उत्पन्न हुए थे। भले ही प्रथा उनको नाभिसे उत्पन्न होनेकी है वह प्रथा मूलमें सत्य है। नाभिनन्दनको मरुदेवीके पुत्रको ऋषभदेव नामसे जोड़ा करते हैं।

अभी भगवतस्वरूप ध्यानमें नहीं आया ; अभी ध्यावहारिक रूप ध्यानमें आया है। जहाँ भगवतस्वरूप ध्यानमें आता है वहाँ नाम कूट जाता है। भगवानका नाम नहीं है। भगवानका तो स्वरूप है। वह स्वरूप ध्यानमें आये तो भगवानको समझें। उन्हीं भगवानके स्वरूपको कोई बुद्ध शब्दसे कहते हैं। बुद्धका अर्थ है ज्ञानसम्पन्न। वही परम प्रकाश है, ऐसा असीम प्रकाश है जिसमें तीन लोक तीन कालमें समस्त पदार्थ मलकते रहते हैं। उसको ही जिनदेव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं

भगवान कहते हैं हमारा आपका सहारा या तो भगवानका स्वरण है या अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव है।

वह प्रभु उत्कृष्ट अनन्तज्ञान आदिक गुणोंसे मुक्त है। परमात्मन्द-स्वभावरूप है। जो परमात्मप्रकाश है, निर्दोष परमात्मतत्त्व है वही परम पिता है, वही विष्णु है, वही ईश्वर है, वही भगवतस्वरूप है, वही जिनेश्वर है, वही विशुद्ध है। इस तरह भगवानके १००८ नाम गाये गये हैं। १००८ ही नाम नहीं होते, इससे भी ज्यादा होते हैं, पर १००८ नामों के रूपमें ईश्वरके लेक स्तवन रचे हुए हैं। जिसकी जैसी रुचि हो वह किसी भी नामके द्वारा भगवानकी आराधना करे। किन्तु भगवानका स्वरूप जैसा है वैसा ही लक्ष्यमें रखें तो उनका स्तवन होगा। भगवानके प्रति श्रद्धा तेज हो और जिस नाम बाले भगवान हुए हैं वही नाम लिया जाय, किन्तु परमात्माका स्वरूप चित्तमें नहीं बसा है तो उसने जिसके भगवानकी भक्ति नहीं की।

अब यह बतलाते हैं कि कोई मुनि साधु सकल संन्यासी भगवानके भक्त होते हैं तो वे इकल परमात्मा होते हैं। सगुण ब्रह्म, सशरीर भगवान भगवान हो गए, उग्र एवं शरीर लगा है जो पहिले लगा था। सशरीर भगवान को अरहन्, सकल परमात्मा सगुण ब्रह्म अनेक नामोंसे बोलते हैं। वे ही नशरीर भगवान जब शरीरसे भी मुक्त हो जाते हैं तब उन्हें निकल परमात्मा। अशरीर भगवान ज्ञान शरीरी निरुण श्रद्धा निराकार प्रभु आदि अनेक नामोंसे उक्खारते हैं। परमात्मा दो श्रेणियोंमें मिलता है। क्रृत समय तक तो शरीर बाला रहता है और फिर शरीररहित हो जाता है। तो जो शरीररहित प्रभु है उसका वर्णन करते हैं।

भाग्ये कम्पक्षवर किंवि मुक्तकुरु होइ आण्टु।

जिणवरदेवहैं सो जि जिय पभणित सिद्ध महंतु ॥२०१॥

ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय करके जो मुक्त हुए हैं और अनन्त हैं, हे जीव ! उसको ही भगवानने भानु सिद्ध बताया है। साधुओं तक तो ध्यान बुद्धि पूर्वक चलता है, वे उपयोग लगाकर आसन मालू कर मन, बचन, कायको केन्द्रित करके अपने आपमें अपनी ध्यान लगाते हैं। वहाँ तक जब बुद्धिपूर्वक ध्यान है तो उसे ध्येयध्यान कहते हैं। फिर इसके बाद जब वे परम रत्नत्रयके साधक होते हैं, श्रेणियोंमें चढ़ते हैं उस समय उनका ध्यान बुद्धिपूर्वक नहीं होता किन्तु स्वयं जैसा जो कुछ है वह ज्ञात होता है और उसको जानकारीमें स्थिर रहता है। उसे कहते हैं शुक्लध्यान। यह शुक्लध्यान जब अपनी प्रगति करके बैठक एक ही पदार्थ पर मुक्त जाता

है तब वह बनता है सशरीर भगवान्। शरीरके मुक्त होनेवे बाद उत्कृष्ट शुक्लध्यान स्वयमेव होता है। तब वह बनता है सिद्ध भगवान्। तो यों प्रभु सबके द्वारा आराध्य हैं।

सिद्ध परमात्मा वह कहां विराजमान् रहता है? लोकके अंतमें। कोई भी विरादीके लोग हों, जब भगवानकी याद करते हैं तो अपना सिर ऊँचा उठाकर करते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान्! रक्षा करो। क्या कोई नीचे सर करके भी कहता है कि हे भगवान्! हमारी रक्षा करो? मेरे ख्यालसे कोई ऐसे भगवानकी याद न करता होगा। तो इससे ज्ञात है कि उस प्रभुके रहनेका मुख्यस्थान लोकके अंतमें है, लोकके शिखर पर विराजमान् वह प्रभु केवल चैतन्य एतिथरूप है। शरीर उनके नहीं है। तो यहां सिद्ध प्रभु कर्मोंका विनाश करके मुक्त हुए हैं। यह प्रभु चारों घानिया कर्मोंका विनाश करके महापुरुष हो गए हैं। परिवारके लोगोंसे, बित्रजनोंसे प्रीति करनेमें क्या मिलता है? जो बड़ी अवस्थाके लोग हो गए हैं उनसे पूछो कि सारे जीवन भर परिवारके लोगोंसे राग करते-करते उन्हें अंतमें कुछ मिला है क्या? केवल संक्लेश ही मिला होगा। तो ख्याल विचार लो, किसीसे रागद्वेष मोह करके अंतमें हाथ कुछ नहीं आता है।

मैया! जो इस रागद्वेष मोहको छोड़कर अपने आपके इन ज्योति स्वरूपका शरण लेते हैं उनको सब कुछ प्राप्त होता है—ऐसा जानकर अंतर्घंटमें ऐसी आवाना तो भावो कि मेरी शरण इस लोकमें कोई दूसरा नहीं है। मेरी शरण तो मेरे स्वरूपका दर्शन ही है। वह आत्मस्वरूपका दर्शन प्रभुकी आराधनासे प्राप्त होता है। इसलिए केवल प्रभुकी उपासना करो या अपने आत्मतत्त्वकी उपासना करो। तीसरा और कोई उपासना के लायक नहीं है।

जब तक मोहमें कमी न होगी तब तक अशांति दूर न होगी। मोह की ही तो अशांति है। मोह हुआ और रोना आ जाता है। किसीको घर में इड़का वियोग होता है। किन्तु जिसे किसीसे मोह नहीं है, अपने स्वरूपका पता है उसकी पवित्रता और प्रकृतिका फौज घर्णन कर सकता है? किन्तु यहां तो मोहियोंका अमेला है जा, सो दूसरोंके मोह और राग का सभी समर्थन करते हैं।

कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी तबियत कैसी है अर्थात् तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। पूछने वाले ने क्या पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य मायने स्व में स्थित होना। अर्थात् आप अपने आत्मामें कैसे स्थित रहा करते हैं? पूछा तो यह है। लेकिन

जबाब क्या देते हैं कि हां मेरा स्वास्थ्य ठीक है। वे उत्तर देते हैं अपने इस पुद्गल शरीरमें ध्यान देकर। उनका स्थाल इस शरीरमें है। इस मनुष्यजन्मको पाकर कुछ अपना तो स्थाल करो। सबसे नईले यह दर्ताव्य करो कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, पापोंसे कूर हो, सब जीवोंको अपने समान निरख कर उनसे बात्सह्य करें। सबके लिए हितकर हों, ऐसे बचन बोलें जिससे अपनी वृत्ति निर्मल हो।

भैया ! हमारा जान, ज्ञानके स्वरूपको जानने वाला हो। सारी दुनिया को जान लें, उस जाननेसे कर्म न कटेगे किन्तु जानने वाला जो ज्ञान है उस जानने वालेके ही स्वरूपको जान लिया जाय तो उससे कर्म कटेगे। सो एक ज्ञानस्वरूपकी आराधना करके अपने आपके आत्मस्वरूपके दर्शन करें। जिसको अपने आत्मस्वरूपकी भलक एक सेषे रणको भी हुआ है उसे उस भलकसे ही जीवन भर सुख मिल सकता है। कोई संकट आए तो यह तो जानेगा कि संकट क्या है! प्रत्येक वस्तुका यो परिणाम है। मेरे आत्मा में संकट तो मेरी कल्पनासे होते हैं। ज्ञानबलसे ही अपने मन पर विजय होती है। इस कारण ज्ञानी पुरुष कभी खिन्च नहीं होते। खेद इसी बात से होता है कि परवस्तुओंको अपनी माना और वे मिलती हैं नहीं, ज्ञानी परवस्तुको अपना मानता ही नहीं है किर उसे खेद क्यों हो ?

भैया ! यदि अपने विकल्पजालको मिटाना है तो जो दृश्यमान मायारूप हैं इनमें उपयोग न फंसा अर्थात् अपनेको न परिवार बाला मानें, न अपने को पुरुष मानें, न अपनेको लड़ी मानें, न अपनेको शरीर बाला मानें, न अपनेको रानी ढेली मानें, किन्तु एक शुद्ध चंतन्यस्वरूप अपने आपकी मान्यता हो जाय तो इसको परम आनन्द उपजाने वाला प्रभु मिल जायेगा। भगवानको हम आंखोंसे नहीं देख सकते, किन्तु समात-परिणाम करके हम अपने आपमें अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे ही देख सकते हैं। इसी कारण सब बातोंका आश्रह छोड़ो, मत मानो कि मैं असुक-कुजका हूं, असुक जाति बाला हूं, शरीर बाला हूं। धर्मके समयके लिए कह रहे हैं। जिस समय प्रभुके दर्शन करते हुए ये सब बातें भुला दी जायें, केवल शुद्ध चित्प्रकाशके रूपमें अपनेको मानने लगे, फिर वहां प्रभुका दर्शन हो सकता है।

भगवान जो सिद्ध हुए हैं वे कर्मोंका क्षय करके हुए हैं। कर्मोंका क्षय होता है स्वसम्बेदन ज्ञानरूपी ध्यानसे अर्थात् केवलज्ञान प्रकाश मात्र अपने आत्माका ही सम्बेदन हो तो कर्मोंका क्षय होता है। अपने आपका कैसा सम्बेदन हो जाता है। रागादिक भाव नहीं हैं, केवलज्ञान प्रकाश है,

ऐसे व्याजके द्वारा जो कर्मक्षय होता है उसकी बात सिद्धकी होती है। ये कर्म इस जीवने आर्तध्यान और रौद्रध्यान करके कमाये हैं। यहां देखो रात दिन या तो आर्तध्यान चलता है या रौद्रध्यान चलता है। आर्तध्यान में होता है क्लेश और रौद्रध्यानमें मानते हैं मौज।

इष्टका वियोग हो गया उससे जो क्लेश हुआ उसका नाम है इष्ट वियोग आर्तध्यान। किसी अनिष्ट पदार्थका संयोग हुआ तो उसमें जो क्लेश चलता, विकल्प चलता है, विकल्पात्मक ध्यान चलता है उसे अनिष्टसंयोगज आर्तध्यान कहते हैं और शरीरमें कोई वेदना हो गयी, शारीरिक पीड़ा हो गयी, उस पीड़ाके कारण जो क्लेश चलता है वह विकल्प भी आर्तध्यान है और भोगके साधनकी बाड़ी करना, उस इच्छा कं कारण जो निरन्तर ब्लेश बना रहता है उस क्लेशको कहते हैं निदान वंप। वह भी आर्तध्यान है। तो ये संसारहचिक प्राणी या तो आर्तध्यानमें दुःखी रहते हैं या फिर रौद्रध्यानमें खुश मिजाज रहते हैं।

किसी जीवको सताया या अन्य किसीने सताया उस स्ताये हुए प्राणीको देखकर जो मौज होता है उसे कहते हैं हिंसानंद रौद्रध्यान। मूठ बोलकर आनन्द मानना असत्यानंद रौद्रध्यान कहलाता है। चोरी करके आनन्द मानना अथवा दूसरों को चोरी करमेका उपाय बताकर आनन्द मानना सो चौर्यानन्द है। परिग्रहमें आनन्द मानना सो परिग्रहानन्द है। सो यह जीव आर्तध्यान और रौद्रध्यानको निरन्तर कर्मसे बांधता रहता है। भला बतलाओ किसीका बुरा विचारने से इसको क्या फल मिलता है? किसीके अनिष्ट सोबनेसे इसको क्या भलाइ मिलती है? भगव कथाय ऐसा है कि उसके कारण यह इसीको ही ध्यानमें रख रहा है। अब उन्हीं सिद्ध भगवानका और विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं।

अणुवि वंशुवि तिहुयणाहौं सासयसुक्लसहाऽ ॥२०२॥

तित्यु जि सयलुवि कालु जिय रिवसह लद्धसहाऽ ॥२०२॥

तीनों भुवनोंमें रहने वाले प्राणियोंका जो हित करने वाला है और जिसका निरन्तर सुख स्वभाव है जिसने अपने आत्मप्रदेशके क्षेत्रमें अपने स्वभावको पाया है, हे जीव! वह सिद्ध प्रभु सदा कालमें ही सिद्ध पदमें निशास करता है। वह फिर इस चतुर्गतिमें अमरण करने ज आयेगा। नरकगति, तिर्यक्षगति, मनुष्यगति, वैष्णगति, इन चारों गतियोंमें यह जीवलोक दुःख भोग रहा है। नरकगतिके अधिके दुःख है, तिल-तिल बराबर देहवे स्वरूप हो जायें फिर भी वे सब मिल जाते हैं। मरते नहाँ हैं। वे जारकी जीव

चाहते हैं कि हमारा मरण हो जाय पर तिल-तिल बराबर भी देहके दुकड़े हो जायें फिर भी उनका मरण नहीं होता ।

तिर्यक्कगतिके दुःख एकेन्द्रियके दुःख, छेदे भेदे जाते हैं । दो इन्द्रिय के दुःख देखो—कौन उन पर दया करता है ? जूनोमें नाल लगी रहती है, देखना चाहते हैं कि इन पर पैर रखकर देखें—यह कैसे मरता है ? इतनी बात देखने के लिए उनके शौक होता है, मार डालते हैं । डीमर लोग उन दो इन्द्रियके कीड़ोंको अपनी जाल व बंसीमें लगाकर तालाबमें डाल देते हैं और उन्हें मार डालते हैं । दो इन्द्रिय जीवोंकी ऐसी दशा है । पशुपक्षी सभीका दुःख देखलो, कैसा उनके घोर दुःख है । मनुष्यगतिके दुःखोंको देखो—कोई दरिद्र है, कोई संतान बिना है, किसीका विवाह नहीं हुआ है, किसीके इष्ट वियोग हो गया, किसीका अनिष्ट संयोग हो गया, कितने प्रकारके कलेश इन जीवोंके हैं ? इन कलेशोंसे युक्त यह सारा संसार है ।

देवगतिके दुःख देव ही जानते हैं । जैसे कोई वनी आदमी है, जिसको हर तरहका वैभव मिला है, किसी प्रकारका कष्ट नहीं है फिर भी इज्जत पौजीशन बनाये रहनेका उसके अवश्य कलेश रहता है । इसी तरह वेदोंके खाने पीने, सर्वी गर्भका कोई कलेश नहीं है, फिर भी अपनेसे बड़ी शुद्धि प्राप्ति देवको देखकर वे अंतरंगमें दुःखों रहते हैं और अपनेसे छंटे देवोंको हुक्म दे देकर दुःखी रहते हैं । कोई बात नहीं भानता तो उसका भी कलेश किया करते हैं । तो देवोंके भी घोर दुःख है । इन चारों गतियों के दुःखोंसे वह छूट गया है जिसने रागादिक रहित, सर्व बाधा रहित शाश्वत मुख प्राप्त कर लिया है, वह मोक्षपदमें अनन्त काल तक निवास करता है । जैसा अपने आपके आत्माका सहज स्वभाव है वही उनके प्रकट हो गया है । अब उन्हें विकारका कोई कारण नहीं रहा । ऐसे सिद्ध प्रभु इस आत्माके चरम विकासकी अवस्था है ।

भैया, एक बार सिद्ध होकर फिर वह दुष्कारा कलेशोंमें आता नहीं । कोई कोई लोग कहते तो हैं कि यदि जीव मुक्त होते जायें तो फिर कभी संसार खाली हो जायेगा, इसलिए मुक्त होनेके बाद भी वे मुक्त जीव फिर संसारमें गिरते हैं बहुत समयके बाद, किन्तु ऐसा नहीं है । फिर इसका क्या समावान है कि जीव मोक्ष चलते ही जायें तो भी संसार खाली न होगा ? इसका समाधान यह है कि जीवराशि भी इनी अनन्त है कि अनन्ते जीव मोक्ष चले जायें तो भी अनन्त रहते हैं । दूसरी बात मुक्त की विचारिये कि जीव एक बार निर्विकार सिद्ध हो गया तो अब उसमें

रागद्वेषका विकार आयेगा कैसे ? न तो उनके साथ कर्मोदयका निभित्त है और न इन जीवोंकी कोई योग्यता रह गयी कि वे राग कर सकें । एक बार सिद्ध होनेके अनन्तर फिर अशुद्ध होनेका कोई प्रसंग ही नहीं है । तो वह सिद्ध अगवान् एक बार सिद्ध होनेके पश्चात् सदाकालं स्तु इत्यरहता है ।

यह सिद्ध पद मिलता कैसे है ? जो जीव मिथ्याद्विष्ट है, अज्ञानी है वह भी विकास करके इस सिद्धपदको प्राप्त कर सकता है । तो करण-नुयोग शास्त्रमें बताया है कि पहिले इस जीवको क्षयोपशम लिख दोना चाहिए । अनादि कालसे जो कर्म इस जीवके साथ लगे हुए हैं, जिनके उदयमें यह जीव दुर्गति भोगता है, उन कर्मोंमें पहिले हल्कापन आना चाहिए, क्षयोपशम आना चाहिए । कर्मोंका क्षयोपशम उचित हो गया, इसका प्रमाण क्या है ? इसका प्रमाण यह है कि कर्मसे कम हम आप लोगोंके तो इतना क्षयोपशम है कि जिसे हम क्षयोपशम लिख करते हैं । नहीं तो मनुष्य कैसे हो गए ? जो संज्ञी पंचेन्द्रिय हुए हैं उनमें कुछ न कुछ कर्म हल्के हुए हैं या नहीं ? एकेन्द्रिय विकलत्रय आदि जीवोंके जो कर्म ही उनकी अपेक्षा कर्म हल्के हैं या नहीं ? हल्के हैं ।

यदि क्षयोपशम है तो फिर इस जीवके विशुद्ध परिणाम ठहरते हैं । मोहान्धकार से दूर होकर गुरुभक्ति, देव उपासना, इनमें समय व्यनीत होता है । विशुद्धि लिखिये प्राप्त होनेके बाद इसमें इतनी योग्यता हो जाती है कि दूसरोंको उपदेश समझ सके और तत्त्वग्रहण कर सकें, इसे करते हैं देशनालिङ्ग । इसके साथ यहां यह भी जानना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक हम आप लोगोंका सम्यक्त्व पानेके लिए कर्तव्य क्या है ?

पहिला तो काम है मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्षका त्याग करना । मिथ्यात्व दो प्रकारका है— (१) गृहीत मिथ्यात्व और (२) अगृहीत मिथ्यात्व । अगृहीत मिथ्यात्व तो जीवको बिना दूसरेके ग्रहण कराये हुआ है, वह तो योग्य परिणाम होनेपर आप नष्ट होगा । बुद्धिपूर्वक गृहीत मिथ्यात्व लिए हैं, सो इस परका निष्ठोपदेश पाकर मिथ्यात्वको छोड़ना चाहिए । देवी देखता, भवानी सीतला आदि नाना प्रकारके देवी देखता हैं । उनको अपने सुखके लिए ध्याना, सिद्धि लाभके लिए उनकी मान्यता करना ये सब मिथ्यात्व हैं । सो मिथ्यात्वको त्यागो । दूसरा कर्तव्य है—अन्याय को त्यागो । अन्याय क्या है ? जो अपनेको प्रतिकूल जंचे अर्थात् हम पर कोई ऐसा व्यवहार करे जो हमें सहन न हो सके, ऐसा व्यवहार दूसरों पर हम करें तो इसीके मायने हैं अन्याय । अन्यायका त्याग करो, पांचों

पापोंका त्याग करनेसे अन्यथायका त्याग हो जाता है और अभद्र्यका त्याग, मांस मदिरा और ऐसी जीव जिसमें जीव हिंसा है उनका त्याग करो। ये जैनके मुख्य चिन्ह हैं। तो सम्यक्त्वके पानेके योग्य वह है जो मिथ्यात्म, अन्यथा और अभद्र्यका त्याग कर सके।

जब गृहीत मिथ्यात्म छूट गया तब अगृहीत मिथ्यात्म छुटेगा। कुछ और ज्ञानाभ्यास करिये। पांचों पाप करना अन्यथा है—दूसरोंको सताना हिंसा है, दूसरेके विषयमें मूठ बोलना—असत्य, दूसरेकी चीज चुरा लेना सो चौरी, छीनात्र पर कुछष्टि रखना सो ब्रह्मचर्यका उल्टा कुशील और परिग्रहकी लालसा रखना सो परियह। ये समस्त जीव इन पांचों पापोंसे दुखी हैं। सो पंचपापोंको त्यागो और अभद्र्यको त्यागो। इसके साथ ही साथ हमारे कुलधर्मका व्यवहार भी चले—देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, एक साला रोज़ फैर लेना, प्रभुमें अपनी श्रद्धा बढ़ायें, ये हमारे रोज़ के व्यवहार कार्य हैं और आचार विचारमें, जल पानमें रात्रि भोजन न करना यही हमारे आचरण हैं। जो सम्यक्त्व होनेके उन्मुख करते हैं। तो ऐसा अपना व्यवहार भी रहे और सम्यक्त्व परिणामके द्वयसे मुख्य उद्यम ज्ञानाभ्यास भी रहे।

ज्ञानाभ्यास के लिए अपने-अपने हृदयसे सोचो कि हम ज्ञानके अर्थ तन, मन, धन, वचनका कितना सदुपयोग करते हैं? हम अपने घरपर कितना खर्च करते हैं और उसमें से कितना खर्च अपने ज्ञानमें या समाजके बीचमें समाजके विकासके लिए कितना खर्च करते हैं? जीवोंका मुख्य काम है एक आजीविका और दूसरे निज जीवका उद्धार। इन दोनों में भी जीवका उद्धार सबसे प्रवान है। आजीविकाका उद्धार तो चंद ब्रह्मों के लिए है। भगर जीवका, वर्मका काम, सदाके लिए काम देगा। तो देख लो—और नहीं तो क्रमसे क्रम अपने कल्याणके लिए ज्ञान विकासके लिए तो खर्च हो, वर्ममें खर्च न हो तो सप्रभो वह धन मुफ्त ही गया। खाया, खाया, वह गया। उसमें खर्च हुआ। किन्तु देखा यह ज्ञान है कि साराका सारा धन खाया, खोया, वह गयामें खर्च होता है।

सो भैया! अपने व्यवहार वर्मको संमालते हुए और अपने परमार्थ ज्ञानके अभ्यासका यत्न करते हुए समय गुजारें। तो इसमें अपनेको लाभ है। ज्ञान पानेका अधिकसे अधिक यत्न करें, परस्परमें एक दूसरेसे सदा मधुर वचनका आलाप करें। ये ही अपने मुखी रहनेके उपाय हैं। इन उपायोंसे चलते हुए हम ज्ञानाभ्यासमें बढ़ें और कभी अपने व्यानके प्रताप से अपने आपमें उस फलकके दर्शन करें जिस ज्ञानमात्र स्वरूपकी भलकके

कारण इस जीवका उद्धार निश्चित है। संसारके संकटोंसे सदाके लिए यह जीव छूट सकता है तो अपने आपके यथार्थ ज्ञानसे ही छूट सकता है। जहाँ यह विश्वास हुआ कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, वहाँ इस जीवको आनन्द ही आनन्द है। तो भली प्रकार अपने आपमें अपने आपको देखकर तुष्ट रहें इसीमें इस जीवको आनन्द है। सिद्ध प्रभुका ध्यान हम इसलिए ही करें कि हे प्रभु ! मेरा भी स्वभाव आपके ही समान सदा आनन्दमय रहनेका है, मगर मोह कलंकके वशमें होकर निरन्तर क्लेश बने रहते हैं। मेरे वह प्रताप प्रकट हो जिससे मैं अपने आपके शुद्धस्वरूपको विकसित करके सदाके लिए क्लेश व लंकोंसे मुक्त हो सकूँ। केवल एक यही भावना प्रभुवर्णनमें हो और निरंतर यह ही भावना बनाएँ तो हमारा कल्याण निश्चित है।

जन्मणमरणविजयच चउगहुदुखविमुक्तु ।

केवलदंसणाणमय गंदंइ तिर्थुजि मुक्तु ॥२०३॥

सिद्ध भगवान जन्म मरणसे रहित है। जिनके जन्म और मरण लगा है वे सासारी वराक् प्राणी हैं। सिद्ध भगवान जैसे सहज स्वभावरूप हैं वैसे ही परम विकसित हैं। उनके न जन्म होता और न मरण होता। जन्म और मरणके बीचमें फौसा हुआ यह प्राणी इस तरहसे दुःखी होता है जैसे बांसकी पोलमें बैठा हुआ कीड़ा बांसके दोनों ओर पर आग लगी होने पर दुःखी होता है। कोई एक हाथकी बांसकी डंडी है, उसके बीचमें कीड़ा घुसा हुआ है। और बांसके दोनों ओर आग लग जाय तो जैसे वह कीड़ा बैचैन है, दुःखी है, इसी प्रकार जन्म और मरणके बीचमें यह जीव पड़ा है और इसके दोनों ओर जन्म और मरणकी आग लगी है तो ऐसी स्थितिमें यह जीव अत्यन्त विहृत होता है।

सिद्ध भगवानके न जन्म है और न मरण है। वह तो शरीररहित है। नया शरीर पाये तो उसको जन्म कहते हैं। पर सिद्ध प्रभुके नया शरीर होता ही नहीं है। पुराना शरीर उनका पहिले ही दूर हो गया, इस कारण सिद्ध भगवानके न जन्म है और न मरण है। प्रभुके दर्शन करते हैं तो दर्शन करके क्या शिक्षा लेना है कि हे प्रभो ! आप जन्म और मरणसे रहित हैं। हम जन्म और मरणके घक्करमें लगे हुए हैं। हमारे बसकी बात नहीं है कि हम अपना जन्म मरण मिटा सकें या कुछ समय टाल सकें। तो जैसे मरण पर बश नहीं है इसी प्रकार जन्म होने पर भी हमारा ब्रश नहीं है। मैं चाहूँ जन्म हो जाय, अमुक जगह हो जाय या साधारण रूपमें कहीं भी हो जाय। न हमारा जन्म पर अधिकार है और न मरण पर

अधिकार है। सिद्ध भगवानके तो जन्म और मरण है ही नहीं।

और किर कैसा है वह सिद्ध प्रभु कि चारों गतियोंके दुःखसे रहित है। इन चारों गतियोंमें जो दुःख है उन्हें सरल भाषामें कहा जाता है तो यही दुःख है कि इसके जन्म और मरण चल रहा है। चारों गतियोंके दुःख इसके बन रहे हैं। कहाँ तो आत्माका। सहज शुद्ध परमानन्दरूप स्वभाव है और इस आनन्दमय स्वभावसे आत्माको सुख है और कहाँ थे चारों गतियोंके क्लेश ? इनमें कितना अन्तर है ? आत्माका स्वभाव आनन्द भोगनेका है और विभावकी प्रकृति सब तरहके दुःख भोगनेकी है। भगवान सिद्ध प्रभु शुद्ध परमानन्द एक स्वभाव बाला है ऐसा जो आत्म-सुख होता है उससे बिल्कुल विपरीत है ये चारों गतियोंके दुःख।

और किर कैसे हैं सिद्ध प्रभु कि वेवलज्ञान और केवलदर्शनरूप अनन्त भावोंसे युक्त हैं। भगवानका ज्ञान बारी-बारीसे नहीं जानता, जैसा अपन लोग बारी-बारीसे जानते हैं। अब इसके जाना, इसके बाद किर धूसरेको जाना, यों प्रभुका जानन नहीं होता है। उनका ज्ञान तो समस्त लोक और अज्ञोकों एक साथ जानने वाला है। क्रम-क्रमसे उसका जानन नहीं होता है। इन्द्रियोंका भी सहारा नहीं है। जैसे हम लोग इन्द्रियोंसे ही सब कुछ पहचान पाते हैं, उन्हां भीठा आदि कड़ वा रस, काले पीले आदि नाना रंग, इन सबको हम इन्द्रियों द्वारा पहचान पाते हैं, किन्तु भगवान समग्र द्रव्योंको उन्हें गुण पर्यायिको एक साथ जान जाते हैं। ऐसा परमात्मा होनेकी हम सबमें शक्ति है पर मोह कर रहे हैं इसलिए शक्ति दबी हुई है। जिस दिन मोह छूटेगा उस दिन आत्माकी यह सहज शक्ति प्रकट हो जायेगी।

भगवान न तो क्रमसे जानता है और न इन्द्रियोंके आधीन होकर जानता है, न केवल सामने की ही जानता है किन्तु वह सबको एक साथ जानता है, अपनी आत्मीय शक्तिसे जानता है और अगे हो या पीछे हो सबको एक साथ जानता है। ऐसे केवलज्ञान व केवलदर्शनसे सिद्ध प्रभु रचा हुआ है। वह प्रभु ज्ञानमय है, केवलदर्शनमय है। सो यह सिद्ध प्रभु अपने ऐसे स्वरूपमें रहकर करता क्या है कि अपने जो ज्ञानादिक गुण हैं उन गुणोंमें सदा आनन्दित रहता है।

मैथ्य ! अपन लोगोंने बंदा ऊँचा पुराय पाया है। पूर्वोपार्जित पुराय का उदय है जिससे मनुष्यगति मिली और ऐसा अहिंसामय समागम मिला। इतने पर भी हम धर्मका आदर नहीं करते और जैसे पश्च वक्षी बनकर विषयोंमें मौज लेते थे इसी तरह विषयोंका मौज लेते रहे तो ऐसा मनुष्य

जन्म पाना और न पाना सब बराबर है। मनुष्य जन्म पाना तभी सफल है जब अपना विशद् ज्ञान कर सकें, अनुभव कर सकें और अपने सच्चृप के अनुभव के द्वारा अपनेको कहाँसे बचा सकें।

यह आत्मा अपने अविनाभावी जो अनन्त ज्ञानादिक गुण हैं उन गुणोंके साथ जो आनन्दित हुए हैं वे हैं अरहंत और सिद्ध भगवान। ऐसे गुणधर्मी वे भगवान अपने स्वाभाविक अनन्त ज्ञानादिक गुणोंके साथ वृद्धिको प्राप्त हुए हैं और उस ही मोक्षपदमें वे अविचल रूपसे रहते हैं।

ज्ञानावरणादिक जो न कर्म हैं उनसे तो सिद्ध भगवान रहित हैं। उन्हें काई बाधा नहीं होती। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। सम्बन्ध दशन, ज्ञान आदि गुणों करके सहित सब समान हैं।

ऐसे सिद्ध प्रभुको इन दो तीन विशेषणों से संक्षेपमें जानिए कि उसके जन्म मरण नहीं होता, चार गतियोंके दुखोंमें नहीं जाते और केवलज्ञान, केवलदुर्शनके अनुभवसे सदा आनन्दित रहते हैं। ऐसे सिद्ध प्रभुको मेरा भाव नमस्कार हो।

अब इसके बाद यह बतलाते हैं कि जो परमात्माके प्रकाशकी भावनामें रत है और यथकी अपेक्षा परमात्मप्रकाशके उपयोगके उन्मुख हैं उन पुरुषोंका फल दिखाते हुए अब इस सम्बन्धमें दीहा कहते हैं।

जे परमपवयासु मुणि भाविं भावहिं सत्यु ।

मोहु जियेविणु सवलु जिय ते बुझहि परमत्यु ॥२०४॥

जो मुनिजन इस शास्त्रकी भावना करते हैं। किस शास्त्रकी? इस परमात्मप्रकाशकी। इस प्रन्थका नाम है परमात्मप्रकाश याने जो परमात्मा की बात बताये तो यह परमात्माकी बात दिखाता है। इस निषेध इसका नाम परमात्मप्रकाश है। इस परमात्मप्रकाश प्रन्थके साध्यमसे परमात्माके प्रकाशकी ज्ञानीजन भावना करते हैं। काहे के द्वारा भावना करते हैं? अपने शुद्ध भावोंके द्वारा जिसमें किसी प्रकारका रागादिक अपद्ध्यान न रहा हो, ऐसे शुद्ध भावोंसे जो परमात्मप्रकाशकी भावना करते हैं वे परमार्थको जानते हैं। क्या करके उन्होंने परमार्थको जाना? रागद्वेष मोह इस मोह बैठीको जीत करके अपने आपके गुणोंको उन्होंने जाना। यह मोह कैसे जीता जाय? इसका उत्तर यह है कि यह समझमें आना चाहिए कि मेरा मोह स्वभाव नहीं है। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप बर्तता हुआ कभी थकता नहीं है और जो जिसका स्वभाव नहीं है उस कार्यको करे तो वह थक जाता है।

जैसे यह जीव क्रोध करके तो कितने क्षण क्रोधमें व्यतीत करेगा?

अंतमें यह थक जायेगा । इसलिए क्रोध आत्माका स्वभाव नहीं है, कल्याण नहीं है, धर्म नहीं है । धर्मड करे कोई तो वह कितने समय तक करेगा ? कहां तक अपनी बड़ी और ऊँची बात करेगा ? वह थक आयेगा । इस कारण धर्मड करना इस जीवका स्वभाव नहीं है । जो जीवका स्वभाव है वह जीव के साथ बना रहता है । ऐसे शुद्ध भावों सहित जो परमात्माका ध्यान करता है वह इस परमार्थको जानता है । कैसा है यह समस्त मोह कि वह समस्त संकटोंका कारण है । इसको जान करके ही परमार्थ जाना जा सकता है ।

जो गुणविशिष्ट तपस्थीजन हैं वे इस पर-आत्मतत्त्वको ध्याते हैं । परमात्मतत्त्व है परमार्थ । परमार्थ शब्दसे धर्थ हुआ चिदानन्द एक स्वभाव बाला परमात्मा । अब बतलाको रोज दर्शन करने तो जायें और अन्तर्में यह आवाज़ न उठे कि हैं प्रभु ! हम बड़ी गती पर २४ घन्टे रहते हैं, तुम्हारा जैसा कार्य मुझसे बने तो आपकी भक्तिका प्रसाद मिले और पूजा करलें, दर्शन करलें और चित्प्रकाशके गुणानुरागमें चित न जायें तो बतलाको चित्प्रकाशकी मूर्तिके दर्शन करनेसे क्या फायदा उठाया इस चिदानन्द एक स्वभाव बाले परमात्मतत्त्वको विशिष्ट तपस्थीजन धारण करते हैं । ऐसे परमात्माका इन ग्रन्थोंमें बर्णन किया गया है । आत्माका जो उत्कृष्ट स्वभाव है उसका वर्णन किया गया है । जो जीव जानता है उस परमस्वभावको वह जीव कभी परमस्वभावको प्राप्त कर लेगा । जिसने अपना स्वभाव न जाना वह अपने स्वभावका कैसे विकास करेगा ? तो जो परमात्मप्रकाशकी भावना करते हैं उनका यह फल विस्ता रहे हैं कि परमार्थ तो उन्होंने ही जाना ।

अण्णुवि भक्तिए जे मुण्डि इहु परमपपयासु ।

लोयालोयग्रासयरु पावहिं तेवि पयासु ॥२०५॥

और भी विशेष फल बतलाते हैं कि जो भक्तिसे परमात्मप्रकाशको जानते हैं वे लोक और अलोकका प्रकाश करने वाले अद्युत प्रकाशको याने केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्रकट कर लेते हैं । परमात्मतत्त्व क्या है ? सो निरखें । अबने आपमें आत्माका जो सहज ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञान स्वभावरूप अपने को देखें तो उस परमात्मतत्त्वको जान सकते हैं । जो ऐसा मानते हैं कि हम युरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, अशुकके पिता हैं, वे इस प्रभुका दर्शन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि यह जो शरीरमें अपने आत्माकी बुद्धि बनाते हैं कि यह ही मैं हूं, वह इस शरीरकी बुद्धिमें ही वे अटक जाते हैं और प्रभुके दर्शन नहीं कर पाते । प्रभुका इर्शन तब होता

है जब कोई संकल्प विकल्प न हो। संकल्प विकल्प तो रात दिन किए जा रहे हैं, और चाहें कि प्रभुका दर्शन मिले तो संकल्प विकल्प करने वाले को प्रभुका दर्शन नहीं मिलता।

तब क्या करना है कि इन खोटे संकल्पोंको मेटनेके लिए भगवानका गुणानुचाव करें, भगवानका जाप करें, उनका नाम इमरण करें बड़े पुरुषोंकी सेवा शुश्रूषा करें तो इन अच्छे कामोंमें पड़ने से जो खोटे कामकी चोटें होती हैं वे नहीं हो सकतीं। यह जीव चाहता तो सुख है पर सुखके काम नहीं करना चाहता। डरता तो दुःखोंसे हैं पर दुःखोंके ही काम किया करता है। इन इन्द्रिय विषयोंकी प्रीति करना हुस्का ही कारण है। अपनी झुटगर्जीमें रहना, अपने ही खाने पीनेकी झुमि रखना, अपने आराममें जरा भी फूंक आए तो गुस्सा करना, दूसरोंकी जान ही न समझना, दूसरोंकी सेवा करनेका भाव न होना, अपने ही अपने खाने पीनेकी झुनिमें रहना, यदि यही रहा तो बतलाओ घर्म कहाँ हुका? घर्म तब होता है जब अपने शरीरकी भी खबर नहीं रहती है। जो है सो है।

हितार्थिके शरीरमें अहंकार नहीं पैदा होता है वह तो दृष्टि देता है घर्मकी ओर, शरीरकी ओर नहीं। तो अपने व्यवहारमें इतना तो होना चाहिए कि हम दूसरोंकी सेवा करें, किसीको मेरे द्वारा कोई कष्ट न पहुंचे ऐसी भावना करें व यत्न करें। सुखी होनेका सीधा उपाय यह है कि हम सब जीवोंको सुखी होनेकी भावना करने लगो। इसमें आपका क्या बिगड़ होता है? अगर ऐसी बात मनमें धारण करते कि जगत्के सब जीव सुखी हों तो इसमें क्या बिगड़ गया? जगत्के सभी जीवोंको सुखी होनेकी भावना हो तो इसमें कोई टौटा नहीं पड़ता है बल्कि दूसरोंके सुखी होनेकी भावना करनेसे अपने धर्म सुख होता है।

अभी भी वहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि दूसरोंको खिलानेसे हुश रहते हैं, खुदके खानेमें इतना खुश नहीं होते। दूसरोंको आराम पहुंचानेमें संतोष करते हैं और सुखी होते हैं। पर यह बतलाओ कि अगर सब जीवों के सुखी होनेका मन बना लें, सब सुखी हों तो इससे धारा क्या हुआ? फायदा ही हुआ क्योंकि अपने शुद्ध सुख स्वरूप पर दृष्टि गई तो उससे लाभ ही हुआ निर्मलता बढ़ी, किन्तु मोही जीव अपने गंदे आघोंमें रहता है और उन ही वैभवोंमें रमकर अपना जीवन खो देते हैं।

देखो मैया! इस मनुष्यको चारों चीजें बुफ्त मिली हैं। शरीर, यह मुफ्तमें ही मिला समझो। अनन्त काल तक अनन्त जन्म मरण किया

और अचानक मिल गया। यह मनुष्यशरीर तो बहुत बड़ी दुर्लभतासे मिला है और ऐसा मन मिला जो सबकी बातोंको सौच सकते हैं, यह मन भी बड़ी दुर्लभतासे मिला है और धन भी जिससे आजीविका हमारी स्थिर रहे, वह धन भी सुयोगसे मिला और बोलनेकी शक्ति भी इस मनुष्यमें सर्वजीवोंसे विलक्षण है। तो तन, मन, धन और वचन ये चारों जीवें जब हम आपको मिल गई हैं तो इनका सदुपयोग करें। तनका सदुपयोग यह है कि दूसरोंको कल्याणमार्गमें लगानेकी प्रेरणा करें। तो जो जीव सबके सुखी होनेकी भावना करेगा वह जल्द सुखी होगा। और जो दूसरों को दुःखी होनेकी भावना करेगा तो वह पापी है क्योंकि वह दूसरेके दुःखी होनेकी भावना कर रहा है। अपने आपका जैसा सुख स्वभाव है वैसा सब जीवोंका है। यदि वे जीव सुखी हो जायेंगे तो क्या उससे हमारे सुखमें कमी आ जायेगी?

देखो भैया! धर्मकी रुदिसे ही लाभ नहीं है। हम लोग कीदों मकौड़ोंसे भी क्षमा मांगते हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय सभी जीवोंसे क्षमा मांगते हैं। सामाजिक करते हुएमें कहते हैं कि मैं समस्त जीवोंसे माफी मांगता हूं, इस प्रकारसे बोलते हुए भी मनुष्योंसे कितना ही असदृच्यवहार रहे पर क्षमाकी बात न मांगे तो कीदों मकौड़ोंसे माफी मांगता ढौंग ही रहा। जैसे भगवानके सामने रुतिमें कह जाते हैं कि “आत्मके अहित विषय कथाय, इनमें मेरी परिणति न जाय” ऐसा कह भी जाते हैं भगव ऐसा करनेके लिए रंच भी तैयार नहीं होते हैं। तो कहते भी जाते हैं और प्रसुको धोखा भी देते जाते हैं। तो उनको धोखा देनेसे कहीं प्रसुका तुकसान नहीं है। धोखा देने वाला खुद अवनितिमें है सो वह धर्मका कार्य नहीं कर सकता है।

सो भैया! धर्मके लिए तो इतना करते रहो कि सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना रखो। दूसरोंका सुख चाहोगे तो खुदको भी सुख मिलेगा। दूसरोंका सम्मान करोगे तो दूसरोंके द्वारा तुम्हें भी सम्मान मिलेगा और दूसरोंका बुरा विचारोगे तो खुदका भी बहुत बुरा हो जायेगा। सो अपनी सावधानी यह है कि तनसे दूसरोंकी सेवा करें और मनसे दूसरोंके सुखी होनेकी भावना रखा करें और धनसे काहि दुःखी है, दरिद्र है, संकटमें है तो धन खर्च करके उसके संकट मिटावें। वचन ऐसे बोलते रहो कि सुनने वाले लोग कष्टमें हों तो तुम्हारे वचनोंसे उनका कष्ट दूर हो जाय। सो सर्व मधुर वचन बोलने चाहियें। तो यों जो विनाशीक मिली है चारों चोरं - शरीर, मन, धन, और वचन, सो इनका सदुपयोग कर लो। रहेंगे

तो ये हैं नहीं, पर जब तक हैं तब तक इनका सदुपयोग करो और अपने परिणाम सदा शुद्ध रखो। कौन आया, कौन गया, मेरा क्या? कौन दूँरे का? इन सब स्थितियोंको छोड़ो और अपने आपमें अपनी निर्भलता बढ़ावो। दूसरोंको सुखी होनेकी भावना करोगे तो खुदको भी सुख होगा। सो जो अपना भला चाहे वह दूसरों पर कषाय न करे—यह धर्मका पहिला रूप है।

इस धन्यका नाम परमात्मप्रकाश है। योगीन्द्रु देव कह रहे हैं कि जो भक्तिपूर्वक इस परमात्मप्रकाशको जानते हैं अर्थात् इस परमात्मप्रकाश धन्यके बाल्यरूप परमात्माके प्रकाशको जानते हैं वे जन स्वयं ही लोक और अलोकका प्रकाश करने वाले प्रकाशको प्राप्त होते। परमात्माका प्रकाश है केवल ज्ञानरूप। जिसका असीम विकास हुआ, समग्र पदार्थोंका जानना ही जिसका कार्य है ऐसे परमात्माके प्रकाशको जो जानते हैं वे भी निविकल्प होकर इसही प्रकाशमें अपनी समाधि पाकर इस प्रकाशरूप हो जाते हैं अर्थात् वे तीनलोक, तीनकाल सम्बन्धी समर्त पदार्थोंको जानने वाले हो जाते हैं इसी विषयमें और भी कह रहे हैं।

जे परमप्रयासयह अणुदिणु लाउ लयति ।

तुट्टु मोह तडिति तहैं तिहुयणणाह हवंति ॥२०६॥

जो अथ जीव परमात्मप्रकाश धन्यका अथवा निश्चयसे परमात्मप्रकाशका अर्थात् केवलज्ञानादि अनन्तगुणसहित परमात्माका जो विकास है उसका प्रतिविन सदैव नाम लेते हैं, उस स्वरूपको लक्ष्यमें लेकर जो ध्यान करते हैं उन जीवोंका मोह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वे तीन भुवनके नाथ हो जाते हैं। परमात्माके प्रकाशका अर्थात् अगवानके रूपरूप का जो नाम लेता है उसका नाम ही नहीं, पर किन्हीं शब्दोंसे उस स्वरूपको जो कलकमें लेता है उस जीवका मोह शीघ्र हट जाता है।

यह जीव मोह करता है इस स्थितिमें कि जब उसे अपने ज्ञाननन्द रचरूप वैभवका पता नहीं है। अपने उक्षेत्र वैभवका पता हो तो यह परपदार्थोंमें मोह नहीं कर सकता क्योंकि यह स्वतंत्र है, अनन्त आनन्दका निधान है। जब इसे अपने सहज आनन्दरूपका पता हो जाय तो फिर इन मायामय, असार दुःखप्रद बाह्य पदार्थोंसे कैसे सुचि करेगा? मोह नहीं रहेगा। मोह न रहेगा तो कुछ ही समय बाद यह तीन भुवनका नाथ हो जायेगा। यह मोहपरिणाम उस स्वरूपसे विलक्षण तत्त्व है। मैं तो निर्देष आत्मद्रव्य हूं और यह मोह दोषस्वरूप है। इस निर्मोह आत्मद्रव्यसे विपरीत यह मोह उनके हट जाता है। जिन्होंने परमात्माके प्रकाशरूप

आंतरिक मर्म का यह परिचय पाया है कि भगवान् ज्ञान और आनन्दकी मूर्ति हैं।

भैया ! भगवानका दर्शन शरीरके दर्शनसे नहीं होता । यदि किसी आकारमें प्रभुका हम दर्शन करना चाहें तो नहीं होता । प्रभु तो ज्ञान-स्वरूप और आनन्दस्वरूप है । प्रभुका स्वरूप जाननेके लिए किसी बाधा-पदार्थकी और हृष्टि नहीं लगाना है किन्तु अपने ही आंतरिक स्वरूपमें हृष्टि लगाना है । अपने आपके स्वरूपका परिचय होनेसे परमात्माके स्वरूपका परिचय होगा । जिन्हें परमात्माके स्वरूपका परिचय हुआ है उनके मोह कैसे रह सकता है ? उसे तो यह हृष्टिगत हुआ कि यह ज्ञानानन्दप्रकाश अपने स्वरूपसे मात्र ज्ञानानन्द रूप है, यह किसी अन्य पदार्थसे नहीं होता । और जह यह कहीं कुछ चीजको लगेटकर प्रकट करता है किन्तु जो स्वरूप है इसका अपने सत्त्वके कारण वही स्वरूप प्रकट हो जाता है । जो इत प्रकार परमात्माके स्वरूपको जानते हैं उनके मोह नहीं रह सकता ।

निर्देष शुद्ध आत्मतच्चकी माधवा जिनके जगी है इस ज्ञान बलसे पहिले वे देवन्द्र चक्रवर्ती आदि विशेष विभूतिको प्राप्त करते हैं और पश्चात् जिनदीक्षाको प्रहण करते हैं वर्धात् इस समस्त वैभवका परित्याग करके अपने आत्माके व्यानका ही संकल्प और संयम करते हैं । सो वे मध्यभाग केवल ज्ञानको उत्पन्न करके तीन लोकके नाथ होते हैं । प्रभुका अक्त सर्वणीकरण पाता है और मनुष्यमें होने वाला उत्कृष्ट वैभव फलको पाता है और पीछे संप्रस्त वैभवका त्याग करके यह अपवर्ग पूँछको प्राप्त होता है । इस पन्थकी समाप्तिके समय प्रशस्तिरूप यह वर्णन चल रहा है । परमात्मप्रकाश जो होता है उसका इसमें वर्णन किया है । यद्यपि इस पन्थमें मुख्यतया आत्माके स्वभावका वर्णन है जो सर्वजीवोंमें सत्ताके कारण पाया जाता है । पर जो स्वभाव होता है वह विकासमें मिलता है ।

जैसे पानीके स्वभावको लोकब्यवहारमें ठंडा कहते हैं और अग्निके संयोगसे पानी गरम हो जाय तो ऐसी गरम हालतमें भी पानीका स्वभाव पूँछे कि कैसा है ? तो कहेंगे कि इसका स्वभाव ठंडा है । यद्यपि पानी अभी गरम है किन्तु स्वभाव पूँछा जायगा तो ठंडा कहा जायगा । वह ठंडाफन यहां व्यक्त नहीं है किर मी स्वभाव तो ठंडा ही है । उगाचि दूर हो, ताप संयोग दूर हो तो पानी ठंडाका ही ठंडा रह जायगा । इसी प्रकार इन रुलने वाले संसारी जीवोंका भी स्वभाव पूँछा जाय कि कैसा है ? तो उचर मिलेगा कि ठंडा है । कैसा ठंडा ? शांत । कषाय अग्निसे गरम नहीं

है। जैसे परमात्मप्रकाश शीतल है, दुःख संतापसे दूर है इसी प्रकार जीवका भी स्वभाव संतापक्लेशोंसे दूर है।

कैसे हमारा यह आनन्दस्वभाव प्रकट हो ? हम अपने आनन्द स्वभावकी भावना बनाएँ—मैं स्वरसतः आनन्दमय हूँ, स्वयमेव ज्ञानमय हूँ—ऐसी अपनी भावना बनाएँ तो हम आनन्दमय बन सकते हैं। पर संतापके पुरुष अपनेको नाना पर्यायरूप बनाते हैं सो उन्हें संसारकी पर्यायें मिलती चली जाती हैं। सो जो जीव हस परमात्मप्रकाश अन्थको पड़कर पर्यायरूप कार्यसमयसाररूप परमात्मा के प्रकाशकी पहचान करते हैं और भगवानके स्वरूपको जानकर अपने आत्माके स्वरूपकी पहचान करते हैं वे जीव तुरन्त ही मोहको तोड़ते हैं और रागद्वेषको भी तोड़कर तीन मुबनके नाश होते हैं। इस प्रकार इन तीनों दोहोंमें परमात्माके प्रकाश की भावना बनाने से जो फल होता है उसके फलको बतानेकी मुख्यतासे परमात्मप्रकाशकी महिमा शाही गई है।

अब इस परमात्मप्रकाश प्रन्थ द्वारा जो लक्ष्यमें लाया गया है ऐसा जो यह परमात्मा है उसके आराधक पुरुषोंका लक्षण बतानेके लिए अब इस काव्यको आचार्यदेव कहते हैं।

जे भवदुक्खहैं जीहिया पठ इच्छहि गिन्वाणु ।

इह परमपूर्णप्रयासथहैं ते पर जीगा वियाणु ॥२०७॥

वे ही महामुकुर हस परमात्मप्रकाश प्रन्थके अभ्यास करनेके योग्य होते हैं जो चारों गतियोंके दुःखोंसे डर गए हैं और निर्वाण पदकी चाह करते हैं। देखो अभी जिन मनुष्योंको बड़े क्लेश हैं, चिंताएँ हैं, भंगट हैं उनका तो मन इन क्लेशोंके कारण धर्ममें नहीं लगता। कहते भी हैं कि जब निरिंचित हों, किसी प्रकारका अंतराय न हो, विपत्ति न हो तो धर्मको चित्त चाहना है। पर जिनके सब प्रकारका मौज हो गया है वे मौजमें ही प्रस्त रहते हैं तो उनको धर्म करनेका भाव नहीं होता तो जो जीव मौजमें हों या दिरिद्रिता या किसी कमीके संकटसे क्लेशमें हों, जो पुरुष अपने धर्म में चित्त लगाते हैं वे धन्य ही हैं। आत्माके भवित्वका कैसला बाह्य संसर्गसे न होगा किन्तु आत्माके भावसे होगा। जैसा आत्मपरिणाम किया है वैसा कल हस जीवके स्वयं आगे आता है। खोटे कर्म किया है, पाप अंश किया है तो वह भी न छोड़ेगा और हुभ भाव किया है, त्याग भाव बनाया है, पुण्यवंश हुआ है तो वह भी आगे आयेगा।

तपध्याक फत्तसे आत्मध्यानके प्रतापसे वे बांधे हुए कर्म अनुभाग हीन बनकर असमयमें खिर जायें, खिर जाओ, किन्तु जीवको सुख दुःख

जितने होते हैं वे उनके कर्मोदयका निमित्त पाकर ही होते हैं। दूसरे जीवोंके द्वारा किसी दूसरे जीवको सुख या दुःख नहीं होता है। इस जीव को शरण है तो अपना परिणाम है। चाहे किसी अवस्थामें इसका समाधान करें, जब भी अपनेको शरण होगा तो अपना परिणाम शरण होगा, ज्ञान शरण होगा। दूसरा जीव कोई भी उसे शरण नहीं हो सकता। इन समागमोंके बीच भी यदि आपको घरके लोग या और लोग कुछ पूछते हैं, बिनय करते हैं और मिष्ठ वचन बोलते हैं, आपके सुखके अनुशूल अपनी चेष्टा करते हैं तो यह न समझो कि ये लोग देखो मेरी कैसी सेवा कर रहे हैं? वहां भी आपका उदय है। पूर्व समयमें जो मृदा-एर धर्म-पालन किया था उसके फलमें जो मुकुनका वंघ हुआ उसके उदयमें ये लोग पूछ रहे हैं।

भैया! खुद बुरा है तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है और यदि खुद अच्छा है तो इसके पूछने वाले दसों हैं। भिला है कोई ऐसा आपको कि खुद बुरा हो और फिर भी दूसरे लोग इसकी इज्जत करें या खुद अच्छा हो तो लोग फिर भी इसे गिरायें? भले ही इतना फक्क पड़ जाय कि वर्तमानमें भले होने पर भी पूर्व कर्म बहुत बुरे किए थे उनका उदय अभी चल रहा है। सो उस स्थितिमें वर्तमानमें चाहे जो हो ले, पर वर्तमान भलेका अन्तरमें प्रशाप नहीं टलता। सो जो उदयमें आ रहा है वह बुरा उदयमें आ रहा है इसलिए यह बात बन रही है। पर वर्तमानमें जो निर्मल परिणाम किया जा रहा है वह भी आगे निष्फल न जायेगा। उसका भी आगे फल भिलेगा। केवल अपना आत्मा ही अपने आपको शरण है। इस सदाचारसे रहेंगे तो हम अपने लिए शरण हैं और खुद मोटे आचार विचारसे चलेंगे तो कोई जीव किसी दूसरेका कुछ लगता नहीं है। हम तो खोटे रास्ते पर चलें और फिर भी खोग हमें बढ़ाये रहें ऐसा इस जगतमें अधिर नहीं है।

जहां वस्तुकी पूरी स्वतंत्रता है और निमित्तनैमित्तिक मावसे अथावस्थित पदार्थोंका परिणामन चल रहा है वहां यह अंधर नहीं हो सकता कि हम अच्छा काम करें और फिर भी हमें कष्ट हो, हम बुरा काम करें फिर भी लोग हमारे सुखके साधन जुटाएँ। येसा जानकर है कल्याणार्थी जनों! इस संसारसे कुछ भय तो होना चाहिए। राग-रागमें ही मर्त्त होकर रहें तो मिलेग क्या अंतमें? जब वियोग होगा तो संक्लेशसे भरण होगा। इस कारण बुद्धिमानी यह है कि जब तक समागम भिला हुआ है तब तक समागमसे अपनेको लुधा जानकर उसमें हर्ष न मानो।

पुण्य और पापके फलमें हर्ष और विषाद करना यह अज्ञान है। क्योंकि ये समस्त ठाठ कुछ दिनको मिले हैं, फिर मिटेगे। पुण्यके फलके आश्रय-भूत जो पदार्थ हैं न वे सदा रहेंगे और पापके फलके आश्रयभूत जो पदार्थ हैं न वे सदा रहेंगे।

संसारमें दुःख और सुख चक्रकी तरह परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे चक्र शा आरा परिवर्तन कर रहा है कभी जीवे कभी उपर, इसी तरह सुख और दुःख इस जीवके साथ परिवर्तन कर रहे हैं। दुःख भोगनेके बाद सुख आता है और सुख भोगनेके बाद दुःख आता है। नारकी जीव घोर दुःख भोगते हैं तो नारकी फिर मरकर नारकी नहीं बनते। पहिले और कुछ बनेंगे—मनुष्य बनें, तिर्यक बनें तब कहीं नरकमें जायेगा तो जायेगा। जैसे मनुष्य मरकर मनुष्य बन सकता है इसी तरह नारकी मरकर नारकी नहीं बन सकता है और देखो देवोंके सुखका समागम विशेष है, उनके पुण्य अधिक है, सुख बहुत मिला है तो वह देव मरकर फिर देव नहीं होता क्योंकि अभी तक अधिक सुख भोगा। अब उस सुखके बाद वहीं सुख न मिलना चाहिए, किन्तु थोड़ा दुःख मिलना चाहिए। तो सुखके बाद दुःख आता है और दुःखके बाद सुख आता है। पर कर्मोंका विनाश हो जाने पर जो आवन्द प्रकट होता है उस आनन्दका कभी विनाश नहीं होता।

जगतका ऐसा अमार स्वरूप जानकर है कल्याण जाहने वाले पुरुषों ! संसारके दुःखोंसे भय करो। जो संसारके दुःखोंसे भय करते हैं वे ही दुःखोंसे छूट सकते हैं। जो आगसे जलनेका धर मानता है वह आगको क्यों पकड़ेगा और क्यों जलेगा ? जो छोटे बच्चे नहीं जानते हैं कि आग जलने वाली चीज है तो जलता हुआ कोयला पड़ा हो तो खेजने के लिये बड़े आरामसे हाथमें उठा लेता है। होता क्या है अतमें ? जो होना है सो उसका हाथ जल जाता है। पर जो समझता है कि आग जला देने वाला पदार्थ है वह कभी आग पर हाथ न रखेगा। यदि आग डाकर दूसरी जगह रखना है और चीमटा आर्कि कोई साधन नहीं है तो वह आगको सावधानीसे डाकर शीघ्र छोड़ देता है। तो संसार के दुःखोंसे यदि डरते हो तो उससे डर मानो !

संसारके दुःखोंसे डर मानो—इसका अर्थ यह है कि दुःखोंके कारण-भूत जो पाप कार्य हैं उनको भत करो। अनादि कालसे पापके बंध चले आ रहे हैं, उदय चला आ रहा है। संस्कार खोटे बन रहे हैं, ऐसी स्थितिमें अपने आपका सुवार करना है, तो सुधारके लिये जो ज्ञान ध्यान और अनेक साधन बनाए जाते हैं तो उसका फल अभी यदि नहीं मिला

तो कुछ समय बाद उसे अवश्य मिलेगा। सो अनेक उपाय करके एक परमात्माके प्रकाशका परिचय तो पा लो। कैसा है प्रभव। ज्ञान, जिस ज्ञानसे लोकालोकवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं? जो ज्ञान अपने आपके ज्ञानकी भलक लेता हुआ बना रहता है ऐसे उस परमात्मा के ज्ञानका परिचय करो और उस परिचयके साथ अपने आपके अन्तरात्मा का भी परिचय करो। इस परमात्मप्रकाशके परिचयसे अवश्य ही यह परमात्मप्रकाश अपने आपमें उत्पन्न होगा।

जे परमप्यहँभत्तियर विसयण जे वि रमंति ।

ते परमप्यपथासयहँ मुणिवर जोग्य हवंति ॥ ३०८ ॥

जो परमात्माकी भक्ति करने वाले मुनि विषय कथायोंमें नहीं रमते हैं वे ही मुनीश्वर परमात्मप्रकाश के योग्य होते हैं। आत्मा तीन प्रकारके होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। छहद्वालामें पढ़ा होगा—बहिरात्मा पुरुष वह है जो देह और जीवको एक माने। वह तो उपलक्षण से कहा है। अपने विषय कथायोंको और अपने स्वरूप को जो एक भानता है वह बहिरात्मा पुरुष है। अन्तरात्मा वह कहलाता है जो समस्त परद्रव्यों से बिन्न अपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपको आत्मा समझता है। परमात्मा वह कहलाता है जो रागद्वेष मोहसे सर्वथा दूर है। जिसके ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति चरम विकासको प्राप्त हो गए हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। इन सबमें सर्वाङ्ग आत्मा है परमात्मा।

परमात्मा दो पदोंमें पाये जाते हैं। एक शरीर अवस्थामें और एक आशीर अवस्थामें। सशरीर अवस्थामें जो परमात्मा होता है उसे कहते हैं अरहंत और जो शरीररहित अवस्थामें होता है उसे परमात्मा को कहते हैं सिद्ध। दोनों ही परमात्मा हैं। ज्ञानमें किसी के अन्तर नहीं है। अरहंत और सिद्ध दोनों ही ज्ञानसे समान हैं। अरहंतके भी केवल ज्ञान होता है और सिद्ध भगवानके भी केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानके द्वारा अरहंत समस्त लोकालोकको जानते हैं। केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोक अलोकको सिद्ध भगवान जानते हैं। समस्त लोकालोकके जानने वाले अपने आत्मा को दरशायें लेते हैं अरहंत भगवान, वैसे ही अपने सर्वज्ञ आत्माको दर्शनमें लेते हैं सिद्ध भगवान। वह दर्शन भी जैसा अरहंत भगवानका है, वैसा ही सिद्ध भगवानका है।

अब आनन्द की बात देखो जैसा आनन्द अरहंत भगवानका है वैसा ही आनन्द सिद्ध प्रसुका है। अपने आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हुआ आनन्द अरहंत भगवानमें है, सो ही आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हुआ

आनन्द सिद्ध भगवानके है। आनन्द में भी अरहंत और सिद्ध के रंच अन्तर नहीं है। इसी तरह शक्ति-आत्माकी शक्ति आत्माके गुणों वा विकसित बनाती है। तो जैसे अरहंत भगवानकी शक्ति उनके गुणोंको पूर्ण विकसित बनाए है इसी प्रकार सिद्ध भगवानके गुणोंको भी सिद्धभगवानकी शक्ति पूर्ण विकसित बनाए है। शक्तिमें भी अरहंत और सिद्धमें अन्तर नहीं है।

आप लोगोंने दोनों तरहकी मूर्ति देखा होगा। अरहंतकी मूर्ति तो पुरुषके आकार पुरुषके जैसे अंगों वाली मूर्ति होती है और सिद्ध भगवान की मूर्ति एक पीतलके पत्ता पर जो आकार मात्र छुदा होता है वह ही सिद्ध की मूर्ति। इन दोनों ही मूर्तियोंमें क्या वात वतलावी गई है कि अरहंतके तो है शरीर और सिद्धके शरीर नहीं होता। सिद्ध भगवान जिस शरीरसे छूटकर मोक्ष गए उस शरीरके आकार ही उनके आत्मप्रदेश फैले हुए होते हैं। हैं दोनों ही भगवान—एक सशरीर और एक अशरीर। भगवान कहते हैं ऐसे आत्माको जो पूर्ण निर्देश है और पूर्ण गुणसम्पन्न है। इस लोकमें उसका ही तो आदर होता है जिसमें दोष न रहे हों और गुण पूरे प्रकट हो गए हों। जो बड़े पुरुष कहलाते हैं उनमें यह ही वात पायी जाती है कि दोष तो कम हैं और गुण अधिक हैं और जो भववान हो गए हैं उनमें दोष एक भी नहीं है और गुण सब प्रकट हो गए हैं। तो जो पूर्ण निर्देश हैं, पूर्ण गुणसम्पन्न हैं उनहें कहते हैं भगवान।

हम भगवानकी क्यों भक्ति करते हैं? भगवानकी भक्तिका आप लोगों का क्या प्रयोजन है जो सुविधा रोज नहाकर आते और इतना कष्ट करते, पूजा करते, समय लगाते, इसका क्या प्रयोजन है? किसलिए तुम भगवान की भक्ति करते हो? क्या परीक्षामें पास होने के लिए? नहीं। तो क्या अच्छी तरहसे सुखसे रहने के लिए? नहीं। तुम पूजा इसलिए करते हो कि है प्रभु! हम भी उम्हारे ही तरह दोषरहित हो जाएं और पूर्ण गुण सम्पन्न हो जायें। हमारी आत्मामें भी ऐसी ही शक्ति है जैसी शक्ति तुममें प्रकट हुई है, मेरी शक्तिका विकास कैसे हो, इसके लिए तुम प्रभुरूपकी पहिचान करने के लिए आते हो, पूजा करते हो, उनके गुणों पर हृषि देते हो।

जो सुनि परमात्माकी भक्तिमें तत्पर है और जिद्योमें रंच भी नहीं रमते हैं वे परमात्माके प्रकाश करने वाले वेष्ठलज्ञानके योग्य होते हैं। हन्द्रियके विषयोंमें रमना तो बरबादी का ही कारण है। जैसे सूख चटपटी चीज सानेका शौक रखते, बढ़िया भोजन मिले, इसमें खुश रहते, इस

तरहकी हठ है जीवोंकी । अरे जैसा समय पर मिले खा लो, शुद्ध होना चाहिए । जो चीज स्वावोगे उसीमें स्वाद आयेगा । यह तो भूल है कि पूँछी हल्केमें स्वाद ज्यादा है और रोटी दालमें स्वाद कम है । खूब समझतो, देल लो, रोटी दालमें स्वाद अधिक है और पूँछी हल्केमें स्वाद कम है । पर आसकि जीवमें ऐसी लगी है कि उसे यह मालूम पड़ जाय कि इसमें खर्ची बहुत हुआ है, इसके खानेमें तो स्वाद ज्यादा लगता है । तो स्वाद तो कहनासे ही उसमें ज्यादा बना लिया जाता है । जिस चीजमें सर्व ज्यादा हो गया उसमें स्वाद ज्यादा समझते हैं पर दाल रोटीका स्वाद हल्का पूँछी आदिसे अधिक है ।

मिठाई स्वाकर आप ऊब जायेंगे । ज्यादासे ज्यादा आप मिठाई किननी खा लेंगे ? क्या आध सेर ? नहीं क्या तीन पाव ? नहीं क्या दो द पाव ? नहीं, पाव भर तो खा लेंगे और दाल रोटी तो पेट भर खा लोगे । तो बतावो स्वाद किसमें ज्यादा रहा ? दाल रोटीमें रवाद ज्यादा रहा । मगर जो बच्ची आसकि ऐसी बुरी है कि वह जो सात्विक चीज है, स्वादिष्ट चीज है उसमें स्वाद कम मानता है और जो बुद्धिको भी अन्यवस्थित बनाती है, आलस्य भी आता है ऐसे भोजनमें स्वाद अधिक मानना है । जरा जिस भोजनमें स्वाद अधिक माना है उसको चार दिन स्वाकर तो देखो, जी ऊब जायगा । देखो यदि कहीं विवाह आदि होता है तो उसमें लोग मिठान्न पक्षानन स्वाते हैं तो बहुतसे लोग बीमार हो जाते हैं और न्याययुक स्वादिष्ट चीज, सात्विक चीज जिन्दगी भर खाते रहो तो भी बीमार नहीं हो सकते ।

सो भैया ! विषयोंमें रमना उच्चम बात नहीं है । इसी तरह सुगंधित, तेज़ कुजोड़ोंकी बात है । जो तेज खूब सुगंध करे उसको सिरमें लगाएं, जाकरमें सुंचें इत्रका फुवा करें, वे क्या कोई अच्छा करते हैं? वे तो अपना उपयोग ही विगाढ़ते हैं । इस मनको ज्यादासे ज्यादा समय भगवानकी भक्तिमें लगाना चाहिए । हालांकि यह मन बहुत कम प्रभुकी भक्तिमें लगता है पर प्रभुकी भक्तिसे कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, धर्मकी इष्टि मिलेनी । बहरी बस्तुओंके पीछे पड़कर तो इस जीवको मिलेगा कुछ नहीं । वरिन् सरय ही वरवाद होता है ।

इसी तरह आंखोंका विषय है लेल देखना, सिनेमा देखना, कोई नाटक बगैरह देखना — ये सब तो आंखों को डुःख देने वाले ही हैं । प्रधम तो देखा किन्तु कष्ट देखनेमें उठाने पड़ते हैं ? आंखें सोलकर एकटकी लगाकर देखना पड़ता है । जसे हुम लोग गुरुकृतमें हो तो अध्यापकोंसे

छिपकर जाना पड़ता होगा और वहां देखनेमें भी एकटकी लगाकर देखना पड़ता है। एकटकी लगाकर देखनेसे आंखोंमें कमज़ोरी भी आ जाती है। इन आंखोंसे चिशिष्ट रूप देखनेका मनमें शौक होता है मगर एकटक लगा कर देखनेसे तो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। मन भी सहित दिया और परपदार्थोंकी ओर दृष्टि भी गयी, तो परकी ओर दृष्टि जानेसे इस अत्माने प्रभुका संग भी छोड़ दिया। तो नेत्रका विषय भी जीवको उपकारों नहीं है।

कानका विषय भी इसी तरहका है। सुन्दर राग सुना, ग्रेमके शब्द सुने, प्रशंसाके शब्द सुने ये सब कानके विषय हैं। तो कानके विषयसे भी इस जीवको मिलना क्या है? आत्माको कभी अद्भुत आनन्द जगे, स्वाधीन आनन्द जगे तो लाभ समझा चाहिए और जहां कलेश हों, उब जावोगे वहां, जहां संकलेश ही बनाने पड़े हों वहां हुँख ही समझा चाहिए। इसी तरह स्पर्शन इन्द्रियका विषय अहितकर है। ऐसे पंचेन्द्रिय के विषयोंमें जो रमता है वह पशु पक्षी बनता है, एकेन्द्रिय, विकलृद्य बनता है, जन्म मरण करता है और संसारमें हुँखी होता रहता है। जो जीव विषयोंमें नहीं रमता, परमात्माकी भक्तिमें ही अपना चिच्च लगाता है वह सुनि परमात्मप्रकाशके योग्य होता है।

यहां परनात्मप्रकाश शब्दके दो अर्थ हैं। एक तो इस परमात्मप्रकाश भ्रन्थके अभ्यास करनेके योग्य होते हैं और परमार्थका अर्थ यह है कि परमात्मप्रकाश मायने शुद्ध आत्माका स्वभाव। वह शुद्ध आत्मस्वाभाव के योग्य होता है। यह उत्कृष्ट बात उनमें कैसे प्रकट हुई? उन्होंने विषयरहित ज्ञायकस्वभावी मात्र निज परमात्मतत्त्वका अनुभव किया है इस अनुभवसे उन्हें अतीन्द्रिय परमानन्द सुखका खाद मिला है। उस ही स्वाधीन आनन्दसे वे तृप्त हैं। सो जितको अपने आत्माके रूपसन्वेदनको देखते हुए आनन्द मिला है, जिन भव्य जीवोंको सुलभ और मनोहर हुँखि मिली वे विषयोंमें नहीं रमते। वे तो भगवानकी भक्तिमें ही तत्पर रहते हैं, उन जीवोंको परमात्माका प्रकाश प्राप्त होता है। इसी बातको एक दोहरेमें और कहते हैं।

गाण्यवियक्तस्तु सुद्धमणु जो जगु एहउ कोइ।

सो परमप्यपयासव्यहं जोग्यु भण्ति जि जोइ॥ १०६॥

जो प्राणी रूपसन्वेदन ज्ञान द्वारा हुँखिमान है, जो इस अनुभूतिके विरोधक रागादिकसे दूर है अर्थात् जिसका मन शुद्ध है, विकल्प जालोंसे रहित है ऐसा कोई भी हानी संत हो उसे परमात्मप्रकाशके योग्य शृष्टि

संत जनते हैं। जैसे जीव कुछ न कुछ जानता रहता है— चौकीको जाना, घड़ी को जाना, भीतको जाना, तो आत्मा भी तो कुछ चीज है। कोई आत्माको ही जानता है। जो जीव आत्माको ही जानता है उसे कहते हैं स्वसम्बेदन ज्ञानी। जो स्वसम्बेदन ज्ञानी पुरुष है वह कभी परमात्माका शुद्ध स्वरूप पा ही लेगा। परमात्माका प्रकाश क्या है? ज्ञान और दर्शन। वह ज्ञान और दर्शन जिसके द्वारा तीनों लोक और अलोककी बातें जानते हैं— ऐसा अद्युत प्रकाश उनको प्राप्त होता है जो शुद्ध परमात्मस्वरूपका भाव जनाते रहते हैं।

मैं शुद्ध हूं, ज्ञायकस्वरूप हूं, केवल जाननरूप हूं ऐसा जो अपने को स्वरूपरूपमें एकमेक कर सकता है वह ही केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो परमात्माके प्रकाशको प्राप्त कर सकता है वह एक ने स्वसम्बेदन ज्ञानद्वारा कुशल होता है, चतुर होता है। दृसरे वह शुद्ध मन बाला होता है। शुद्धमन उसे कहते हैं जिसके मनमें रागद्वेष मोहरूपी कोई विकल्पजाल न बसता हो। यह विकल्पजाल परमात्माकी अनुभूतिसे विलक्षण तर्फ है, सो ऐसे विकल्पजातीयोंको त्याग कर अपने आप के आत्माका ज्ञान करके जो कोई पुरुष अपने आपको परमात्मस्वरूप भाते हैं वे परमात्मप्रकाशके योग्य होते हैं।

भैया! अपिन जलानेके दो तरीके हैं एक तो आगसे ईंधनको छुबा देना, जैसे दीपक जलानेका तरीका बातीको जले हुए दियासे छुबा देतो वह बाती जलती रहती है। कोयलेमें आग जला दिया तो कोयला जलने लगता है। तो आग जलानेका पहिला तरीका तो यह है कि उस ईंधनमें आग डाल दें। आगसे ईंधनका सम्बन्ध कर दिया तो आग जलती रहती है और आग जलानेका दूसरा तरीका क्या है कि जंगलमें खड़े हुए बांस बड़ी तेज हवा चलनेसे पक दूसरेमें रगड़ते हैं। तो बांसोंको परस्परमें रगड़नेसे आग पैदा हो जाती है, पत्थरमें पत्थर भारते हैं तो आग जलती है। चकमक होता है भा, उसे पत्थरमें मारते हैं तो आग जलने लगती है। वहाँ आगका सम्बन्ध नहीं है, मगर परस्परमें रगड़से आग जल उठती है।

इसी तरह प्रभु स्वरूप प्रकट करने के दो तरीके हैं। तरीका तो उनमें आखिरी एक ही है, मगर एक कुछ पूर्वका तरीका और कुछ पूर्वका भी और अन्तका भी तरीका। तो प्रभुता प्रकट करनेके दो तरीके हैं पहिला तो यह कि जो परमात्माका स्वरूप है, अरहंत सिद्धका स्वरूप है उनके स्वरूपमें अपने उपयोगको ले जायें, यह तो हुआ इस तरह कि जैसे

ईच्छनको आगसे लुभाया और आग जल उठे। इसी तरह अपने उपयोग को परमात्माके स्वरूपमें लगायें तो परमात्मस्वरूप प्रकट हो गया और दूसरा तरीका यह है कि अपने आपके आत्माको जो सहजस्वरूप है उस स्वरूपको ही अपने उपयोगमें लगायें तो परमात्मत्व प्रकट हो जाना है। यह परमात्मापन अपने आपकी उपासनासे प्रकट हो जाता है।

तो जिसे अपनी प्रसुता चाहिए उसे दोनों ही उपाय करने चाहिये। परमात्माके गुणोंका चित्तन करें, उनके स्वरूपकी भक्ति करें, उनकी शुद्ध मुकिका विकास देखकर अपने चित्तमें हृषि उत्पन्न करें, अपनी निर्मलता बढ़ायें, और कभी अपने आपकी शक्तिका ध्यान करके अपने स्वभावका परिचय पाकर अपने आपमें अपने को एकरस करें तो इस तरह परमात्माकी उपासना और इस निज आत्मतत्त्वकी आराधना—इन दोनों उपायोंको करते हुए हम अपने आत्माका विकास कर सकते हैं और कभी परमात्माका भी प्रकाश पा सकते हैं जिस प्रकाशके द्वारा परमात्मा समस्त लोक और अलोकको सपष्ट जानता है। आध्ययन करनेका, शिक्षा लेनेका यही उद्देश्य है मूलमें कि मेरा आत्मा दोषोंसे पूर्णतया रहित हो जाय और गुणोंसे पूर्ण सम्पन्न हो जाय। इतने ही मात्र उद्देश्यके लिए प्रभुकी भक्ति है, गुरुवोंको सत्संगति है और ज्ञानकी आराधना है।

मैया ! एक आत्मदर्शनका यह प्रयोजन न रहा और संसारी जीव के अन्य-अन्य बातें हो गयीं, इससे आत्माको लाभ अन्य कुछ न मिलेगा। यह सारा समूह और ये समागम सब एक दिन मिट जाने वाले हैं। यहाँके लोगोंको खुश करने के लिए ही यदि इसने अपना अम किया तो उससे आत्माने लाभ कुछ नहीं उठाया। यदि सभी व्यवहार घमोंका उद्देश्य अपने आपकी आत्माकी निर्मलता उत्पन्न करना बनाएँ तो उससे इस आत्माका कुछ लाभ भी होगा। क्या लाभ होगा ? अनाकुलता प्राप्त होगी। जहाँ दोष नहीं रह गये और गुण प्रकट हो गए वहाँ आकुलता न आयेगी। तो ऐसी अनाकुलता प्राप्त करनेका ही हमें उपाय बनाना चाहिए।

यह परमात्मप्रकाश प्रन्थ है, इसमें परमात्म स्वरूपका वर्णन है। परमात्मस्वरूप दो जगह देखा जाता है एक तो अरहंत सिद्ध भगवान्में और एक अपने आत्मामें। दोनोंके स्वरूपमें परमात्मस्वरूप जिसकी दृष्टिमें आ जाता है वह ज्ञानी है और वह संसारसे नियमसे छूट जाता है। जिसकी दृष्टिमें अपने आपके परमात्मस्वरूपका परिचय हो जाय उसको

भगवान्का परमात्मस्वरूप भी दिख जाता है और जिसको भगवान्का परमात्मस्वरूप दिख जाता है उसको अपना भी परमात्मस्वरूप दिख जाता है। अपना भीतरसे मन दो जगह टिकाना है—एक तो भगवान्के स्वरूप पर, दूसरे आत्मास्वरूप पर। तीसरे को मन नहीं सौंपना है। यह मन सौंपना नों केवल दो को है, तीसरेको नहीं सौंपना है। बाकी जितने भी मित्रजन हैं, परिवारजन हैं, व्यवहारीजन हैं इनसे काम पड़ता है, रनेह भी रखना पड़ता है, व्यवहार भी रखना पड़ता है, किर भी यह जानते रहो कि मन तीसरी जगह नहीं सौंपना है। केवल भगवान् और अपना आत्मा इन दोको सौंपना है। क्योंकि तीसरा कोई भी पदार्थ मेरे लिए रक्षक नहीं है, शरण नहीं है।

परमार्थसे इन दो को भी खुदका आत्मस्वरूप शरण है पर आत्मस्वरूपके और भगवान्के स्वरूपको समानता है। इस समानताके कारण भगवान् भी शरण है और अपना आत्मा भी शरण है। तो इस प्रन्थमे भगवान्के स्वरूपका वर्णन न करके आत्माके स्वरूपका वर्णन किया है क्योंकि भगवान्का स्वरूप भी आत्मस्वरूपके जानने के लिए होता है। भगवान्के स्वरूपके ध्यानके लिए भगवान्को नहीं ध्याना है। भगवान्के स्वरूपको जानकर आत्माका सहजस्वरूप पहिचानना है, और वह सहजस्वरूप अपने आत्ममें है, पर अपने आपमें अपना आत्मा देखनेका यह तरीका है कि अपने शरीरकी भी दृष्टि न करें, अपने आपमें जो परिणामन उत्पन्न होता है उसकी भी दृष्टि न करें, और बाह्य पदार्थमें किसी का भी ध्यान न करें तो यह ज्ञानमय आत्मा अपने उपयोगमें ज्ञानस्वरूपको मिलेगा। और उस समय परमात्मस्वरूपका परिचय होगा।

इस परमात्म प्रकाश प्रन्थका यह समाप्तिका प्रकरण है। इसके बाद अब आचार्यदेव कुछ प्रश्नरितस्वरूपमें अपने सम्बन्धी अनेक बातें कह रहे हैं। सर्वप्रथम शास्त्रका कल बनलाकर अब अपनी दृष्टिभूताका परिवार करते हुए कुछ व्याख्यान कर रहे हैं—अर्थात् अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। जड़े-जड़े आचार्य देव ऊँचे-ऊँचे प्रन्थ बनाकर अन्तमें अपनी लघुता बताते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ शास्त्रका रहस्य है यह परम्पराको प्राप्त हुआ है, स्वच्छन्द होकर कुछ मेरे द्वारा सोजा हुआ नहीं है। सर्वज्ञ देवकी दिव्य व्यनि की परम्परासे जो गणधरोंने और अनेक मुनिराजोंने पहिचान कर कहा वहो कहा जा रहा है।

लक्खणाङ्गुंदविविजयउ पहुं परमप्यपयासु ।

कुण्ड सुश्वरहैं भावियउ चउगडुक्खविषासु ॥ २१० ॥

यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ लक्षण और छन्दसे रहित है। अब देखो अच्छा तो बताया है ग्रन्थ। छन्दमें कोई कसर नहीं है। अपनी भाषाके समयका यह बहुत अनूठा ऊँचा ग्रन्थ है। फिर भी आचार्य वेष कह रहे हैं कि लक्षण और छन्दसे रहित यह ग्रन्थ है। फिर भी यह ग्रन्थ चतुर्गतिके दुःखोंका विनाश करने वाला है। इस ग्रन्थमें उस तत्त्वको विद्याया है जिस तत्त्व की दृष्टि होने पर फिर चतुर्गतिके दुःखोंका नाश होता है। जो कोई शुद्ध भावोंसे इस परमात्माके प्रकाशकी भावना करे तो वह संसारसे मुक्त हो जाता है। यह एक अर्थ है।

जो जीव लक्षण और छन्दसे रहित परमात्माके प्रकाश का दर्शन करता है वह भगवान् बन जाता है। भगवानका जो स्वरूप है उसका नाम है परमात्माका प्रकाश। परमात्माका प्रकाश ही केवलज्ञान और कंबलदर्शन। सो केवलज्ञान और दर्शनमें छन्द तो नहीं है, गाना नहीं है तो वह प्रकाश लक्षण लंबसे रहित है। यहां दो-दो अर्थ चल रहे हैं। परमात्मप्रकाश जो ग्रन्थ है वह लक्षण और छन्दसे रहित है, ऐसा कह कर आचार्य वेषने अपनी लघुता बताई है। और, दूसरा अर्थ यह है कि जो प्रकाश है ज्ञान और दर्शन, उसमें छन्द कहां रखा? वह तो अक्षर रहित है, इसमें वर्ण नहीं। शुद्ध ज्ञान व्योति स्वरूप है। लक्षण और छन्द से रहित परमात्माके प्रकाशको जो शुद्ध भाव करके भावा है वह चतुर्गति के दुःखोंको नाश करता है।

कितनी चतुराई के साथ यह बात कही कि जिसमें अपनी लघुता यी जाहिर हो गयी कि यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ लक्षण और छन्दसे रहित है और मर्मभी आ गया कि परमात्माका जो प्रकाश है ज्ञान दर्शन, उसमें लक्षण और छन्द नहीं हैं। वह लक्षण और छन्दसे रहित है। सो उस परमात्मप्रकाशकी जो भावना करता है वह संसारसे छूट ही जायेगा। और ग्रन्थके सम्बन्धमें यहां अर्थ यह लगाना कि यद्यपि यह ग्रन्थ लक्षण और छन्दसे रहित है तो भी जो इस शुद्ध ग्रन्थकी भावना करता है, इसके मर्मको पहचानता है वह भी दुःखोंका नाश कर देता है। यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ शास्त्रके क्रम और व्यवहारसे और दोहों के छन्दसे और प्राकृतके लक्षणसे युक्त है।

टीकाकार यहां कह रहे हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है। जो शास्त्रमें क्रम बताना चाहिए वही तो क्रम इसमें है। दोहाका जो छन्द निर्देश रहना चाहिए वह भी इसमें है और प्राकृत भाषामें जो लक्षण होना चाहिए वह इसमें है, तो भी निश्चयसे देखो तो परमात्म प्रकाशका इथ है ॥४४॥

का शुद्ध स्वरूप। सो आत्माके शुद्ध स्वरूपमें न लक्षण है और न छन्द है। सो ऐसा लक्षण और छन्दसे रहित होता हुआ यह परमात्मप्रकाश यदि शुद्ध भावनासे भाया जाय तो भी शुद्ध आत्माके सम्बेदनसे उत्पन्न हुआ जो एक विलक्षण बीतराग स्वाधीन आनन्द है उस आनन्दस्वभावसे यह जो आत्मा उल्टा चला गया है, चारों गतियोंके हुँखोंको भोगता फिरता है, ऐसे उन समस्त दुःखोंका यह नाश करता है।

देखो भाया! शैली कितनी सुन्दर है कि इसमें कई भाव भाये हैं। एक भाव तो वह है कि इस प्रथमें लक्षण और छन्द नहीं है। यह तो अन्थकार की ओरसे कहा है। तो भी जो इस ग्रन्थके मर्मकी भावना करेगा वह समस्त दुःखोंको नाश कर लेगा। यह एक धर्थ हुआ। दूसरा अर्थ यह है टीकाकारकी ओरसे कि इस प्रथमें लक्षण और छन्द सब ठीक-ठीक हैं, उसमें गतिनहीं है, पर वह जो भगवान् है या आत्माका जो शुद्ध स्वरूप है उसमें नहीं है लक्षण और छन्द, क्योंकि वह तो चैतन्यस्वरूप है। उसमें न वर्ण है, न अक्षर है, न पद है, तो ऐसा जो लक्षण छन्दसे रहित परमात्माका प्रकाश है वह प्रकाश यदि भाया जाय तो चारों गतियोंके हुँखोंका नाश कर देता है।

लक्षण तो हुआ आत्माका चैतन्यस्वरूप, चित् प्रकाश, कुछ भी समझो। किन्तु जब तक भेद भावना रखकर आत्माका लक्षण तकते रहेंगे तब तक आत्माका अनुभव नहीं होता। आत्माका लक्षण ज्ञान दर्शन है, किन्तु जब तक यों देखते रहेंगे कि आत्माका लक्षण ज्ञान दर्शन है तब तक आत्माका अनुभव न होगा। यद्यपि बात सही है कि आत्माका लक्षण ज्ञान दर्शन है, किन्तु केवल एक शुद्ध आत्मा पर दृष्टि नहीं टिक सकी वहां भेद करके लक्षण और लक्ष्यका भेद कर रहे हैं, इसलिए जब यह आत्मस्वरूप अनुभवके द्वारा परिचयमें आता हो वहां लक्षण इसकी दृष्टिमें नहीं रहता।

जैसे एक मोटा हृष्टांत लो कि बहिर्या हलुवा बनाया गया, खा रहे हैं, पर जब तक हलुवाके सम्बंधमें यह चर्चा करते रहेंगे कि इसमें बूरा ठीक पड़ा, घी अच्छा पड़ा है तब तक उसका पूर्ण स्वाद अनुभवमें न आयेगा। जब उसकी चर्चा छोड़कर सब और से विचार छोड़कर केवल उसके अनुभवमें ही लगेंगे तो उससे उत्कृष्ट स्वाद आता है। आत्माका अनुभव जब आता है जब आत्माका किसी भी प्रकार भेद नहीं रह गया। इसलिए परिचयमें आया हुआ जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वह लक्षणसे भी रहित है और छंदोंसे भी रहित है। आत्मामें लक्षण ही नहीं है तो

चंद कहां से आयें ? सो ऐप्रा होता हुआ भी इस आत्माकी यदि कोई शुद्ध भावनासे भावना करेगा तो चारो गतियों के दुःखोंका वह विनाश करेगा । ऐसो प्रश्नसितमें प्रथम ही प्रथम द्वयार्थक ढंगसे मन्थकी ही बात कहकर अब योगीन्दुदेव अपनो उद्घारकाका परिहार करते हैं ।

इत्यु ए लेपः दंडियहि गुणदोसुवि पुणरुत् ।

भट्टप्रभायरकारणं हूं मझे पुण पुणवि पउत् ॥२१॥

यहां योगीन्दुदेव कहते हैं कि हे भव्यजीव ! इस प्रन्थमें पुनरुक्ति का दोष न प्रहण करना । यह वर्णन कर्ह महीनेसे चल रहा है और आप लोगोंने कहे बार मुना है । ऐसा लगता होगा कि रोज-रोज एक ही बात परमात्मसम्बन्धी आती है । एक ही बात बार-बार कहनेसे पुनरुक्ति दोष होना है, याने जो कल कहा था वही आज कहा जा रहा है तो पुनरुक्ति दोष हो गया । एक बार आटा पिसा लिया चक्कीसे, पिसा चुकनेके बाद फिर पिसाएँ, फिर उसे पिसायें, ऐसा यदि कोई करे तो उसे बुद्धिमान् कौन कहेगा ? इस प्रन्थमें वही वही बात बार-बार आती है । तो इसमें शायद लोग यह सोचेंगे कि यह तो कोई बुद्धि और विवेकका काम नहीं है कि वही बात रोज-रोज कहें । तो ऐसी शंका दूर करनेके लिए योगीन्दु देव यह कह रहे हैं कि यथापि यह बात बार-बार आयी है किन्तु यह दोष-रूप नहीं है क्योंकि एक बार कहकर यदि श्रोता लोग इस बात पर टिक जायें, निर्विकल्प हो जायें, अपना कल्याण कर जायें या हम ही अपना कल्याण और संतोष करतें तब तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, पर ये जगतके प्राणों अध्यात्ममें मन लगाये नहीं रह पाते हैं क्योंकि उन के अनेक झंकट हैं सो उनके लिए एक बातको बार-बार कह कर सम्बोधना कोई दोष नहीं है ।

जैसे दाल रोटों रोज-रोज खाते हैं तो उसे रोज रोज खाना लोक में कोई दोष तो नहीं माना जाता है । इसी तरह आत्मशास्त्रका उपदेश है, वही कल हुआ था, वही महीनोंसे हो रहा है मगर सुननेके बाद ये जीव अध्यात्ममें नहीं रहते हैं, रागद्वेषमें फिर पड़ जाते हैं इसीलिए रोज-रोज वही बात कहनेकी जरूरत पड़ती है । इसलिए यहां पुनरावृत्ति दोषका परिहार समझना, प्रहण न करना और कविकी जो कला है उस कला को गुणमें लेना । हम अपने गुण बतानेके लिए यह मन्थ नहीं बना रहे हैं । मुझे यह चाह नहीं है कि इसमें कलापूर्ण वर्णन है ऐसा लोग जानें हमें यह नहीं जाना है अथवा कहीं कलापूर्ण वर्णन न हो तो ऐसा

खेद स्थिन न होना कि इसमें ज्ञानात्मक वर्णन ही नहीं है, इसके अन्दर वह भाव है कि जिस भावका यदि यह जीवआश्रय लेवे तो संसारसे तिर जाय।

आचार्यदेव कहते हैं कि मैंने तो यह प्रन्थ प्रभाकर भट्ट के लिए बार बार समझाने के लिये कहा है। इसमें जो श्रीतरात्म परमात्माका तत्त्व बार बार कहा गया है वह प्रभाकर भट्टके समझाने के लिए कहा गया है। पहिले समयमें किसी भक्त पर साधुका अधिक अनुराग हो तो साधु क्या करेगा? भक्तका अनुराग है तो वह आहार करायेगा, सेवा करेगा, पर साधुजन यदि किसी भक्त पर खुश हो जाते हैं तो साधु क्या करेंगे? उपदेश देंगे और उपदेश देने के निमित्त कोई प्रन्थ भी बना देंगे। तो योगीन्दुदेव ने प्रभाकर भट्ट पर प्रसन्न होकर इस प्रन्थकी रचना की है।

जैसे एक समाधिशतक नामका भावना प्रन्थ है। तो समाधिशतक प्रन्थमें भी उसी आत्माकी चर्चा बारबार कई रूपोंमें कही है। तो जो अध्यात्मप्रन्थ होता है उसमें आत्माकी चर्चा कई रूपोंमें बारबार कही जाती है, इसलिये उसमें पुनरावृत्ति का दोष न समझना। क्यों न समझना कि इसका जो अर्थ है, प्रयोजन है वह यह है कि आत्माकी बातका बार बार चित्तन करें, बारबार इसका विचार बनाएं, ऐसा जानकर प्रभाकर भट्ट को कहने के निमित्त से समझा कर मनुष्योंके सुखपूर्वक धोध देने के क्षित यह जो आत्मतत्त्व है यह बारबार कहा गया है।

यह आत्मतत्त्व तीन प्रकार का है—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। अपने आत्माको छोड़कर और को जो आत्मा मानता है वह है बहिरात्मा, और जो अपना अंतःस्वरूप है उस आत्माको जो मानता है वह है अन्तरात्मा, और जो उत्कृष्ट निर्देश गुणसम्पन्न आत्मा है वह कहलाता है परमात्मा। इस प्रकार बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये तीनों तत्त्व प्रत्येक जीवमें पाये जाते हैं। सिद्ध भगवानमें कैसे पाये जाते हैं कि सिद्ध भगवान सबसे पहिले बहिरात्मा ये। कोई सिद्ध ऐसा नहीं है जो बहिरात्मा। न हो—मिथ्याहृषि, अज्ञानी संसारी वे ये पहिले किर उन्होंने अज्ञानका विनाश करके अन्तरात्मा पद पाया। अर्थात् अपने आत्माके अंतःस्वरूपका परिचय किया। किर अन्तरात्मामें उत्कृष्ट अन्तरात्मा बनकर, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, आत्मा बनकर चारों कर्मोंका विनाश किया तथा वे परमात्मा हुए, और किर चार वातिया कर्मोंको भी नाश करके सिद्ध भगवान हुए।

इस तरह सिद्ध भगवान् भूतकालकी अपेक्षा बहिरात्मा और अन्तरात्मा है वर्तमानकी अपेक्षा परमात्मा है। यह जो सम्यग्दृष्टि है भूतकालकी अपेक्षा बहिरात्मा है और वर्तमानकी इपेक्षा अन्तरात्मा है क्योंकि परिणाममें वह ज्ञानी है और भविष्यकालकी अपेक्षा परमात्मा है क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह नियमसे परमात्मा होगा। इससे बड़ा जो अन्तरात्मा पुरुष है वह मी भूत भविष्यकी अपेक्षा बहिरात्मा और परमात्मा है। अब जो जीव बहिरात्मा है, अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, बाहरी पदार्थोंमें ही आत्मस्वरूप मानते हैं वे भी तीनों हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। वे यद्यपि वर्तमान अपेक्षासे बहिरात्मा ही हैं, लेकिन उनमें सुख्यना है कि वे ज्ञानी बन सकते हैं, बहिरात्मा हो सकते हैं और उनमें शक्ति है कि वे परमात्मा हो सकते हैं। इस तरह शक्ति की अपेक्षा वह अन्तरात्मा भी है और परमात्मा भी है।

अच्छा और भी देखो—जो अभयं जीव है, जिसमें कभी सम्यक्त्व नहीं आ सकता और न कभी मोक्ष पा सकता, उसीको तो अभव्य कहते हैं, जो कभी भगवान् नहीं बन सकता। इस अभयं जीवको भी क्या तीनों प्रकारका आत्मतत्त्व है? तो हाँ है, क्योंकि वे भी आत्मा हैं, चेतनश्वरूप हैं, सहजस्वरूप ज्ञायकभाव है। जो उसका सहजस्वरूप है वही परमात्मत्व शक्ति है, क्योंकि परमात्मा जो हो जाता है वह भी कुछ नयी चीज नहीं बनता, किन्तु यह ज्ञायकस्वभाव ही निर्विष प्रकट हुआ है। तो इस तरह जो अभयं जीव है उसके अन्दर भी शक्तिशी अपेक्षा अन्तरात्मा है और परमात्मापन है, यो सर्वजीवोंमें तीनों प्रकारका आत्मतत्त्व है, इस लिए तीनों प्रकारके आत्मन्तर्वोंका वर्णन करने वाला यह जो परमात्मप्रकाश ग्रन्थ है यह प्रभाकर भृकृ लिए हमने बनाया है और दूसरे जनोंको भी सुखपूर्वक बोध करानेके लिए जिससे सभी जीव लाभ उठा सकें इस ग्रन्थ को बनाया है। इस कारण इसमें कला न हो, पुनरुक्ति हो तो भी दोष ग्रहण न करो, ऐसा आचार्यदेव अपनी दद्याङ्काका परिवार करते हैं।

जं मद्ये किं पि विजंपित्रु जुञ्चाजुञ्चवि इत्थु ।

तं वर गाण्य लमंतु महु जो बुज्महु परमत्थु ॥२१३॥

परमात्मप्रकाशकी समाप्ति पर योगीन्दुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ इस ग्रन्थमें युक्त और अयुक्त मेरे द्वारा कहा गया हो, सो जो उत्कृष्ट ज्ञानी जन हैं वे परम अर्थके जानने वाले होते हैं, सो मेरे ऊपर क्षमा करो। इनने उड़े योगीन्दु आचार्य हैं और परमात्मतत्त्वको बड़े निर्विष स्वभावमें कहकर अंतमें अपनी लघुता बताते हैं कि जो कुछ युक्त और अयुक्त मेरे

द्वारा कहा गया हो सो विद्वत्‌जन सुभपर क्षमा करें। किन विद्वत्‌जनोंसे कहा जा रहा है कि जो परमार्थको जानते हैं— परमार्थ जगत्‌में क्या है? एक शुद्ध आत्मस्वरूप। उस आत्माका सहज जो स्वरूप है ज्ञायकभावमय उसका जिन्हें अनुभव हुआ है ऐसे विद्वत्‌जनोंको कह रहे हैं। निर्दोष आत्माका वर्णन करके भी आचार्य अपनी लघुता बताते हैं।

जो प्रभु अनन्त चतुष्टय सम्पन्न है वह है व्यक्त अनन्त चतुष्टय सम्पन्न और इतर सब जीव हैं सहज अनन्त चतुष्टयसम्पन्न अरहंत और सिद्ध प्रभुमें अनन्त ज्ञान व्यक्त है, तो हम आप सब आत्माओंमें सहज अनन्त ज्ञान है। जैसा प्रभुमें व्यक्त अनन्त दर्शन है इसी प्रकार हम सब आत्माओंमें सहज अनन्त दर्शन है। प्रभु परमात्मामें व्यक्त अनन्त आनन्द है तो हम सब जीवोंमें सहज अनन्त आनन्द है। प्रभुमें व्यक्त अनन्त शक्ति है। तो सब जीवोंमें सहज अनन्त शक्ति है। रागादिक दोष रहित अनन्त चतुष्टय सम्पन्न शुद्ध आत्मतत्त्वको जो जानते हैं ऐसे योगीन्द्र पुरुष हस योगीन्द्र पर क्षमा करें। यदि कुछ युक्त अयुक्त कह रहे हों, उसे विशिष्ट ज्ञानी शुद्ध करें। विशिष्ट ज्ञानमें ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञान वीतराग निर्विकल्प निज सहज आत्मतत्त्वका सम्बोधन करता है। ऐसा ज्ञान जिसके प्रकट हुआ है ऐसे विद्वत्‌जन हमारे इस निर्मणमें यदि कोई दूषण हो तो उस दूषणको क्षमा करें। अब अंतमें इस अन्धके पढ़नेके फल को बताकर फिर अगले छंदमें मंगलादिक आशीर्वाद रूपसे नमस्कार करें। यह स्वर्गरा नामका छंद है, बड़ा छंद है।

जं तत्तं णाणरूपं परमसुणि गणा गिव्व मायंनि चित्ते ।

जं तत्तं देहचत्तं गिवसइ भुवणे सव्वदेहीण देहे ॥

जं तत्तं दिव्वदेहं तिहुवणगुरुणं सिजमकं संत जीवे ।

तं तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ गिवसणे पावए सो हि सिद्धि ॥२१॥

वह निज आत्मतत्त्व जिनके मनमें स्फुरायमान हो जाता है वे ही साधु सिद्धिको प्राप्त करते हैं। देखो अपने आपके ही अन्दर अनन्त आनन्द विराजमान है। फिर भी इस शुद्ध ज्ञायकस्वभावी ध्रुव आत्मतत्त्व का परिज्ञान जगत्‌के जीवोंको क्यों नहीं हो रहा है? सर्वसिद्धि शुद्धि समृद्धि अपने आपके अन्दर पड़ी है, अपनेमें न हो तो कभी प्रकट ही नहीं हो सकती। फिर भी कितने खेदकी बात है कि इस मनको इतना स्वच्छन्द बनाया है, इन्द्रियोंको इतना स्वच्छन्द बनाया है कि आनन्दनिघान ज्ञायक स्वरूप प्रभु स्वयं अपने आप है, किन्तु अपनेको दीन समझते हुए जगत्‌में यंत्र तत्र जन्म मरणके दुःख भोगते रहते हैं। जैसे कोई लकड़ीरा अपने

कपड़ेमें बांधे हुए लालको समझता है कि यह एक चमकीला पथर है सो वह अपना जीवन कष्टोंमें ही गुजार देता है, उस लालका लाभ नहीं ले पाता है।

ये जितने मायारूप परिशमन है ये सब मेरे परिशमन है, पर ये मैं नहीं हूँ। यह मेरा उपाधिवश मायारूप परिशमन है। मैं तो परमार्थ शुद्ध चैतन्यरसरूप हूँ, पर आपने आपको न जानकर और इस मायामय शरीरको ही आत्मा समझकर देसी हौँ इन पर पदार्थोंकी ओर लगा नहे हैं कि अपने आपका ख्याल ही नहीं होता। जैसे बांचमें ऐनाके आगे कोहे चिड़िया बैठी हो तो उस चिड़ियाको दर्शणमें दर्पणकी चिड़िया दीखती है, आपना प्रतिविश्व दीर्घा है, सो वह प्रतिविश्वको चौंचोंसे मारती है। वह दर्शण पर बैठी हुई चिड़िया उस प्रतिबिम्बित चिड़ियाको देखकर आपनी चौंच मारती है। वह चिड़िया आपने आपको भूल गई और उस दर्शणमें ठोकर लगती है। परकी ओर उसकी हृषि है।

जैसे बंदर लड्डू भरे हुए घडेमें हाथ ढालता है, दोनों मुट्ठियोंमें लड्डू भर लेता है और किस एक साथ ही दोनों हाथोंको उस घडेसे निकालता है। जब दोनों हाथ एक साथ नहीं निकल पाते हैं तो वह उछलता वृद्धता है। तो जैसे धोखेमें आकर वह बंदर परेशान हो रहा है इसी तरह हम आप ये जटतके प्राही धोखेमें आकर अपना जीवन बिगाछ रहे हैं। उस बंदरके छहांनता है। उसे यह अम हो गया है कि इस घड़े ने मुझे पछड़ दिया है। वह यह नहीं जानता है कि मैंने ही नृष्णा करके दोनों हाथोंमें लड्डू पछड़ लिये हैं सो दोनों हाथ एक साथ नहीं निकल पाते हैं। सौ आपने आपकी अज्ञान करतूतीका ज्ञान न होने से वह चिल्लाता है, दौड़ता है, इसी प्रकार यह आत्मा परवस्तुओं पर हृषि डाल-डाल कर परेशान हो रहा है। यह मेरे छन्दूल नहीं परिशमनता, यह हमें नहीं मिला ऐस परकी छोड़ मोच-सेवन दौड़ रहा है। इस बिश्वासमें आपने आपको भल रखा है और टांडी होता है। और उस हुँसमें नाम लगता है दूसरे पदार्थका। इसने मुझे दुःस्वी किया।

अज्ञानी जीव यह नहीं जानता कि मैंने ही चलपत्ता कर डाली है और इस चलपत्तासे ही मैं यह दृश्य हो गया हूँ, इस बातको नहीं जानता यह अज्ञानी जीव। और जगतमें रूलते-रूलते दबी कटिनाइयोंसे यह मनुष्य जन्म पाया तो इसका मृत्यु यह जीव नहीं समझता। भला जगत के तुच्छ जन्मोंके आगे पशु पक्षी आदि देसे जन्मोंके आगे मुकाबला चरके देसौ इस मनुष्य-जन्मका कितना दहा मृत्यु है? यह इस मनुष्य जन्म

गानेहा मूल्य नहीं समझता और विषय-कथायके संस्कारोंमें अपने अप को जुश जुटाकर अपने स्वरूपसे अपरिचित होकर इस दुर्लभ मनुष्य जन्मको बरबाद कर रहा है। जैसे देहाती भीलोंको जिन्हें माएयोंकी पहिचान नहीं है उन्हें जगलमें कभी कोई गजसुका मिल जाय तो उसे वे पैरका घिसना समझते हैं— वहीं पैरका घिसना जो चार पैसेका बाजारमें मिलता है। सो उनके पैर घिसनेके काममें वह आयेगा। ऐसा जानकर जो एह घिसनाका मूल्य है उसके बराबर उसे समझता है। यदि उस मणिको वह पहिचान जाये तो वह लखपति, करोड़पति हो जाय। पर उस दुर्लभ मणिकी कीमत न समझ कर पैरोंके घिसनेमें वे लकड़हारे काममें लेते हैं। इसो तरहकी बात इन अज्ञानी जीवोंमें है।

मैया ! दुर्लभनासे तो यह नरजन्म पाया और इसने पशुपक्षी की ही भाँति विषय कथायोंमें अपना जीवन बिता दिया। इस मनुष्य-जन्मको पाकर क्या हाथ लगा, सो बनलाओ। लगाना तो था अपने आत्मतत्त्वमें उपयोग। किन्तु जगतुके जीव करने क्या लगे ? विषयकथायोंमें उपयोग लगाने लगे। यहाँ योगीन्दुदेव प्रन्थ पद्मनेका फल बता रहे हैं कि जिसके मनमें वह निज आत्मतत्त्व जिसको कि इस प्रन्थमें अलेक बार कह कहकर बनाया गया है उसको जो मनमें धारण करते हैं वे ही सिद्धिको प्राप्त होते हैं।

खूब निरख लें अपने मनमें धारण करने योग्य चीज क्या है ? एक एकके उदाहरण ले लो, हम अपने मनमें ईट पत्थरका घर बसाये रहें तो अंतमें कुछ मिलेगा क्या ? वह ईट पत्थरका मकान तो इस ज्ञानमात्र अमृत आध्यात्मिक आत्मा नहीं, ज्ञानमें तो प्रवेश करता नहीं। यह तो अलग ही है वह स्वाली है, देवल कल्पना कर करके अपनेको संक्लिष्ट बनाते रहे चहे और अन्य क्या कोई वस्तु ऐसी है कि जिसको मनमें धारण करें, तो कुछ लाभ मिले। क्या परिवारजनोंको चित्तमें घरे रहें तो उससे कुछ लाभ अंतमें मिलेगा ? सब जो व न्यारे-न्यारे हैं, केवल अपनी कल्पना कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस सब सूनेके ही सूने। केवल अपने आपके रूपमय हैं सो और भी सोच लो, लाखों और करोड़ोंका वैभव यदि हम मनमें रखे रहें तो इससे कोई सिद्धि है क्या ? कुछ भी तो सिद्धि उससे नहीं है।

तो कौनसा पदार्थ ऐसा है कि जिसको हम अपने मनमें बसायें तो कुछ मेरा हित ही ! किसे अपना मन सौंपे ? कौन वास्तविक शरणभूत है ? ऐसा शरणनूज तिरचश्मै तो आत्महवरूप है और व्यवहारसे भगवत्

स्वरूप है। भगवान की भक्ति करें या आत्माका ध्यान करें—दो के सिवाय तीसरी बात क्यों है भी इस जीवको हितकर नहीं है। बाकी और काम करने पड़े तो उन्हें करिये पर विरक्त होकर करिये, उपेक्षा धारण करके कीजिए। अपने उपयोगमें इस आत्मतत्त्वका ही सदा ध्यान करो। कैसा है यह आत्मतत्त्व ? जो शुद्ध है, केवल अपने स्वरूप है, पर और परमार्थ से रहित है। यह निज आत्मतत्त्व शुद्ध है। केवल है ऐसे हान स्वरूप अपने आपके आत्माको समझने से ही लाभ मिलेगा।

हम कौनसी चीज निरखें जिससे हम अपने आत्माका परिचय पा सकेंगे। वह भिलेगा मात्र ज्ञानस्वरूपमें इसही आत्मतत्त्वका परम सुनीश्वर नित्य ध्यान करते हैं। जो तत्त्व इस लोकमें सर्वजीवोंके शरीरभे मौजूद है, फिर भी शरीरसे ज़दा है। यह ज्ञायक स्वरूप परमात्मतत्त्व, जिसका आश्रय करने से समस्त संकट टल जाते हैं वह आत्मतत्त्व प्रत्येक देहमें मौजूद है। फिर भी देहसे रहित है। जो आत्मतत्त्व विद्य देहको धारण किए है अर्थात् केवल ज्ञान दर्शन विशाल प्रकाश ही जिसका शरीर है, अपने आपके अन्तरमें बसे हुए परमात्माकी चर्चाँ की जा रही है। अपनी ही चीज अपने को न रुचे या अपनी ही चीज के सुननेमें मन न लगे यह तो है बड़े खेद की बात। अपनी ही बात और अपनी ही नहीं, हुदू अपने रूप ही है यह, फिर भी ध्यानमें न आये इसका कारण क्या हो गया है, परवर्तु भी में विषय कषायोंमें कितनी ढढ़ रुचि कर लिया है छि इस ढढ़ मोहके कारण अपना ही स्वरूप अपने आपकी समझमें नहीं आना है।

यह आत्मतत्त्व तीन लोकमें श्रेष्ठ है। सबसे उत्कृष्ट चीज क्या है लोकमें उसका नाम क्यों ? कहोगे कि चांदी ? चांदी से बड़ी चीज है कथा कोई ? तो कहोगे सोना। सोना से भी बड़ी चीज है चीज है कथा ? तो कहोगे कि रत्न बड़ी चीज है। पर वह रत्न भी नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। इस रत्नके कारण चौर, बन्धु मिश्र सबके हारा बात किये जाने का डर रहता है तो सबसे उत्कृष्ट चीज क्या रत्न हुआ ?

रत्नसे भी कोई उत्कृष्ट चीज है कथा ? यदि हो तो इसका नाम क्यों ? आप कहोगे कि देव बन जाता, देवों जैसी ऋषियोंसे हो जाना। तो वे देव भी तो मरते हैं, दुःखी होते हैं तो कौनसी उत्तम चीज है इन तीनों लोक में सो बतलायो। तो आप कहोगे कि दमारा यह शरीर ही सबसे उत्तम है और दूसरे की कथा कथनी करें ? अरे जब कोई डर भय की बात आये आती है तो सब कुछ छोड़कर अपने शरीर को छोड़ने

के लिए वाहर माना जाते हैं। तो क्या यह शरीर आपका है? इस पर कहे रहा नहीं? दूसरे शब्द मंडिगियों देवकर अपनी मंडिगियों का निर्णय कर लो। अथवा जब जुकाम भरा हो, स्वांसी आ रही हो तो पता पड़ जाता है अपने लंगु को कि शरीर कैसा है। तो यह शरीर की मंडिगी चीज़ है, जिसको है, मर मिटता है। यह शरीर भी नहीं रह पाता है। वया उठड़ता है दुनियाँ में मेरे तिर सो बलाशो। खूब सोच लो। खूब धन जोड़ कर सब कुछ करके खूब सोज लो, मेरे लिये क्या बड़ा है? जगत् में कोई भी बोन मेरे तिर उठड़ता है मझेमी।

तो क्या ऐसे ही हम इस जगत् में भटकते रहेंगे? क्या कोई उठड़ता तत्त्व मेरे हाथ न आयेगा? क्या मैं सुखी हो हो नहीं सकता? है उठड़ता तत्त्व। अपने आपमें अनादि अनन्त नित्य प्रकाशमान जो सहज ज्ञायक स्वरूप है, जो परिणामिक आव है, जिसका परिणामन चल रहा है और वही का बहो है, ऐसे परमार्थभूत अपने आपका जो चंतन्यस्वरूप है वही उठड़ता है। क्या किसी ने देखा है अपना प्रभु स्वरूप? जिन्होंने देखा है वे पूर्ण शांतिको प्राप्त हो गए हैं। जिस तत्त्वकी आराधना करके शांतपरिणामी पुरुष सिद्ध पदको प्राप्त करता है उस तत्त्वका इस मन्थ में वर्णन किया गया है जिसने तीन लोकमें अत्यन्त श्रेष्ठ पूज्य इस निब्राआत्मतत्त्वको पाया है वह अवश्य ही सिद्ध पदको प्राप्त करता है। सिद्ध परमशांत रूप जो जीव स्वरूप है उसको कहते हैं।

जहां ख्याति, पूजा, लाभ आदि समस्त विकल्प-जाल नहीं रहे हैं, परम उत्तराम शांत स्वरूप है, अन्तर्दृष्टि का परिणाम है, जिसने परमार्थ-भूत अपने आत्मतत्त्वका अपने आपके समन्वय प्रकाश पाया है ऐसे इस अव्याधात्र अनन्तानन्द आदि गुणों के द्वारा तीन लोकमें भी श्रेष्ठ अपने आपके अन्तरमें बसे हुए इस निज परमात्मतत्त्वका इस परमात्म प्रकाश प्रन्थमें वर्णन है। जो इस वर्णनको सुनकर इस परमतत्त्वको पायेगा उस को अवश्य सिद्ध होगा। देखो भैया! योगी-न्दुवेदकी कहणा कभी अपनी लघुताका उपदेश करते हैं, कभी अन्यकी श्रेष्ठता बताते हैं। कितनी कहणा बतायी है? कभी अपनी लघुता भी बताते जाते हैं और ग्रन्थ का महत्व भी बताते जाते हैं। तो शुद्ध परमात्मतत्त्वका आश्रय ही इस विश्व के कल्पणा करनी है।

अब ग्रन्थके अंतमें अनिम संगल के लिए आशीर्वाद हृष्टे नमस्कार करते हैं।

परम पथगयाणं भासओ दिव्यकाओ, मणंसि मुण्डवराणं मुक्तदो
दिव्य जोओ। विसयसुहरयाणं दुल्लहो जो हु लोए, जयउ सिवसरूपो
केवलो कोयि बोहो ॥२१४॥

ऐसा कोई शिवस्वरूप केवलज्ञान प्रकाशरूप परमात्मतत्त्व जयबंत होओ। जो परम पदको प्राप्त हुए जीवों के हजारों सूर्योंसे भी अधिक द्योनिस्वरूप है पर जिनकी हृषिटमें आता है उनके लिए तो यह सब कुछ है, और जिनकी हृषिट में यह नहीं आता उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। यह ज्ञायकस्वरूप भगवान् आत्मा हजारों सूर्योंसे भी अधिक तेजवान है, और यह परमात्मतत्त्व जिनके विकसित हुआ है ऐसे अरहन्त भगवान का जो औपाधिक शरीर है वह औद्वारिक परमौद्विक हो जाता है और हजारों सूर्योंसे भी अधिक तेजवान वह शरीर होता है। उस दिव्य शरीर में जो इनना तेज आया वह किसका प्रताप है? केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि गुणसम्पन्नताका और मिथ्यात्व, अविरति, कषाय रूप मैलोंके रंग भी न रहने का प्रताप है। जिस परमतत्त्वके विकासमें यह शरीर भी दिव्य हो जाता है वह परमतत्त्व वैतन्यस्वरूप जयबंत हो।

इस ग्रन्थमें इन तीन सबा तीन सौ दोहोरोंमें जिस तत्त्वका वर्णन किया गया है वह तत्त्व सब जीवोंमें मौजूद है। इसको विकल्परहित पुरुष ही देख सकते हैं। इस परमतत्त्वके दशानके बाधक विषय कषाय और विकल्प हैं। जगतमें जीवोंपर कैसा अंधेर मच रहा है कि है तो किसीका अन्य कुछ नहीं किन्तु कैसी मोह घूल इसकी बुद्धि पर पड़ी है कि बाह्य पदार्थोंको ये अपना स्वरूप मानते हैं। अमुक ज्ञात्य तत्त्व रहेगा तो हमारा जीवन है अन्यथा जीवन ही नहीं है ऐसी दौलता बसाती है। यह भ्रम न रहे तो इस आत्मामें सब समृद्धि ही समृद्धि है।

भैया! अपने में यह ज्ञानसमुद्र आगाथ, गम्भीर चिरसृत है पर इसके और उपयोग के बीच में रूपरहित सूक्ष्म विकल्पों की भीनी चादर ओढ़े आयी है, जिसके कारण यह उपयोग ज्ञानसांगर में स्नान नहीं कर सकता, छूत नहीं सकता, संताप मिटा नहीं सकता। सबसे बड़ा बैमव है बुद्धिका स्वच्छ रहना। बुद्धि की स्वच्छता के बैमवके समक्ष करोड़ोंकी सम्पत्ति भी न कुछ चौज है। कोई करोड़पति तो हो और उसकी बुद्धि अष्ट हो तो उस धन सम्पत्तिसे क्या आनन्द मिल सकता है? नहीं और कोई गरीब हो पर बुद्धि स्वच्छ हो तो उसका आनन्द कोई नहीं लट सकता। बुद्धिकी अत्यन्त स्वच्छता वहां होती है जहां इस शरीरके आघार-भूत चैतन्यतत्त्वका दर्शन होता है।

यहां सहज चैतन्य स्वरूपकी भावनाकी ला रधी है कि यह चैतन्य महान् तेज सदा जयवंत हो जो दिव्य योग मोक्षका देने वाला है। इस परमात्मतत्त्वका ही प्रारम्भसे लेकर अन्तिम विकास तक चमत्कार है। चौथे गुण स्थानसे लेकर सिद्धपर्यन्त इस परमतत्त्वका ही सारा चमत्कार है, पूर्व अवस्थामें तो इस परमतत्त्वकी प्रतीति है फिर निकट उत्तर अवस्था में इस परमतत्त्वका आलम्बन है। फिर और उत्तर अवस्थामें इस परमतत्त्व के उपयोगकी स्थिरता बढ़ बढ़कर जब एकत्र वितर्क अविचार नामक शुक्ल द्यान प्रकट होता है, तब इसका दिव्य योग कहलाता है, यह दिव्य योग मोक्षका देने वाला है।

मैया ! यह परमतत्त्व मुनिवरोंके मनमें सदा जयवंत होता है, जैसे जंगलमें भिलनियोंको गजमोती भिल जाए तो वे उसे पथर समझकर शरीरका मल धिसने में ही प्रयोग करती हैं। उनको तो गुडिचर्योंका ही परिचय है, वे भिलनियां उन गजमोतियोंको गुडचीकी श्रौणीमें ही मानती हैं। सो ऐसे गजमोतियोंका यदि भिलनियोंने अनादर किया तो करें, पर भिलनियोंके अनादर करने से क्या मोतियोंका अनादर हो जाता है ? मोतियोंके पहिनने वाले राजा, जौहरी, रानी, बड़े पुरुष उनका आशर करते हैं और बड़े प्रेमसे अपने कठमें धारण करते हैं। इसी प्रकार अपने आपमें वसे हुए इस परमात्मद्रव्यको यदि अज्ञानी जीवोंने अनादर व र दिया तो इन अज्ञानियोंके अनादर करनेसे यह चैतन्यस्वरूप, परमात्मतत्त्व क्या अनादृत हो जाएगा ? इसका परिचय पाने वाले बड़े योगीश्वर इस परमतत्त्वका बड़ा आदर करते हैं।

अज्ञानीजन भी उन योगीश्वरों का आदर वरते हैं और ज्ञानीजन भी करते हैं। अज्ञानीजन भी जो परमात्मतत्त्वको तो नहीं जानते, भगव उन योगीश्वरोंकी महिमाको किसी रूपमें समझते हैं। किस कारण योगीश्वरोंकी महिमा है ? यह अज्ञानी जीव नहीं जानते, किन्तु उनकी महिमा बड़ी है तो इस परमतत्त्वके आश्रयके कारण बड़ी है। ऐसा यह अपने आपमें सतत प्रकाशमान शिवस्वरूप परमतत्त्व जयवंत हो। इस परमतत्त्वका दर्शन जयवंत हो। इस परमतत्त्वका दिव्य योग जयवंत हो और इस परमतत्त्वका केवल असहायपूर्ण बोधरूप चमत्कार जयवंत हो।

यह परमतत्त्व विषय सुखमें रत होने वाले अज्ञानीजनोंको दुलंभ है जो पञ्चनिद्र्यके विषयोंमें आसक्त हैं जिन्हें बाह्य पदार्थ रूप रस आदि ही इष्ट बन रहे हैं, उन विषयासक पुरुषोंको इस परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुआ आरन्द विषय सुखोंसे अतीत है। वह काहेका सुख जिसके

भोगे जानेमें दुःख हो, भोगे जाने के पहिले दुःख हो, भोगे जा चुकने पर दुःख हो । यह गृह जंजालका सुख भी काहेका सुख है जिसके प्रारम्भमें दुःख है, जिसके वर्तमानमें दुःख हैं और जिसके अन्तमें दुःख है ।

लोग पुत्रादिकके समागमसे अपनेको महान् मानते हैं । भला बतलाओ तो सही कि जब पुत्रादिक उत्तरन्न नहीं हुए तब इच्छा करके, आशा करके हों, हों ऐसा सोचकर दुःख सहता रहा यह वाप, और जब पुत्रादि न हो गए तो उनकी रक्षामें जाना क्लेश सहे और जब बच्चे हिलने छुलने लायक हो गए तो वे बच्चे अपनी हठ दिखाकर वापको दुःखी करने लगे, और जब बच्चे और बड़े हो गए तो वापकी इच्छाके प्रतिकूल चल कर दुःखी किया वापकी । सदा कौन इसकी इच्छाको निभा सकता है ? कोई रागके आवेशसे किसीकी इच्छाको राख दे तो राख दे किन्तु कोई किसी परके आवीन नहीं है । सो दूसरेको मनचाही प्रवृत्तिसे बहुत दुःखी रहते हैं, जब वह वाप बूढ़ा हो गया तो उन्हीं बच्चोंने उसकी जायदाद पर कड़ा कर लिया, अब वह असदाय होकर दुःखी होता है । मानलो जीवन भर आराम ही पहुंचाया पुत्रोंने तो वियोगके उन चन्द मिनटोंमें सारे जीवन भरके भोगे हुए सुखकी कसर निकल जायेगी । बड़े क्लेशसे मरण होगा ।

भैया ! कौनसा जगतमें परपदार्थ ऐसा है जो इस जीवके सुखका कारण बन सकता हो ? किन्तु यह मोही पुरुष पंचनिद्रयके विषयोंके सुख में ही मौज मानता है, जैसे विष्ठाका कीड़ा विष्ठामें ही रहकर मौज मानता है, बाहर जाए तो किलविलाता है । जब तक अज्ञानका उदय है तब तक यह प्राणी विषयोंके सुखमें ही मौज मानता है । जब विषय छूट जाये, विषयोंसे छुट परे हो तो वही बेचैनी मचाता है । ऐसे विषय सुखों में आसक पुरुषोंको यह परमात्मनत्व दुलंभ है । ऐसा यह परमात्मनत्व उनके ही प्रकट होता है जो अपने स्वरूपको रागादिक भावोंसे मिन्न जानते हैं वे ही इस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानी बने रहते । रूप परम समाधिको प्राप्त करते हैं । किस प्रकार प्राप्त करते हैं अपना आत्मस्वरूप ? बहिरात्मस्वरूपसे हटकर, अज्ञानको त्याग कर अपने अन्तरात्मामें लगते हैं ।

इस अन्तरङ्ग आत्मतत्त्वके प्रकाशको लखकर कैसे परमात्मस्वरूप बनता है ? इसका उपाय और भर्म इस परमात्मप्रकाश भन्धमें घोगीन्दुष्टेष ने सरलतासे बताया है । अब यह परमात्मप्रकाश भन्ध पूर्ण होता है, तो जिसकी घर्षिके सम्बन्धसे बहुत लाभ प्राप्त किया तो उस चर्चाके छोड़ने

के समय जिसकी चर्चा हुई है उस परमतत्त्वकी भक्ति प्रकट करते हैं। कल्याणवाद बोलते हैं। जैसे कोई याचक किसी धड़े दयालु धनिक पुरुष से मनचाहा भोजन प्राप्त करे और उस दानीसे हित मित प्रिय शीतल वचन सुननेके बाद पूर्ण सन्तुष्ट होकर जब विदा होता है तब उसको आशीर्वाद देता है कि फलोफूलो, जयवंत होवो। ऐसी मंगलसूचक बात कहकर विदा होता है। इसो प्रकार यहां योगीन्दुदेव इस परम धनी सर्वसमृद्धिसम्पन्न एकमात्र सारभूत अपने धापमें बसे हुए अनादि अनन्त धृव चैत्र्य स्वरूपमय परमतत्त्वकी चर्चासे, दृष्टिसे बहुत बहुत तृप्ति पाने के बाद जब चर्चा कर चुकनेके बाद विश्राम ले रहे हैं तो आचार्यदेवके मुखसे जयवाद निकल रहे हैं।

बहु परमतत्त्व जयवंत हो जिसकी दृष्टिसे जीव अनाकुल होता है। बहु परमतत्त्व जयवंत हो जिसकी एकाग्र चिन्नासे बहु दिव्य योग बनता है, जिसके पश्चात् सर्वज्ञता प्रकट होती है। यह परमतत्त्व जयवंत हो जो विषय सुखमें रति करने वाले जीवोंको दुर्लम्ब है और मुनिवरोंके मनको सदा प्रसन्न रखने वाला है, ऐसे इस प्रथके बाच्यभूत चैत्र्यस्वरूप परम तेज जयवंत हो।

इनके जयवंत होनेकी बातमें यह आशय बना हुआ है कि इस परमतत्त्वके दर्शन, प्रतीति, आश्रय, आलम्बन, वपयोग और अनुरूप परिणामन द्वारा उत्तरोत्तर इस जयी हों, परस आत्मा हों, ऐसी इस भावनासे गमित परमतत्त्व है उसका जयवादरूप, अशीषकृप यहां मंगलबाद किया जारहा है और इस परमतत्त्वकी धुनिके साथ इसकी जयवादके साथ यह प्रथ आज समाप्त होता है। इस प्रथका नाम सार्थक है—परमात्माका प्रकाश कैसा है और जो चाहिए जीवको धापने हितके लिए वही इसमें बताया गया है। इसके स्वाध्यायसे, अध्ययनसे, ध्यानसे हम लोग अपने पाप संकटोंको दूर करें और सहज स्वाधीन आनन्दको प्राप्त करें।

श्री योगीन्दुदेव द्वारा विरचित यहां परमात्मग्रकाशक परमात्मग्रकाश प्रथ समाप्त हुआ है। इसके टीकाकार श्रीब्रह्मदेव सूरी है। वे कुछ अपने विषयमें कह रहे हैं। यह प्रथ आध्यात्मिक है जिसमें अत्माकी शिक्षा ली जाए ऐसा यह हितकारी प्रन्थ है। इस प्रथमें—संविधां प्रायः नहीं की गयी हैं। एक विभक्त्यंत पदसे दूसरे विभक्त्यंत पदका जो जोड़ किया जाता है उसे संविधि कहते हैं। सो कितनी ही जगह इस प्रथमें संविधि नहीं की गयी है और वाक्य भी भिन्न भिन्न आ गये हैं। यद्यपि शब्दशास्त्रके अनुसार उचित यह दूषण माना जा सकता है, किन्तु जीवोंको सुखपूर्वक

ज्ञान हो, सुगमतासे ज्ञान हो, इस ऐश्वर्यके कारण ही देसा किया गया कि इसमें संघि नहीं की।

कैसे भिन्न-भिन्न वाक्य बोले गये हैं। परिभाषा सूत्रमें भी उचित पदोंको संघियां नहीं हुईं। समासमें अन्तर भी हो गया हो, जिनने पदोंको मिलाकर समास किया जाए। उस बीच बुद्ध तोड़कर भी शेषका समास किया गया हो, ये सब बातें एक शब्दशास्त्रमें त्रिटिकी मानी जाती हैं। लेकिन इस प्रन्थमें ऐसा कवाचित हुआ हो तो उस त्रिटिकी ग्रहण न करना क्योंकि हमारा प्रयोजन पर्दित्ता है छांटना नहीं है, विःतु घट्टाण-कारक शुद्ध परमात्मतत्त्व जीवोंकी दृष्टिमें आ जाए— ऐसा बल भर किया है, इसी कारण कहीं लिग, बचन, क्रिया, कारक, संघि, समास, विशेषण, भावों और वाक्योंकी समाप्ति आदि कोई दूषण इसमें विद्युत्जनोंको ग्रहण न करना चाहिए।

इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थकी वृत्तिको जानकर भव्य जीवोंको बया करना चाहिए ? उत्तर देते हैं कि अपने आपमें अपने आपके स्वरूपकी भावना करनी चाहिए। यैं सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावघन हूँ, मैं अपने ही स्वभावरूप हूँ, इसमें परकी दखल नहीं है। मेरे स्वरूपकी किसी पर-पदार्थसे बाधा आती हो ऐसा त्रिकाल नहीं है। मेरा स्वरूप बेखल ज्ञान और आनन्द मात्र है, ऐसा यह मैं रथोन्निष्ठलप हूँ। अपने को छाननी और से अपने स्वभावसे देखना है और इस दृष्टिसे हैवने पर यह पवर्तन भूलना कि मैं निर्विकल्प हूँ। यद्यपि विकल्प हो रहे हैं किन भी विकल्पमें मेरी आत्मीयताकी भावना नहीं है। ये देवी चीज नहीं हैं। ऊँझे दो चार पुत्र हैं, उनमें से कोई एक लड़का कपन लिफल जाए, उदाहरणी तक्षल जाए तो वाय भी मना करता है कि यह मेरा पुत्र नहीं है। होते हुए भी मना करता है। सो यद्यपि इस आत्मामें गागादिक विकल्प-जाल उत्पन्न होते हैं पर ये उपाधिके संगसे विकाररूप हो गये हैं। ये यदि मेरे स्वरूपमें होते, मेरे ही संगसे मेरे ही सत्त्वके कारण ये बना करते होते तो मैं इन्हें अपने कहता। किन्तु ये रागादिक विकार पर-उपाधिके संरक्षण होते हैं। इन विकल्पों रूप में नहीं हूँ।

भैया ! जीव बेखल भावना बानते हैं। किसी परमार्थको बरते बुद्ध नहीं है। बड़े-बड़े काम को रहे हीं, दूकान चल रही हीं, बड़ी आय हो रही हीं, बड़े आरम्भके कार्य किए जा रहे हीं उस प्रसंगमें भी यह जीव बेखल भावना करता है। भावनाके अतिरिक्त यह जीव कोई बुद्ध बरता ही नहीं है। मैं किन्तु हूँ हसका निर्णय करनेके बाद यह मर्म समझमें

आता है कि मैं केवल भावोंको ही कर पाता हूँ। भावोंसे अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं करता। तब मैं अपने आपकी ऐसी भावना करूँ जैसा सहज सत्य बोलूँ। असत्यकी भावना छोड़ूँ। सत्यकी भावना करने से सत्य प्रकट होता है। अपने आपको जैसा मेरा स्वरूप नहीं है वैसा न मानो।

मैं गुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, परिवार वाला भी नहीं, किसी नगरका वासी भी नहीं, किसीका मित्र नहीं, किसीका बैरी नहीं, किसी का कुछ नहीं। देहसे भी निराजा अमूर्त ज्ञानप्रकाशमात्र सहज ज्योति-स्वरूप हूँ, निर्विकल्प हूँ। जैसा मेरा सहज स्वरूप है वैसी भावना से अनाकुलता उत्पन्न होती है और जो मेरा स्वरूप महीं है वैसी विपरीत उत्पन्नमें कलेश उत्पन्न होता है। मैं आत्मतत्त्व क्या हूँ? जैसा मैं हूँ वैसी भावना करना। यही इस प्रन्थका सार बताया है। मैं किसी परपदार्थका कर्ता नहीं हूँ। मैं कर्तृत्वसे रहित केवल अपने आपकी शक्तिमें परिणत उदासीन हूँ। मैं किसी पर गुरुसां करके किसीका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं परसे उदासीन हूँ। और यदि कोई उदासीन हो जाय वास्तविक मायने में उस परके प्रति क्रोध भाव ही न जाए तब तो उदासीन भी है और उत्कृष्ट भी है।

आत्मा चाहे उत्कृष्ट अवस्था में रहे, चाहे निष्कृष्ट अवस्थामें रहे पर यह रहता उदासीन है। यह समस्त द्रव्योंका स्वभाव है कि वह अपने आपमें ही परिणत होता है, परमें कुछ नहीं रहता। इसलिए सभी द्रव्य उदासीन हैं और जब मैं अपने सहजस्मार पर उछिड़ देता हूँ तब मैं परमार्थसे और हितकारी वृत्तिसे उदासीन हूँ। परमात्म प्रकाशग्रन्थकी समाप्तिके बाद करने थोग्य जो कार्य है वह बनाया जा रहा है। यह मैं स्वसम्बोद्धन ज्ञानके द्वारा प्राप्त किया जाने थोग्य हूँ। इसके सम्बन्धमें स्वरूपका आख्यान किया जा रहा है वह स्वरूप हमारे प्रहणमें आए, विकल्पमें आए तब तो हम जानेगे कि हाँ है यह स्वरूप। किन्तु हमारे प्रहणमें ही कुछ न आये और बात बोलते जाएँ तो उससे तो हमारा कुछ निर्णय न होगा कि हम हैं कुछ। वह तो एक रुद्धिवश अथवा शब्दोंसे बोलते चले आए हैं सो बोल दिया।

जैसे तोता भी राम राम रटता है और अनेक दोहे बोल जाता है पर उस तोते को उसकी भाव भासना जैसे न होती होगी, इसी प्रकार आत्माके सम्बन्धमें सब कुछ बोलकर भी यह अमूर्त है, आकाशवत् निर्लेप है और कठिन परिभाषाओं में यह अपने अशुश्लेष्य गुणके कारण निरन्तर

परिणमता है। सब कुछ बोल डाएं, पर द्वारा मेरे तो बुद्धि नहीं आया, पकड़में कोई बात नहीं आयी। यह आत्मा हमारे प्रहणमें कैसे आये? उसका उपाय ननाया है कि स्वसम्बेदन ज्ञान द्वारा ही हमारा आत्मा हमारे प्रहणमें आ सकता है उथान यह मेरा ज्ञान इस ज्ञानके ही स्वरूपमें जानने में लग जाय तो परदृष्टि हटकर ज्ञानमयको जानने के कारण ज्ञानका अनुभव करता हुआ यह ज्ञानको प्रहण कर सेता है। कैसा है वह स्वसम्बेदन ज्ञान? जहां स्वाभाविक आनन्दका अनुभव जग रहा है।

किसी परपदार्थपर दृष्टि न हो तो अथ चिता शल्य क्षोभ कुछ नहीं प्रकट होता है। क्षोभ परक्षो उपयोगमें लेनेसे ही होता है। जैसे किसी पुरुषको बड़े सुखके साधन भी मिले हों, सबके अनुकूल सर्वसामग्रियाँ खूब आती भी रहती हों, उसकी भी ऐसे सुख साधनके प्रसंगमें चूँकि राग का भार उपयोग पर जमा है सो हर्ष करते हुएके क्षोभ करता है। जगत में हर्ष और विषाद विना क्षोभ भी नहीं होता। जैसे क्षोभ विना क्लेश नहीं होता, इसी तरह क्षोभ विना, आकुलता विना हर्ष भी नहीं होता। हर्ष और विषाद दोनों स्थितियोंमें अन्तरमें आकुलता पढ़ी हुई है।

इन्द्रियके विषयोंका साधन क्या आकुलता विना, जड़ी शांतिके साथ कोई किथा करता है? कोई ढेहा हुए विना, क्षोभ हुए विना, आकुलता और विकल्पजाल हुए विना इत्रको भी यहां वहां कोई लपेटता है? आकुलता विना कोई भोजनको गलेसे गटागट उतार सकता है क्या? अब यह स्वाना है, अब यह साना है, कौर उठा रहे हैं, चबा रहे हैं, स्वाद विशेष है तो उसमें ही मस्त हो गए हैं। ये सारी मिन्न-मिन्न कियाएँ क्या आकुलता विना होती हैं? और भी जिनने इन्द्रिय विषयोंके साधन हैं वे सब आकुलतापूर्वक होते हैं। किन्तु आत्माका अनुभवरूप काम निराकुलताके अनुभवरूप ही होगा। जहां रंच भी हर्ष या विषादका क्षोभ है वहां स्वानुभव नहीं जगता। तो स्वसम्बेदन ज्ञान होने के लिए अपना शुद्ध आनन्दरूप अनुभव होना चाहिए।

मैंया! आत्माका आनन्द बाहर कहां गया? कहीं नहीं गया। अन्तरमें परिपूर्ण मौजूद है, पर जान तो जाय, ऐसा मान तो ले कि यह मैं केवल अपने स्वरूपस्तित्व मात्र हूँ। जो इसमें है वह यहांसे मिटता नहीं है, जाता नहीं है। जो इस सुभमें नहीं है वह तीनों कालमें किसी परबस्तुसे आता नहीं है। ऐसा अपने आपका स्वरूपाग्रित्त्व मात्र श्रद्धान हो, ज्ञान हो और ऐसा ही जाननेमें उपयोगकी स्थिरता हो तो ऐसी स्थिति में सहज आनन्दका अनुभव होता है। और ऐसे आनन्दके अनुभवपूर्दक

सुसम्बेदन ज्ञान द्वारा आत्माका ग्रहण होता है।

जिसने अपने आपकी प्राप्ति करली है, हृषि करली है उसने अजौकिक वैभव पाया है और जिसकी अपने आपके स्वरूप पर हृषि नहीं है वह लाहूवशीरमें लालों और करोड़ोंका वैभव संभाले हुए हो तो भी वह दीन है, गरीब है। वह अपने आपमें अपने को निर्भर, भरा हुआ अनुभव कर ही नहीं सकता। तो यह सहजआनन्द वीतराग अवस्थामें प्रकट होता है। यह वीतराग अवस्था अपने शुद्ध सहजस्वरूपमें अपने आपका अद्वान ज्ञान और अनुष्ठान हो तो ऐसे निश्चयभूत रत्नत्रय के आधारपर अथवा निविकल्प समाधिके आधार पर यह वीतराग सहज आनन्द जगता है और इस आनन्दके अनुभवनमात्र जो स्वसम्बेदन ज्ञान है उसके द्वारा मैं ग्रहणमें आता हूँ।

इस आत्माके सम्बन्धमें किसी सिद्धान्त ने ज्ञानमात्र कहा है, किसी सिद्धान्त ने दर्शन मात्र कहा है, किसी सिद्धान्त ने आनन्द मात्र कहा है। सो ये सब अनुभवनकी कलायें हैं। जब यह एक असेद समता परिणाममें रहता है उस समय जो रिति होती है उस स्थितिका वर्णन करने चले तो आनन्दकी प्रवानतासे वह वर्णन कर सकते हैं और ज्ञानकी प्रवानतासे भी वर्णन कर सकते हैं, इसलिए कोई तो इस आत्माको आनन्द मग मानता है और कोई आत्माको ज्ञानमय मानता है। यह जैन दर्शन इस आत्माको ज्ञानानन्दमात्र मान रहा है। आनन्द भी आत्माका असाधारण गुण है और ज्ञान भी आत्माका असाधारणगुण है परन्तु आनन्द के बल भोगनेकी चोज है, व्यवस्था करने वाली चीज नहीं है, और ज्ञान व्यवस्था करने वाला है। जो व्यवस्था करता है उसका बोलबाजा है और जो व्यवस्था नहीं कर सकता, चाहे वह कितने ही काममें आ रहा हो पर उसका बोलबाला नहीं है। इसी कारण आत्माका जब वर्णन होता है तो ज्ञायकर्त्वरूप की मुख्यतासे होता है।

आत्माका जानन अन्तरकी उन्मुखता करने द्वारा साध्य है। इसमें कुछ बड़े ज्ञानकी जहरत नहीं है कि हमें बड़े व्याकरण शब्द शास्त्रके ऊँचे पदोंका ज्ञान हो तब हम आत्माको जान सकेंगे। अरे इसे तो पशुपक्षी भी जान जाते हैं, नेत्रज्ञा, सांप, बदर, मेढ़क जिनकी हम तुच्छ गिनती करते हैं, ये छोटी-छोटी मछलियां मेढ़क, जिन-जिनके कान हैं, जिन जिनके मन है ऐसे छोटे जीव भी जो चाहे अंगुल दो अंगुल के ही हों वे तक भी अपने आत्माको पकड़ सकते हैं। यहाँ तो हम आप मनुष्य हैं और वचनों द्वारा अपने माव दूसरोंको बता देते हैं दूसरोंका भाव हम आप समझ लेते

हैं इस ओप आत्माको नहीं पकड़ सकते यह बात नहीं हो सकती। मगर जो बतन बताया है वह गत करके देखो। बातोंसे पकड़ नहीं होती।

जैसे किसी बच्चेको तैरनेकी सारी बातें सिखा दें, पानीमें यों गिरना, हाथोंको यों चलाना, पानीको यों फटफटाना, सिखा दिया बच्चे को। अब पानीमें छोड़ दो सिखा तो दिया ही है। अब वह बच्चा ठीक-ठीक तैर लेगा क्या? तो बच्चनोंसे सीखा हुआ बच्चा पानीमें तैर नहीं सकता। पानीमें गिरकर पड़कर कोशिश करता है, सीखा हुआ मनुष्य ही पानीमें तैर सकता है। इसी प्रकार शब्दों द्वारा ऐसी बात सीख ली जाने पर भो आत्माकी पकड़ नहीं हो सकती। शब्दोंसे सीखा हुआ हो अथवा न सीखा हुआ हो, जो स्वसम्बद्ध ज्ञानका यत्न करेगा वही इस आत्माको जान सकेगा।

अब करके क्या देखना है? किसी समय, किसी जगह अपने मन को अपनी और मोड़कर दृष्टा कर केन्द्रित करके किसीका कुछ न सोचो, सर्व पर हैं, सबका बोला है, किसीसे हित नहीं है ऐसा सामान्य ज्ञान करके सबको भुला दें, किसी को अपने उपयोग में न आने दें और ऐसा हृद साहस करके रह जाये—कुछ मुझे नहीं सोचना है, किसी भी परवस्तु का इमें व्याज नहीं करना है, ऐसा हृद साहस करके सर्व परको भुला दें तो ऐसी स्थितिमें यह ज्ञान-ज्ञानके स्वरूपको वेदकर ज्ञानसे भर जायेगा। ऐसा यह मैं हूं, स्वसम्बद्ध ज्ञान द्वारा गम्य हूं, भरा हूं।

मुझमें कोई विकार नहीं है। स्वरूपको देखकर बोला जा रहा है। मेरे सत्त्वके कारण मेरेमें कोई विकार नहीं होता। हृस कारण रागद्वेष मोह क्रोधादिक कषाय-पंचहृन्द्रियके विषयोंके व्यापार, मन, बच्चन कायकी चेष्टाएँ, भावकर्म, द्रव्यकर्म, शरीर इन सबसे रहित हूं। और अन्तरमें ल्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा, निदान, भिद्याभाव किसी प्रकारका शल्य इस मुझ आत्मामें नहीं है। इसे अपने स्वरूप सत्त्वके कारण जैसा है वैसा सोचा जा रहा है। मैं सर्व विभाव परिणामोंसे शून्य हूं, तीन लोक और तीन कालमें भी सर्व मन, बच्चन, कायोंसे मैं रहित हूं। केवल ज्ञायक स्वरूप हूं। और जैसा यह मैं हूं तैसे ही ये समस्त जीव हैं, ऐसी निरन्तर भावना करना चाहिए। यह सारभूत उपदेश इस परमात्मप्रकाश प्रन्थमें टीकाकारने बताया है।